



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50]
No. 50]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 12, 2005/अग्रहायण 21, 1927
NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 12, 2005/AGRAHAYANA 21, 1927

भारत परिसीमन आयोग

आदेश सं. 14

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2005

आ.अ. 61(अ).—परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 4 के साथ पठित धारा 8 के अनुसूचन में तथा इस संबंध में इसे सक्षम बनाने वाले अन्य सभी साविधिक और कानूनी उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए परिसीमन आयोग एतद्वारा यह नियत करता है :-

- (क) लोक सभा में छत्तीसगढ़ राज्य को आबंटित किए जाने वाले स्थानों की कुल संख्या ग्यारह (11) होगी ;
- (ख) लोक सभा में छत्तीसगढ़ राज्य को इस प्रकार आबंटित कुल ग्यारह (11) संख्या में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या क्रमशः एक (1) और तीन (3) होगी ;
- (ग) छत्तीसगढ़ राज्य की विधान सभा को नियत किए जाने वाले स्थानों की कुल संख्या नब्बे (90) होगी ; और
- (घ) छत्तीसगढ़ राज्य की विधान सभा को इस प्रकार नियत नब्बे (90) स्थानों की कुल संख्या में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या क्रमशः दस (10) और उन्नीस (29) होगी ।

[फा. सं. 282/छत्तीसगढ़/2005-खण्ड-III]

आदेश से,

शंगारा राम, सचिव

DELIMITATION COMMISSION OF INDIA

ORDER NO. 14

New Delhi, the 12th December, 2005

61(E).—In pursuance of Section 8 read with Section 4 of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002), and having regard to all other relevant Constitutional and statutory provisions in this regard, the Delimitation Commission hereby determines :-

- a) the total number of seats to be allocated to the State of Chhattisgarh in the House of the People as Eleven (11);
- b) of the total number of Eleven (11); seats so allocated to the State of Chhattisgarh in the House of the People, the number of seats to be reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes as One (1) and Three (3) respectively;
- c) the total number of seats to be assigned to the Legislative Assembly of the State of Chhattisgarh, as Ninety (90); and
- d) of the total number of ninety (90) seats so assigned to the Legislative Assembly of the State of Chhattisgarh, the number of seats to be reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes as Ten (10) and Twenty Nine (29) respectively.

[F. No. 282/CGH/2005-Vol. III]

By Order,

SHANGARA RAM, Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2005

आ.अ. 62(अ).—परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 9 की उप-धारा (2) के अनुसरण में, परिसीमन आयोग छत्तीसगढ़ राज्य में संसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए सह सदस्यों के विसम्मत प्रस्तावों के साथ एतद्वारा अपने प्रस्ताव प्रकाशित करता है तथा 29 दिसम्बर, 2005 (वीरवार) को उस तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करता है जिसको अब्बा जिसके पश्चात् वह उक्त प्रस्तावों पर आगे विचार करेगा।

2. इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में कोई आक्षेप या सुझाव सचिव, परिसीमन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 के पास उक्त तारीख तक या उसके पूर्व पहुँच जाने चाहिए।

प्रस्ताव

- (i) वे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र जिनमें छत्तीसगढ़ राज्य को (क) राज्य की विधान सभा तथा (ख) लोक सभा निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ विभक्त किया जाएगा तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित ऐसे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र और निर्वाचन क्षेत्रों का विस्तार क्रमशः सारणी (क) और (ख) में दर्शाए अनुसार होगा ;
- (ii) जहाँ सारणी (क) और (ख) में यथादर्शित किसी निर्वाचन क्षेत्र का नाम कोष्ठकों और (अ.जा.) शब्दों द्वारा सुभिन्न किया गया है वहाँ उस निर्वाचन क्षेत्र का स्थान अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है ; और

- (iii) जहाँ सारणी (क) और (ख) में यथादर्शित निर्वाचन क्षेत्र के नाम कोष्ठकों और (अ.ज.जा.) शब्दों द्वारा सुभिन्न किया गया है वहाँ उस निर्वाचन क्षेत्र का स्थान अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित है।

सारणी-क**विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा उनका प्रस्तावित विस्तार**

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम सं० व नाम	विस्तार
	1. कोटिया
1. भरतपुर-सोनहाट (अ.ज.जा.)	I. भरतपुर तहसील, II. सोनहाट तहसील, III. मनेन्द्रगढ़ तहसील (भाग)- (i) मनेन्द्रगढ़ रा.नि.मं. (भाग)- 1. घाघरा पटवार सर्किल, 2. कैलहारी पटवार सर्किल, 3. दुगला पटवार सर्किल, 4. कच्छौद पटवार सर्किल, 5. बिहारपुर पटवार सर्किल, 6. पेन्डी पटवार सर्किल, 7. बरबसपुर पटवार सर्किल, 8. नागपुर पटवार सर्किल, 9. बेलबहरा पटवार सर्किल, 10 लालपुर पटवार सर्किल तथा 11 मनेन्द्रगढ़ पटवार सर्किल
2. मनेन्द्रगढ़	I. मनेन्द्रगढ़ तहसील (भाग)- (i) खड़गवा रा.नि.मं. (भाग)- 13. कोदा पटवार सर्किल, 14. दावदांड पटवार सर्किल, 15. कटकोना पटवार सर्किल, 16. उधनापुर पटवार सर्किल, 17. चिरीमिरी पटवार सर्किल, 18. बरदाट पटवार सर्किल, 19 रतनपुर पटवार सर्किल तथा 20. खड़गवा पटवार सर्किल (ii) मनेन्द्रगढ़ रा.नि.मं. (भाग)- 12. पाराडोल पटवार सर्किल, मनेन्द्रगढ़ (नगरपालिका निगम), चिरीमिरी (नगरपालिका + बाह्य वृद्धि क्षेत्र) (भाग), झगराखण्ड (नगरपालिका) तथा (iii) बैकुण्ठपुर तहसील (भाग)- चिरमिरी नगरपालिका निगम (भाग)
3. बैकुण्ठपुर	I. मनेन्द्रगढ़ तहसील (भाग)- (i) खड़गवा रा.नि.मं. (भाग)- 21 बजारीडाण्ड पटवार सर्किल, 22. चिरमी पटवार सर्किल, 23. बडे साली पटवार सर्किल, 24. पोण्डी पटवार सर्किल, 25. जित्ता पटवार सर्किल, 26. बारी पटवार सर्किल, 27. बैमा पटवार सर्किल II. बैकुण्ठपुर तहसील (बैकुण्ठपुर नगरपालिका तथा छारछा जनगणनानगर को मिलाकर)
	2. सरगुजा
4. प्रेमनगर	I. सूरजपुर तहसील (भाग)- (i) रामानुजनगर रा.नि.मं. (ii) प्रेमनगर रा.नि.मं. (iii) सूरजपुर रा.नि.मं. (विश्रामपुर जनगणनानगर को मिलाकर), सूरजपुर (नगर पंचायत), (iv) पिलखा रा.नि.मं. (भाग) 41. कैलाशपुर पटवार सर्किल, 42. पेन्डारखी पटवार सर्किल, 43. साईका पटवार सर्किल तथा 44. कुरुवा पटवार सर्किल
5. भटगांव	I. सूरजपुर तहसील (भाग)- (i) भैयाथान रा.नि.मं. (ii) भटगांव रा.नि.मं. (तेलगांव जनगणना नगर को मिलाकर), (iii) पिलखा रा.नि.मं. (भाग) 32. कारवा पटवार सर्किल, 33. कल्याणपुर पटवार सर्किल, 34. मजीरा पटवार सर्किल, 35. लाटोरी पटवार सर्किल, 36 अजबनगर पटवार सर्किल, 37. कमालपुर पटवार सर्किल, 38. सिर्फिली पटवार सर्किल, 39. करमपुर पटवार सर्किल तथा 40. शिवनंदनपुर पटवार सर्किल
6. प्रतापपुर (अ.ज.जा.)	I. वाड़ाफनगर तहसील, II. प्रतापपुर तहसील
7. रामानुजगंज (अ.ज.जा.)	I. पाल तहसील (रामानुजगंज नगरपालिका को मिलाकर)

8. सामरी (अ.ज.जा.)	I. सामरी तहसील, II. राजपुर तहसील
9. लुण्डा (अ.ज.जा.)	I. लुण्डा तहसील, II. अम्बिकापुर तहसील (भाग)– (i) अम्बिकापुर-2 रा.नि.मं., (ii) अम्बिकापुर-1 रा.नि.मं. (भाग)– 6. नमना कला पटवार सर्किल, 13. बरघोषी पटवार सर्किल, 14. छिन्द कालो पटवार सर्किल, 15. काजी पटवार सर्किल, 16. कांठी पटवार सर्किल, 17. सोहगा पटवार सर्किल, 18. केरया पटवार सर्किल और 19. लवाईडीह पटवार सर्किल, (iii) लखनपुर रा.नि.मं. (भाग) 23. प्रतापपुर पटवार सर्किल, 24. अरगोती पटवार सर्किल, 25. लिपिनी पटवार सर्किल, 26. कटिन्डा पटवार सर्किल, 27. कुवरपुर पटवार सर्किल, 29. बेलडागी पटवार सर्किल, 31. अमलभीठी पटवार सर्किल और 32. सत्का पटवार सर्किल
10. अम्बिकापुर	I. अम्बिकापुर तहसील (भाग)–(i) अम्बिकापुर-1 रा.नि.मं. (भाग)– 5. अम्बिकापुर पटवार सर्किल, 7. जगदीशपुर पटवार सर्किल, 8. केशवपुर पटवार सर्किल, 9. लखी पटवार सर्किल, 10. सुखरी पटवार सर्किल, 11. मेन्डा कला पटवार सर्किल और 12. भीथी कला पटवार सर्किल, अम्बिकापुर (नगरपालिका), (ii) उदयपुर रा.नि.मं. (भाग)– 28. लखनपुर पटवार सर्किल, 20. कंवरी पटवार सर्किल, 33. लहपतरा पटवार सर्किल, 34. कोर्जा पटवार सर्किल, 35. लाला पटवार सर्किल, 36. लतोरी पटवार सर्किल, 37. कटकोना पटवार सर्किल और 38. खुतिगा पटवार सर्किल
11. सीतापुर (अ.ज.जा.)	I. सीतापुर तहसील, II. अम्बिकापुर तहसील (भाग)– (i) अम्बिकापुर-1 रा.नि.मं. (भाग)– 20. पोण्डीकला पटवार सर्किल, 21. नवानगर पटवार सर्किल और 22. बरगवा पटवार सर्किल
3. जशपुर	
12. जशपुर (अ.ज.जा.)	I. जशपुर तहसील (जशपुर नगर नगरपालिका को सम्मिलित करते हुए), II. बगीचा तहसील (भाग)– (i) सन्ना रा.नि.मं., (ii) बगीचा रा.नि.मं. (भाग)– 17. साहीडांड पटवार सर्किल, 18. रेंगाले पटवार सर्किल, 19. बगीचा पटवार सर्किल, 20. मैनी पटवार सर्किल, 21. सारडीह पटवार सर्किल, 22. जुरगुम पटवार सर्किल, 23. झिंकी पटवार सर्किल, 24. पसिया पटवार सर्किल, 25. पिराई पटवार सर्किल, 26. भीतघरा पटवार सर्किल और 27. सरबकम्बो पटवार सर्किल
13. कुनकुरी (अ.ज.जा.)	I. कुनकुरी तहसील
14. पत्थलगाँव (अ.ज.जा.)	I. पत्थलगाँव तहसील (पत्थलगाँव नगरपालिका को सम्मिलित करते हुए), II. बगीचा तहसील (भाग)–(i) कांसबेल रा.नि.मं., (ii) बगीचा रा.नि.मं. (भाग)– 28. माटोल पटवार सर्किल, 29. कुरीग पटवार सर्किल, 30. महुवाडीह पटवार सर्किल और 31. घोघार पटवार सर्किल
4. रायगढ़	
15. लैलूगा (अ.ज.जा.)	I. लैलूगा तहसील, II. घरघोड़ा तहसील (भाग)– (i) तमनार रा.नि.मं., II. रायगढ़ तहसील (भाग)–(i) रायगढ़-1 रा.नि.मं. (भाग)– (रायगढ़ नगरपालिका को छोड़कर)

16. रायगढ़	1. रायगढ़ तहसील (भाग)-(i) रायगढ़ -2 रा.नि.मं., (ii) रायगढ़ -1 रा.नि.मं. (भाग)- रायगढ़ नगरपालिका निगम तथा बाह्य विकास, (iii) पुस्तौर रा.नि.मं. (भाग)- 22. डुमरमुड़ा पटवार सर्किल, 23. गढ़ उमरिया पटवार सर्किल, 24. कोण्डातराई पटवार सर्किल, 30. औरदा पटवार सर्किल, 31. नवापारा पटवार सर्किल, 32. नेतनागर पटवार सर्किल, 33. छपोरा पटवार सर्किल, 34. महलोई पटवार सर्किल, 35. पुस्तौर पटवार सर्किल, 36. तडोला पटवार सर्किल, 37. कोटासुरा पटवार सर्किल, 41. छिछोर उमरिया पटवार सर्किल, 42. पड़ीगांव पटवार सर्किल और 43. कोइपाली पटवार सर्किल, II. सारंगढ़ तहसील (भाग)- (i) सरिया रा.नि.मं. (भाग)-29. छुवाटीपाली पटवार सर्किल, 30. बोण्डा पटवार सर्किल, 31. नदीगांव पटवार सर्किल, 32. लुकापारा पटवार सर्किल, 33. सांकरा पटवार सर्किल, 34. सरिया पटवार सर्किल, 35. पंचघाट पटवार सर्किल, 36. जलगढ़ पटवार सर्किल और 37. बाड़ पटवार सर्किल
17. सारंगढ़ (अ.जा.)	1. सारंगढ़ तहसील (भाग) (सारंगढ़ नगरपालिका को शामिल करते हुए) (i) हरदी रा.नि.मं., (ii) सारंगढ़ रा.नि.मं., (iii) बरमकेला रा.नि.मं. (IV) सरिया रा.नि.मं. (भाग)- 38. डभरा पटवार सर्किल, 39. संडा पटवार सर्किल और 40. अमेरी पटवार सर्किल,
18. खरसिया	1. खरसिया तहसील (खरसिया नगरपालिका को सम्मिलित करते हुए), II. रायगढ़ तहसील (भाग)- (i) किरोड़ीमल नगर रा.नि.मं., (ii) पुस्तौर रा.नि.मं. (भाग)-25 कवरहा पटवार सर्किल, 26. गोरई पटवार सर्किल, 27. नवापारा (टी एच) पटवार सर्किल, 28. जतरी पटवार सर्किल, 29. तेतला पटवार सर्किल, 38. तिलगी पटवार सर्किल, 39. बड़े भण्डार पटवार सर्किल और 40. बुनगा पटवार सर्किल
19. धर्मजयगढ़ (अ.ज.जा.)	1. उदयपुर (धर्मजयगढ़) तहसील, II. घटघोड़ा तहसील (भाग)- (i) घटघोड़ा रा.नि.मं. (घटघोड़ा नगरपंचायत को सम्मिलित करते हुए)
5. कोरबा	
20. रामपुर (अ.ज.जा.)	1. कटतला तहसील, II. कोरबा तहसील (भाग)- (i) कोरबा रा.नि.मं., (ii) भैसमा रा.नि.मं. (रजगामार जनगणनानगर को सम्मिलित करते हुए)
21. कोरबा	1. कोरबा तहसील (भाग)-(i) कोरबा (नगरनिगम) (भाग)- वार्ड सं० 1 से 32, II. कटघोरा तहसील (भाग)-(i) कोरबा (नगर निगम) (भाग) - वार्ड सं 33 से 44
22. कटघोरा	1. पाली तहसील (भाग)- (i) हरदी बाजार रा.नि.मं., II. कटघोरा तहसील (भाग)- (i) हरदी बाजार रा.नि.मं., दीपका (जनगणनानगर), (ii) कटघोरा रा.नि.मं., कोरबा (नगर निगम) (भाग)-वार्ड सं० 45 से 51, कटघोरा नगर पंचायत
23. पाली-तानाखार (अ.ज.जा.)	1. कटघोरा तहसील (भाग)-(i) पसान रा.नि.मं., (ii) पोड़ी-उपरोड़ा रा.नि.मं., II. पाली तहसील (भाग)-(i) पाली रा.नि.मं.
6. बिलासपुर	
24. मरवाही (अ.ज.जा.)	1. मरवाही तहसील (नया), II. पेण्ड्रा रोड़ तहसील (भाग)-(i) पेण्ड्रा रा.नि.मं., (ii) पेण्ड्रा (नगरपालिका), (iii) गौरेला रा.नि.मं. (भाग)- 19. मेडुका पटवार सर्किल, 20. कोरजा पटवार सर्किल, 21. नेवसा पटवार सर्किल, 22. लालपुर पटवार सर्किल और 23. गौरेला पटवार सर्किल, गौरेला (नगरपालिका)

25. कोटा (अ.ज.जा.)	I. कोटा तहसील (भाग)-(रतनपुर नगरपालिका और कोटा नगरपालिका) (रतनपुर रा.नि.मं. 16. रानीगांव पटवार सर्किल और 19. जोशी पटवार सर्किल को छोड़कर) II. पेण्डारोड़ तहसील (भाग)-(i) गौरेला रा.नि.मं. (भाग)-24. तराईगांव पटवार सर्किल, 25. सारबहरा पटवार सर्किल, 34. जोगीसारा पटवार सर्किल और 35. बस्ती पटवार सर्किल,
26. लोरमी	लोरमी तहसील (लोरमी नगरपालिका को सम्मिलित करते हुए)
27. मुंगेली (अ.जा.)	I. मुंगेली तहसील (भाग)-(i) मुंगेली रा.नि.मं. (मुंगेली नगरपालिका + बाह्य वृद्धि क्षेत्र), (ii) जरहागांव रा.नि.मं.
28. तखतपुर	I. तखतपुर तहसील
29. बिल्हा	I. बिल्हा तहसील (बोदरी नगरपालिका और बिल्हा नगर पालिका को सम्मिलित करते हुए), II. मुंगेली तहसील (भाग)-(i) पशरिया रा.नि.मं., III. बिलासपुर तहसील (भाग)- (i) बिलासपुर रा.नि.मं. (भाग)- 23. तिफरा पटवार सर्किल, बिलासपुर नगर निगम (भाग)- बिलासपुर (नगर निगम)-वार्ड सं० 39, बिलासपुर (नगर निगम) वार्ड सं० 54 और बिलासपुर (नगर निगम)-वार्ड सं० 55
30. बिलासपुर	बिलासपुर (नगरपालिका निगम + बाह्य वृद्धि क्षेत्र) (भाग)-बिलासपुर (नगर निगम)- वार्ड सं० 1 से 38 और वार्ड सं० 44 से 53
31. बेलतरा	I. कोटा तहसील (भाग)-(i) रतनपुर रा.नि.मं. (भाग)-16. रानीगांव पटवार सर्किल और 19. जोशी पटवार सर्किल, II. बिलासपुर तहसील (भाग)-(i) बेलतरा रा.नि.मं., (ii) बिलासपुर रा.नि.मं. (भाग)- 13. भटारी पटवार सर्किल, 14. पेण्डूवा पटवार सर्किल, 15. लोफांडी पटवार सर्किल, 16. सेन्दरी पटवार सर्किल, 17. कोनी पटवार सर्किल, 19. मोपका पटवार सर्किल, 20. सरकण्डा पटवार सर्किल, 21. मंगला पटवार सर्किल और 22. जूना बिलासपुर पटवार सर्किल, बिलासपुर (नगरपालिका + बाह्य वृद्धि क्षेत्र) (भाग)- बिलासपुर (नगर निगम)-वार्ड सं० 40 से 43, तहसील में कोई अन्य इकाई, फदहाखार (ग्रामीण)
32. मस्तूरी (अ.जा.)	I. मस्तूरी तहसील, II. बिलासपुर तहसील (भाग)-(i) बिलासपुर रा.नि.मं. (भाग)- 24. देवरी खुर्द पटवार सर्किल
7. जांजगीर-चाम्पा	
33.-अकलतरा	I. जांजगीर तहसील (भाग)-(i) बलौदा रा.नि.मं. (भाग)-20. चारपाड़ा पटवार सर्किल, 21. बलौदा पटवार सर्किल, 22. कोरबी पटवार सर्किल, 23. खिसोरा पटवार सर्किल, 24. बुड़गाहन पटवार सर्किल, 25. पंतोरा पटवार सर्किल, 26. पुरेना पटवार सर्किल, 27. खैजा पटवार सर्किल, 28. रसौदा पटवार सर्किल, 29. जावलपुर पटवार सर्किल, 30. जर्वे पटवार सर्किल, 31. करमन्दा पटवार सर्किल और 32. पहरिया पटवार सर्किल, बलौदा (नगरपालिका), (ii) अकलतरा रा.नि.मं.-1. चंगोरी पटवार सर्किल, 2. मधुवा पटवार सर्किल, 3. पौड़ीदत्ता पटवार सर्किल, 4. कोटमी सोनार पटवार सर्किल, 5. करूमहू पटवार सर्किल, 6. पकरिया पटवार सर्किल, 7. अकलतरा नगरपालिका पटवार सर्किल

	8. तरौद पटवार सर्किल, 9. नरियरा पटवार सर्किल, 10. पकरिया पटवार सर्किल, 11. किराडी पटवार सर्किल, 12. तागा पटवार सर्किल, 13. तिलाई पटवार सर्किल, 14. कापन पटवार सर्किल, 15. बारगांव पटवार सर्किल, 16. कोटगार पटवार सर्किल, 17. कटनाई पटवार सर्किल, 18. हटदी पटवार सर्किल और 19. भैसातारा पटवार सर्किल, अकलतरा (नगरपंचायत)
34. जांजगीर-चांपा	I. नवागढ़ तहसील (भाग)-(i) नवागढ़ रा.नि.मं. (नवागढ़ नगरपालिका को सम्मिलित करते हुए) II. जांजगीर तहसील (भाग)-(i) जांजगीर रा.नि.मं., नैला जांजगीर (नगरपालिका), चांपा (नगरपालिका) III. जांजगीर तहसील (भाग)-(i) बलौदा रा.नि.मं. (भाग)- 33. लछनपुर पटवार सर्किल, 34. बीरगहनी पटवार सर्किल और पिसौद पटवार सर्किल,
35. शक्ती	I. शक्ती तहसील (शक्ती नगरपंचायत को सम्मिलित करते हुए), II. चाम्पा तहसील (भाग)-(i) चांपा रा.नि.मं.
36. मालखरोदा	I. डभरा तहसील, II. मालखरोदा तहसील (भाग)-(i) मालखरोदा रा.नि.मं. (भाग)- 1. मोहडी कला पटवार सर्किल, 2. सोनाडुला पटवार सर्किल, 3. अमरडुला पटवार सर्किल, 5. मालखरोदा पटवार सर्किल, 6. पोता पटवार सर्किल, 7. सकर्ण पटवार सर्किल, 8. अडभार पटवार सर्किल, 9. फगूराम पटवार सर्किल, 10. बोडासागर पटवार सर्किल, 11. सिंघरा पटवार सर्किल, और 12. नागझर पटवार सर्किल, अडभार नगर पंचायत
37. चन्द्रपुर	I. जैजैयपुर तहसील, II. चाम्पा तहसील (भाग)-(i) बमनीडीह रा.नि.मं. II. मालखरोदा तहसील (भाग)-(i) मालखरोदा रा.नि.मं. (भाग)-4. बडे सीपत पटवार सर्किल, 13. छपोरा पटवार सर्किल, 14. अमलीडीह पटवार सर्किल, 15. भेडीकोना पटवार सर्किल, 16. घोघरी पटवार सर्किल,
38. पामगढ़ (अ.जा.)	I. पामगढ़ तहसील, II. नवागढ़ तहसील (भाग)-(i) शिवरी नारायण रा.नि.मं., शिवरी नारायण नगरपंचायत
8. महासमुन्द	
39. सराईपाली (अ.जा.)	I. सराईपाली तहसील (सराईपाली (नगरपंचायत) सम्मिलित करते हुए) II. बसना तहसील (भाग)-(i) भंवरपुर रा.नि.मं. (भाग)- 1. बडेसाजापाली पटवार सर्किल, 2. लोहारीनडीपा पटवार सर्किल, 3. सालखण्ड पटवार सर्किल, 4. बिछिया पटवार सर्किल, 5. दुलारपाली पटवार सर्किल, 6. उमरिया पटवार सर्किल, 7. भंवरपुर पटवार सर्किल, 8. जामदरहा पटवार सर्किल, 9. चनत पटवार सर्किल,
40. बसना	I. बसना तहसील (भाग) (बसना सी टी सम्मिलित करते हुए -(i) बसना रा.नि.मं., बसना नगर पंचायत, (ii) भंवरपुर रा.नि.मं. (भाग)- 10. बिजरा भाटा पटवार सर्किल, 11. चन्द्रपुरी पटवार सर्किल, 12. बारादोली पटवार सर्किल, 13. घानापाली पटवार सर्किल, II. महासमुन्द तहसील (भाग) (i) सांकटा रा.नि.मं. (ii) पिथौरा रा.नि.मं. (भाग) 21. अर्जुनी पटवार सर्किल, 22. पिथौरा पटवार सर्किल, 29. आमोदीडीह पटवार सर्किल, 30. राजासेवैया खुर्द पटवार सर्किल, 31. भोकलुडीह पटवार सर्किल, 32. बालडीडीह पटवार सर्किल, पिथौरा (नगरपंचायत)

41. खल्लारी	I. महासमुन्द तहसील (भाग)-(i) कोमाखान रा.नि.मं. (ii) खल्लारी रा.नि.मं., बागबाहरा (नगरपालिका), (iii) पिथौरा रा.नि.मं. (भाग)- 18. खुसरूपाली पटवार सर्किल, 19. कसहीबहरा पटवार सर्किल, 20. गढ़बेडा पटवार सर्किल, 23. ठाकुरदिया खुर्द पटवार सर्किल, 24. कोतादाद पटवार सर्किल, 25. कोदोपाली पटवार सर्किल, 26. कौलदा पटवार सर्किल, 27. चुनूपाली पटवार सर्किल, 28. बुंदेली पटवार सर्किल
42. महासमुन्द	I. महासमुन्द तहसील (भाग)-(i) पटेवा रा.नि.मं. (ii) महासमुन्द रा.नि.मं., महासमुन्द नगरपालिका
9. रायपुर	
43. बिलाईगढ़ (अ.जा.)	I. बिलाईगढ़ तहसील (बिलाईगढ़ नगरपंचायत सम्मिलित करते हुए) II. कसडोल तहसील (भाग)-(i) गिथौरी रा.नि.मं.
44. कसडोल	I. पलारी तहसील, II. कसडोल तहसील (भाग)-(i) कसडोल रा.नि.मं., कसडोल नगरपंचायत (नया) II. बलोदाबाजार तहसील (भाग)-(i) लवन रा.नि.मं. (लवन नगरपंचायत सम्मिलित करते हुए)
45. भाटापारा	I. भाटापारा तहसील, II. बलोदाबाजार तहसील (भाग)-(i) बलोदाबाजार रा.नि.मं., बलोदाबाजार नगरपालिका
46. सिमगा	I. सिमगा तहसील (सिमगा नगरपंचायत सम्मिलित करते हुए) II. तित्दा तहसील (भाग)-(i) तित्दा रा.नि.मं., तित्दा नेवरा (नगरपालिका + बाह्य विकास)
47. धरसीवा	I. तित्दा तहसील (भाग)-(i) खरोरा रा.नि.मं., खरोरा नगरपंचायत, II. रायपुर तहसील (भाग)-(i) धरसीवा-1 रा.नि.मं., (ii) धरसीवा-2 रा.नि.मं. (iii) रायपुर-1 रा.नि.मं. (भाग)-24. शंकरनगर पटवार सर्किल, 25. तुलसी पटवार सर्किल, 26. सेरीखंडी पटवार सर्किल.
48. रायपुर ग्रामीण	I. रायपुर तहसील (भाग)-(i) रायपुर-2 रा.नि.मं., नगरपालिका बीरगांव, (ii) रायपुर-1 रा.नि.मं. (भाग) 32. टाटीबंद पटवार सर्किल, 35. बोरिया खुर्द पटवार सर्किल, 36. सेजबहार पटवार सर्किल, 37. बोरिया कला पटवार सर्किल, 38. दुमारतराई पटवार सर्किल 39. माना पटवार सर्किल, रायपुर (नगर निगम) (भाग) तिकरापारा (तालपुर), पूरेना (बाह्य विकास)- वार्ड सं० 59, फुन्डहर (फैन्डहर), अमलीडीह, अमलीडीह (बाह्य विकास)-वार्ड सं० 60, लमान्डीह, लमान्डीह (बाह्य विकास)-वार्ड सं० 58, तेलीबांघा (बाह्य विकास)-वार्ड सं० 57, सडदू (सरदू). दलदल सिबनी, शंकरनगर (बाह्य विकास)-वार्ड सं० 56, मोआ (सी टी)-वार्ड सं० 1, भानपुरी (सी.टी.)-वार्ड सं० 1, गोंदवारा, गोर्गांव (सी टी) वार्ड सं० 1, खमतराई (बाह्य विकास)-वार्ड सं० 66, सोनडोगरी
49. रायपुर नगर पश्चिम	I. रायपुर तहसील (भाग)-रायपुर (नगर निगम) (भाग)-रायपुर (नगरनिगम)-वार्ड सं० 1 से 11, वार्ड सं० 53 और वार्ड सं० 54, तेतीबांघा (बाह्य विकास)-वार्ड सं० 64, रायपुरा (बाह्य विकास)-वार्ड सं० 63, सरोना, हीरापुर जरवे (बाह्य विकास)-वार्ड सं० 65, जरवे उर्फ हीरापुर, चोंदनीडीह और अटारी

50. रायपुर नगर उत्तर	I. रायपुर तहसील (भाग)—रायपुर (नगर निगम) (भाग)—रायपुर (नगर निगम)—वार्ड सं० 12 से 33
51. रायपुर नगर दक्षिण	I. रायपुर तहसील (भाग)—रायपुर (नगर निगम) (भाग)—रायपुर (नगर निगम)—वार्ड सं० 34 से 52 और 55, चंगोराभाटा (बाह्य विकास)—वार्ड सं० 61, भाटागाँव, मठपुरेना
52. आरंग (अ.जा.)	I. आरंग तहसील (भाग)—(i) मंदिर हसीद रा.नि.मं., (ii) आरंग रा.नि.मं. (भाग)— 23. लखोली पटवार सर्किल, 24. रासनी पटवार सर्किल, 25. खामतडाई पटवार सर्किल, 26. फरफौद पटवार सर्किल, 27. बाना पटवार सर्किल, 28. कोसरांगी पटवार सर्किल, 29. मैसा पटवार सर्किल, 30. खोरसी पटवार सर्किल, 31. भण्डार पटवार सर्किल, 32. कोसरांगी पटवार सर्किल, 33. पिठदा पटवार सर्किल, 34. अमोदी पटवार सर्किल, 35. कुसुम पटवार सर्किल, 36. कुसुम पटवार सर्किल, 37. तुलसी पटवार सर्किल, 38. सफरी पटवार सर्किल, 39. बनरसी पटवार सर्किल, 40. देवदी पटवार सर्किल, 41. गुल्लू पटवार सर्किल, 42. आरंग पटवार सर्किल, 43. पाटागाँव पटवार सर्किल, आरंग नगरपंचायत
53. अमनपुर	I. अमनपुर तहसील (गोबदा नवापाड़ा नगरपालिका सम्मिलित करते हुए), II. आरंग तहसील (भाग)—(i) आरंग रा.नि.मं. (भाग)— 44. निसदा पटवार सर्किल, 45. भिलाई पटवार सर्किल, 46. चरीदा पटवार सर्किल, 47. बन चरीदा पटवार सर्किल और 48. गौरभाट पटवार सर्किल,
54. राजिम	I. राजिम तहसील (राजिम नगरपंचायत नया सम्मिलित करते हुए), II. बिन्दानवागढ़ तहसील (भाग)—(i) छुरा रा.नि.मं., (ii) गरियाबन्द रा.नि.मं. (भाग)— 20. क्येचबे पटवार सर्किल और 21. मलगोँव पटवार सर्किल
55. बिन्दानवागढ़	I. देवभोग तहसील, II. बिन्दानवागढ़ तहसील (भाग)—(i) मैनपुर रा.नि.मं., (ii) गरियाबन्द रा.नि.मं. (भाग)— 17. पीपरछेडी फला पटवार सर्किल, 18. फूलफरी पटवार सर्किल, 19. परझूली पटवार सर्किल, 22. पबटमोहदा पटवार सर्किल, 23. माजराकटा पटवार सर्किल, 24. पाटागाँव पटवार सर्किल, 25. गरियाबन्द पटवार सर्किल, 26. नहरगाँव पटवार सर्किल, 27. परझूली खुर्द पटवार सर्किल, 28. अमादी पटवार सर्किल, 29. बिन्दानवागढ़ पटवार सर्किल, और 30. धवलपुरडीह पटवार सर्किल,
10. धमतरी	
56. सिहावा (अ.ज.जा.)	I. नगरी तहसील, II. कुसुम तहसील (भाग)—(i) मगरलोड रा.नि.मं. (भाग)— 35 सोनेवाड़ा पटवार सर्किल, 36. मोहदी पटवार सर्किल, 37. बेलोरा पटवार सर्किल, 38. मगरलोड पटवार सर्किल, 39. छिपाली पटवार सर्किल, 45. खिसोरा पटवार सर्किल, 46. भोखिडीह पटवार सर्किल, 47. अमलीडीह पटवार सर्किल, 48. बेलरदोना पटवार सर्किल, 49. पबट पटवार सर्किल, 50. मोहेरा पटवार सर्किल, और 51. सिंगपुर पटवार सर्किल
57. कुसुम	I. कुसुम तहसील (भाग)—(i) कुसुम रा.नि.मं., कुसुम (नगरपंचायत), (ii) मगरलोड रा.नि.मं. (भाग)— 40. मेघा पटवार सर्किल, 41. केरली पटवार सर्किल, 42. चांदना पटवार सर्किल, 43. भेंदी पटवार सर्किल, 44. कुडेल पटवार सर्किल
58. धमतरी	I. धमतरी तहसील (धमतरी नगरपालिका सम्मिलित करते हुए)

	11. दुर्ग
59. संजारी बालोद	I. गुम्हट तहसील और II. संजारी बालोद तहसील (भाग) - (i) बालोद रा.नि.मं. (बालोद नगरपंचायत सम्मिलित करते हुए)
60. डोंडी लोहाड़ा (अ.ज.जा.)	I. संजारी बालोद तहसील (भाग)-(i) दल्ली राजहरा रा.नि.मं. (दली-राजहरा नगरपालिका + बाह्य विकास सम्मिलित करते हुए) और II. डोंडीलोहाड़ा तहसील (भाग)-(i) डोंडीलोहाड़ा रा.नि.मं., (ii) खेरथा रा.नि.मं. (भाग)-9. खेरथा पटवार सर्किल, 10. संजारी पटवार सर्किल, 11. अछोली पटवार सर्किल, और 12. गारका पटवार सर्किल
61. गुम्हटदेही	I. गुम्हटदेही तहसील (गुम्हटदेही नगरपंचायत सम्मिलित करते हुए) और II. डोंडीलोहाड़ा तहसील (भाग)-(i) खेरथा रा.नि.मं. (भाग)-1. पिनकापार पटवार सर्किल, 2. चेन्दरीवन नवागाँव पटवार सर्किल, 3. जेवरतला पटवार सर्किल, 4. रानीतराई पटवार सर्किल, 5. नाहदा पटवार सर्किल, 6. खमताराई पटवार सर्किल, 7. राधो नवागाँव पटवार सर्किल, 8. देवरी पटवार सर्किल, 13. मुड़िया पटवार सर्किल, 14. सूरगाँव पटवार सर्किल, 15. पसौद पटवार सर्किल, 16. फरदफोड पटवार सर्किल, 17. सिंगपुर पटवार सर्किल, 18. हड़गाहन पटवार सर्किल, 19. काशीकला पटवार सर्किल और 20. बुदेली पटवार सर्किल
62. पाटन	I. पाटन तहसील (भाग)-(i) पाटन रा.नि.मं., (ii) भिलाई रा.नि.मं., पाटन नगरपंचायत और कुम्हारी नगरपालिका II. धमथा तहसील (भाग) - कुम्हारी नगरपालिका (भाग)
63. दुर्ग ग्रामीण	I. दुर्ग तहसील (भाग)-(i) अंडा रा.नि.मं., (ii) दुर्ग-II रा.नि.मं. (iii) दुर्ग-1 रा.नि.मं. (भाग)-5. अंजोरा पटवार सर्किल, और 18. पुलगाँव पटवार सर्किल और भिलाई नगर (नगर निगम) (भाग)-भिलाई नगर (नगर निगम)-वार्ड सं0 54, 55, 58 से 67
64. दुर्ग शहर	I. दुर्ग तहसील (भाग)-दुर्ग (नगर निगम)
65. भिलाई नगर	I. दुर्ग तहसील (भाग)-भिलाई नगर (नगर निगम) (भाग)-भिलाई नगर (नगर निगम) वार्ड सं0 17, 27 से 53, 56 और 57
66. वैशाली नगर	I. दुर्ग तहसील (भाग)-भिलाई नगर (नगर निगम) (भाग)-भिलाई नगर (नगर निगम) वार्ड सं0 1 से 16 और 18 से 26
67. अहिवाड़ा (अ.जा.)	I. धमथा तहसील (भाग)-(i) अहिवाड़ा रा.नि.मं. (भाग)-25. कौड़िया पटवार सर्किल, 26. अहेरी पटवार सर्किल, 28. मेड़सरा पटवार सर्किल, 29. नन्दनी खुदनी पटवार सर्किल, 35. सेमरिया पटवार सर्किल, 36. खपरी पटवार सर्किल, 37. पहरा पटवार सर्किल, 38. गोढ़ी पटवार सर्किल, 39. ओटेबन्द पटवार सर्किल, 40. कपसदा पटवार सर्किल, 41. अछोटी पटवार सर्किल, 42. नारथा पटवार सर्किल, 43. खेरथा पटवार सर्किल, 44. नन्दौरी पटवार सर्किल, 45. लिमतरा पटवार सर्किल, अहिवाड़ा (नगरपालिका), जामूल (नगरपालिका) (भाग), नगरपालिका भिलाई चरोदा, भिलाई चरोदा (नगरपालिका) (भाग), II. दुर्ग तहसील (भाग)-(i) दुर्ग-I रा.नि.मं. (भाग)-1. अंजोरा ढावा पटवार सर्किल, 7. भेड़सर पटवार सर्किल, 8. सिरसा खुर्द पटवार सर्किल, 9. कटंजा भिलाई पटवार सर्किल, 10. ननकट्टी पटवार सर्किल, 11. अरसनारा पटवार सर्किल, और 12. ढौर पटवार सर्किल, जामूल (नगरपालिका) (भाग) और III. पाटन तहसील (भाग)-भिलाई चरोदा (नगरपालिका) (भाग)-भिलाई चरोदा (नगरपालिका) वार्ड सं0 4, 6 से 28

68. साजा	I. साजा तहसील (साजा नगरपंचायत सम्मिलित करते हुए), II. धमघा तहसील (भाग)– (I) धमघा रा.नि.मं. और धमघा (नगरपंचायत)
69. बेमेतरा	I. बेरला तहसील (बेरला नगरपंचायत सम्मिलित करते हुए II. बेमेतरा तहसील (भाग)– (I) बेमेतरा रा.नि.मं. (भाग) 24. बहेरा पटवार सर्किल, 25. पिक्की पटवार सर्किल, 26. सिधौरी पटवार सर्किल, 27. निनवा पटवार सर्किल, 28. खिलोरा पटवार सर्किल, 30. बाबाभोहरा पटवार सर्किल, 31. कोबिया पटवार सर्किल, 32. बीजाभाट पटवार सर्किल, 33. पधरी पटवार सर्किल, 34. कुसमी पटवार सर्किल और 35. जेवरा पटवार सर्किल, बेमेतरा (नगरपंचायत) और III. धमघा तहसील (भाग)–(I) अहिवाडा रा.नि.मं. (भाग)– 30. बिरोदा पटवार सर्किल, 31. दारगांव पटवार सर्किल, 32. डेंगाभाट पटवार सर्किल, 33. मोहरेंगा पटवार सर्किल, और 34. पेण्डतराई पटवार सर्किल,
70. नवागढ़ (अ.जा.)	I. नवागढ़ तहसील और II. बेमेतरा तहसील (भाग)–(I) खण्डसरा रा.नि.मं. (II) बेमेतरा रा.नि.मं. (भाग) 20. भनसूती पटवार सर्किल, 21. बालसमुन्द पटवार सर्किल, 22. दारा पटवार सर्किल, 23. बिलाई पटवार सर्किल, 36. अर्जुनी पटवार सर्किल, 37. मोहरेंगा पटवार सर्किल, 38. पौसरी पटवार सर्किल, 39. झिरिया पटवार सर्किल और 40. मऊ पटवार सर्किल
12. कबीरघाट	
71. पंडरिया	I. पंडरिया तहसील (पंडरिया नगरपालिका सहित) II. कवर्धा तहसील (भाग)– (I) दसरंगपुर रा.नि.मं. और (II) वीरेन्द्र नगर रा.नि.मं.
72. कवर्धा	I. कवर्धा तहसील (भाग)–(I) कवर्धा-1 रा.नि.मं. (II) कवर्धा-2 रा.नि.मं. (III) बोडाला रा.नि.मं. (IV) रेंगखार रा.नि.मं. (V) सहसपुर लोहरा रा.नि.मं. और कवर्धा (नगरपालिका + बाह्य पृथ्वी क्षेत्र)
13. राजनांदगांव	
73. खैरागढ़	I. खैरागढ़ तहसील (भाग)–(I) खैरागढ़ रा.नि.मं., खैरागढ़ (नगरपंचायत) (II) छुईखदान तहसील (छुईखदान नगरपालिका गन्डई नगरपंचायत)
74. डोंगरगढ़ (अ.जा.)	I. राजनांदगांव तहसील (भाग)–(I) घुमका रा.नि.मं., (II) राजनांदगांव-1 रा.नि.मं. (भाग)– 19. तिलाई पटवार सर्किल, 20. रेंगा कठेरा पटवार सर्किल, II. डोंगरगढ़ तहसील (भाग)– 1. डोंगरगढ़ रा.नि.मं. (भाग)–1. देवकोट पटवार सर्किल, 2. दारा पटवार सर्किल, 3. बेलगांव पटवार सर्किल, 4. बिजनापुर पटवार सर्किल, 5. जदवाही पटवार सर्किल, 10. डोडकी पटवार सर्किल, 14. जगटराई पटवार सर्किल व 15. डोंगरगढ़ (नगरपालिका) पटवार सर्किल, डोंगरगढ़ (नगरपालिका) और III. खैरागढ़ तहसील (भाग)– (I) पान्ढादाह रा.नि.मं.
75. राजनांदगांव	I. राजनांदगांव तहसील (भाग)–(I) राजनांदगांव-2 रा.नि.मं. नगर निगम राजनांदगांव (II) राजनांदगांव-1 रा.नि.मं. (भाग)– 21. ढाबा (नगर निगम) पटवार सर्किल, 22. गतूला पटवार सर्किल, 28. टेंडेसारा पटवार सर्किल, 29. सांकरा पटवार सर्किल, 30. सोमनी पटवार सर्किल, 31. अरिया पटवार सर्किल, 32. सुदगी पटवार सर्किल,

	33. मोहड़ (नगर निगम) पटवार सर्किल, 34. कन्हारपुरी (नगर निगम) पटवार सर्किल, 35/1. विखली (नगर निगम), 36. कौटिनभाटा पटवार सर्किल, 3. धनगांव पटवार सर्किल, 4. पेन्डरी (नगर निगम) पटवार सर्किल, 25. सिंघोला पटवार सर्किल व 26. धामनझारा पटवार सर्किल
76. डोंगरगांव	I. डोंगरगांव तहसील (डोंगरगांव नगरपंचायत सहित), II. डोंगरगढ़ तहसील (भाग)– (i) लाल बहादुर नगर रा.नि.मं. (ii) डोंगरगढ़ रा.नि.मं. (भाग)– 6. विष्णुपुर पटवार सर्किल, 7. बिहारी पटवार सर्किल, 8. नवागांव अनीया पटवार सर्किल, 9. सालटिकरी पटवार सर्किल, 11. मुसरा कलां पटवार सर्किल, 12. रेंगा कठेरा पटवार सर्किल व 13. मुसरा खुर्द पटवार सर्किल
77. खुज्जी	I. अम्बागढ़ तहसील (भाग)–(i) अम्बागढ़ रा.नि.मं. (भाग)– 1. पेन्नालकुही पटवार सर्किल, 3. चित्तारी पटवार सर्किल, 4. रेंगाकठेरा पटवार सर्किल, 5. खोरा दोला पटवार सर्किल, 6. होडी दोला पटवार सर्किल, 7. खुरसीपार पटवार सर्किल, 8. जोराताराई पटवार सर्किल, 9. गुन्डरदेही पटवार सर्किल, 10. अटरा पटवार सर्किल, 11. हीतागुडा पटवार सर्किल, 12. अम्बागढ़ चौकी (नगरपंचायत) और 20. मडसेना पटवार सर्किल, अम्बागढ़ चौकी (नगरपंचायत), II. राजनांदगांव तहसील (भाग)–(i) छुरिया रा.नि.मं. और (ii) खुज्जी रा.नि.मं.
78. मोहला-मानपुर (अ.ज.जा.)	I. मानपुर तहसील, II. मोहला तहसील, III. अम्बागढ़ तहसील (भाग)– (i) अम्बागढ़ रा.नि.मं. (भाग)– 2. मिटवे पटवार सर्किल, 13. अतरगांव पटवार सर्किल, 14. बगनारा पटवार सर्किल, 15. अडेझार पटवार सर्किल, 16. हितकसा पटवार सर्किल, 17. अटजकुंड पटवार सर्किल, 18. कौडीकसा पटवार सर्किल, 19. पन्डरी तराई पटवार सर्किल, 21. मोंगरा पटवार सर्किल, 22. कुटुरघोडा पटवार सर्किल व 23. मुडपार पटवार सर्किल
	14. उत्तर बस्तर कांकेर
79. अंतागढ़ (अ.ज.जा.)	I. अंतागढ़ तहसील और II. पखाबजुर तहसील
80. भानुप्रतापपुर (अ.ज.जा.)	I. चारामा तहसील और II. भानुप्रतापपुर तहसील
81. कांकेर (अ.ज.जा.)	I. कांकेर तहसील (कांकेर नगरपालिका तथा बाह्य विकास सहित) और II. नरहरपुर तहसील
	15. बस्तर
82. केशवल (अ.ज.जा.)	I. केशवल तहसील और II. कोन्डागांव तहसील (भाग)–(i) फरसगांव रा.नि.मं.
83. कोन्डागांव (अ.ज.जा.)	I. कोन्डागांव तहसील (भाग)–(i) कोन्डागांव रा.नि.मं. (कोन्डागांव नगरपालिका सहित) और (ii) माकड़ी रा.नि.मं.
84. भानपुरी (अ.ज.जा.)	I. नारायणपुर तहसील, II. कोन्डागांव तहसील (भाग)–(i) मरदापाल रा.नि.मं. और III. जगदलपुर तहसील (भाग)–(i) भानपुरी रा.नि.मं.

85. बस्तार (अ.ज.जा.)	I. जगदलपुर तहसील (भाग)-(i) बस्तार टा.नि.मं. (ii) कटपाचण्ड टा.नि.मं. (iii) बाकपाचण्ड टा.नि.मं. और (IV) जगदलपुर टा.नि.मं. (ख)
86. जगदलपुर	I. जगदलपुर तहसील (भाग)-(i) जगदलपुर टा.नि.मं.(क), जगदलपुर (नगरपालिका तथा बाह्य वृद्धि), (ii) दरमा टा0नि0मं0(भाग) 75-चिंगपाल पटवार सर्किल, 76-दरमा पटवार सर्किल, 78- दहकवाडा पटवार सर्किल, 79-कुक्कनार पटवार सर्किल और 80-कोक्कवाडा पटवार सर्किल
87. चित्रकोट (अ.ज.जा.)	I. जगदलपुर तहसील (भाग)-(i) केशलूट टा.नि.मं. (ii) बस्तानट टा.नि.मं. (iii) चित्रकोट टा.नि.मं. (IV) दरमा टा.नि.मं. (भाग)-68. दिलमिली पटवार सर्किल, 69. केलीट पटवार सर्किल, 70. पखनट पटवार सर्किल, 71. कटेनार पटवार सर्किल, 72. चीतापुर पटवार सर्किल व 77. छिन्दवाडा पटवार सर्किल और कुक्कनार नगर पंचायत
	16. दक्षिण बस्तार दन्नेवाड़ा
88. दन्नेवाड़ा (अ.ज.जा.)	दन्नेवाड़ा तहसील (गीदम सी टी, दन्नेवाड़ा नगरपंचायत, बड़े बघेली नगरपंचायत, किशानदुल नगरपालिका सहित
89. बीजापुर (अ.ज.जा.)	I. भोपालपट्टनम तहसील और II. बीजापुर तहसील
90. कोन्दा (अ.ज.जा.)	I. कोन्दा तहसील

सादर-ख

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा उनका प्रस्तावित विस्तार

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम सं० व नाम	नए विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार विस्तार
1. सरगुजा (अ.ज.जा.)	1. भरतपुर-सोनहाट (अ.ज.जा.), 2. मनेन्द्रगढ़, 3. बैकुंठपुर, 4. प्रेमनगर, 5. भटगांव, 6. प्रतापपुर (अ.ज.जा.), 7. रामानुजगंज (अ.ज.जा.) और 10. अम्बिकपुर
2. जशपुर (अ.ज.जा.)	8. सामरी (अ.ज.जा.), 9. लुण्डा (अ.ज.जा.), 11. सीतापुर (अ.ज.जा.), 12. जशपुर (अ.ज.जा.), 13. कुनकुटी (अ.ज.जा.), 14. पत्थलगाँव (अ.ज.जा.) 15. तैलूंगा (अ.ज.जा.) और 19. धर्मजयगढ़ (अ.ज.जा.)
3. रायगढ़ (अ.जा.)	16. रायगढ़, 17. सादगढ़ (अ.जा.), 18. खरसिया, 36. मालखोदा, 37. चन्द्रपुर, 39. सराईपाली (अ.जा.), 40. बसना और 43. बिलाईगढ़ (अ.जा.)
4. जांजगीर-कोरबा	20. रामपुर (अ.ज.जा.), 21. कोरबा, 22. कटघोरा, 23. पाली-तानाखार (अ.ज.जा.), 33.-अकलतड़ा, 34. जांजगीर-चांपा, 35. शक्ती और 38. पामगढ़ (अ.जा.)
5. बिलासपुर	24. मरवाही (अ.ज.जा.), 25. कोटा (अ.ज.जा.), 26. लोहमी, 27. मुंगेली (अ.जा.), 28. तखतपुर, 29. बिल्हा, 30. बिलासपुर, 31. बेलतड़ा और 32. मस्तूरी (अ.जा.)
6. महासमुन्द	41. खल्लारी, 42. महासमुन्द, 44. कसडोल, 45. भाटापाड़ा, 46. सिमगा, 52. आरंग (अ.जा.), 54. राजिम और 55. बिन्दानवागढ़
7. रायपुर	47. धरसीवा, 48. रायपुर ग्रामीण, 49. रायपुर नगर पश्चिम, 50. रायपुर नगर उत्तर, 51. रायपुर नगर दक्षिण, 53. अमनपुर, 57. कुरुद और 62. पाटन

8. दुर्ग	63. दुर्ग ग्रामीण, 64. दुर्ग शहर, 65. भिलाई नगर, 66. वैशाली नगर, 67. अहिवाड़ा (अ.ज.जा.), 68. साजा, 69. बेमेतरा और 70. नवागढ़ (अ.ज.जा.)
9. राजनादगांव	71. पंडरिया, 72. कवर्धा, 73. खैरागढ़, 74. डोंगरगढ़ (अ.ज.जा.), 75. राजनादगांव, 76. डोंगरगांव, 77. खुज्जी और 78. मोहला-मानपुर (अ.ज.जा.)
10. बस्तार (अ.ज.जा.)	83. कोन्डागांव (अ.ज.जा.), 84. भानपुरी (अ.ज.जा.), 85. बस्तार (अ.ज.जा.), 86. जगदलपुर, 87. चित्रकूट (अ.ज.जा.), 88. दन्नेवाड़ा (अ.ज.जा.), 89. बीजापुर (अ.ज.जा.) और 90. कोन्डा (अ.ज.जा.)
11. कोंकट	56. सिहावा (अ.ज.जा.), 58. धमतरी, 59. सजारी बालोद, 60. डोंडी तोहारा (अ.ज.जा.), 61. गुन्डरदेही, 79. अंतागढ़ (अ.ज.जा.), 80. भानुप्रतापपुर (अ.ज.जा.), 81. कोंकट (अ.ज.जा.) और 82. केशकाल (अ.ज.जा.)

सह सदस्यों से प्राप्त विस्मृत प्रस्ताव

I

भूपेश बघेल

विधायक

पाटन विधान सभा

जिला दुर्ग - 78

अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या —————

दिनांक 13/11/2005

निवास: मानसरोवर आवासीय परिसर

पदुम नगर, भिलाई-3, जिला दुर्ग

दूरभाष सं० 07826 - 256333

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष और सदस्य,

परिसीमन आयोग

निर्वाचन सदन, नई दिल्ली

सन्दर्भ:- निर्वाचन आयोग के अवर सचिव का पत्र सं० 282/सीजीएच/2005 - खण्ड II
दिनांक 29 अक्टूबर, 2005

विशय:- परिसीमन अधिनियम 2002 की धारा 9(2) के अधीन विधान सभा निर्वाचन - क्षेत्रों
तथा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के सम्बन्ध में विसम्मत प्रस्ताव ।

आदरणीय महोदय,

मुझे संसदीय निर्वाचन - क्षेत्रों तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में आयोग द्वारा
तैयार किए गए परिसीमन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । मैं संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों तथा विधान सभा
निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अलग से अपनी टिप्पणियां तथा विसम्मत प्रस्ताव दे रहा हूं ।

विधान सभा निर्वाचन - क्षेत्रों (वि०स०) के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव हैं ।

दुर्ग जिला

क्र० सं०	विधान सभा की संख्या	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र	तहसील/रा०नि०मं०/पटवार सर्किल/नगर पालिका	कुल जनसंख्या	अ०जा० जनसंख्या	अजजा जनसंख्या
59	59	संजारी बालोद	गुरुर तहसील (भाग)			
			पटवार सर्किल 5 से 19	103761	6660	21813

		बालोद नगर पंचायत+ बालोद रा0नि0मं0	114023	7478	30187
			217784	14138	54900
				6.49%	25.20%
60	60	डोन्डी लोहारा (अ0ज0जा0)	संजारी बालोद तहसील (भाग)		
		दल्ली राजहरा रा0नि0मं0+	155219	12934	77788
		(दल्ली राजहरा नगर पालिका+ बाह्य वृद्धि क्षेत्र)			
		डोन्डी लोहारा रा0नि0मं0	78301	4574	44657
		बाह्य वृद्धि क्षेत्र	233520	17508	122445
				7.49%	52.43%
61	61	गुन्डरदेही	खेरथा रा0नि0मं0		
		गुरुर तहसील (भाग)	88707	5433	32514
		पटवार सर्किल 1 से 4	27171	1335	1774
		गुन्डरदेही (भाग)	93650	11423	10410
		अर्जुन्दा रा0नि0मं0 भाग			
		17 से 22 पटवार सर्किल	22578	1541	5128
			232106	19732	49826
				8.50%	21.46%
62	62	पाटन	पाटन रा0नि0मं0		
		भिलाई - 3 रा0नि0मं0	87972	12014	7871
		पाटन नगर पंचायत	99934	14989	10176
		कुम्हारी नगर पंचायत (भाग)	8812	795	818
		कुम्हारी नगर पंचायत (भाग)	7843	1495	570
		भिलाई चरोदा नगर पालिका	21913	3102	1552
		(भाग) वार्ड सं0 9 to 12	10956	1717	1262
			237430	34112	22249
				14.36%	9.37%
63	63	अन्डा (दुर्ग ग्रामीण को अन्डा कहा जाए)	अन्डा रा0नि0मं0		
		दुर्ग - II रा0नि0मं0	100760	14975	6221
		अर्जुनदा रा0नि0मं0 भाग 1 से	24616	1935	2211
		16 पटवार सर्किल	66030	10032	7214
		भिलाई नगर निगम भाग वार्ड	51395	9241	3894
		सं0 62 to 67			
			242801	36183	19540
				14.90%	8.04%

64	64	दुर्ग नगर	दुर्ग नगर निगम दुर्ग रा०नि०मं०—। भाग	232517	24862	9679
			अन्जोरा पटवार सर्किल	7313	229	480
			पुलगांव पटवार सर्किल	4229	613	312
				244059	25704	10471
					10.53%	4.29%
65	65	भिलाई नगर	भिलाई नगर निगम की वार्ड सं० 27 से 61	252336	31230	16255
					12.37%	6.44%
66	66	वैशाली नगर	भिलाई नगर निगम की वार्ड सं० 1 से 26	252635	35066	8831
					13.88%	3.49%
67	67	अहिवारा (अ०जा०)	भिलाई चरोदा नगर पालिका (भाग) (वार्ड सं० 9 से 12 को छोड़कर) जामुल नगर पालिका (सम्पूर्ण) अहिवारा नगर पंचायत अहिवारा रा०नि०मं० भाग (30,31,32,33,34 पटवार सर्किलों को छोड़कर) दुर्ग रा०नि०मं० भाग (अंजोरा पटवार सर्किल पुलगांव पटवार सर्किल को छोड़कर)	76629	11413	3790
				21640	1514	889
				18719	3036	1262
				70084	18314	4172
				47739	5669	3087
				234811	39946	13200
					17.01%	5.62%
68	68	साजा	परिसीमन आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित	232518	23136	14243
					9.95%	6.13%
69	69	बेमेटारा Bemetara	परिसीमन आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित	216473	32418	7360
					14.98%	3.40%
70	70	नवागढ़(अ०जा०)	परिसीमन आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित	213963	50337	10381
					23.53%	4.85%

नाम से संबंधित परिवर्तन (विसम्मत प्रस्ताव)

1. कि 63—दुर्ग ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन — क्षेत्र का नाम बदलकर अन्डा रखा जाए क्योंकि इस क्षेत्र की अधिकतर जनसंख्या अन्डा रा०नि०मं० से जुड़ी हुई है ।
2. कि 84—भानपुरी (अ०जा०जा०) विधान सभा निर्वाचन—क्षेत्र का नाम बदलकर नारायणपुर (अ०जा०जा०) रखा जाए क्योंकि नारायणपुर पुलिस जिले का मुख्यालय है जिसे पहले ही जिला मुख्यालय घोषित कर दिया गया है जबकि भानपुरी तहसील मुख्यालय भी नहीं है ।

3. कि 79-अंतागढ़(अ0ज0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम बदल कर अंतागढ़-पखान्जुर (अ0ज0जा0) रखा जाए क्योंकि दोनों ही तहसील मुख्यालय हैं ।
4. 4-प्रेमनगर विधान सभा निर्वाचन - क्षेत्र का नाम बदल कर प्रेमनगर - सूरजपुर रखा जाए क्योंकि सूरजपुर मुख्य केन्द्र तथा तहसील मुख्यालय है जबकि प्रेमनगर पहले से ही विधान सभा में विद्यमान है ।

प्रार्थना

कि उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकृत की जाएं

अथवा

कि उपरोक्त प्रस्ताव आयोग के प्रस्तावों के साथ प्रकाशित किए जाएंगे ।

सादर,

आपका

ह0/-

भूपेश बाघेल

(आयोग के सह सदस्य)

भूपेश बाघेल
विधायक
पाटन विधान सभा
जिला दुर्ग - 78

अर्द्धशासकीय पत्र संख्या -----
दिनांक 13/11/2005
निवास: मानसरोवर आवासीय परिसर
पदुम नगर, भिलाई-3, जिला दुर्ग
दूरभाष सं0 07826 - 256333

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष और सदस्य,
परिसीमन आयोग
निर्वाचन सदन, नई दिल्ली

सन्दर्भ:- निर्वाचन आयोग के अवर सचिव के पत्र सं0 282/सीजीएच/2005 - खण्ड II
दिनांक 29 अक्टूबर, 2005

विषय:- परिसीमन अधिनियम 2002 की धारा 9(2) के अधीन संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के सम्बन्ध में विसम्मत प्रस्ताव ।

आदरणीय महोदय,

मुझे संसदीय निर्वाचन - क्षेत्रों तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में आयोग द्वारा बनाये गए परिसीमन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । मैं संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अपनी टिप्पणियां तथा विसम्मत प्रस्ताव दे रहा हूं । मेरे विचार से, सात

संसदीय निर्वाचन — क्षेत्रों अर्थात् सरगुजा(अ०ज०जा०), जशपुर(अ०ज०जा०), जान्जगीर—कोरबा, बिलासपुर, राजनंदगांव, दुर्ग तथा बस्तर के संबंध में प्रस्ताव स्वीकार किए गए हैं तथा शेष चार संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों अर्थात् कांकेर, रायपुर, महासमुन्द तथा रायगढ़ (अ०जा०), में कुछ परिवर्तन अपेक्षित हैं कि मैं, उक्त कथित चार संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में अपने विसम्मत प्रस्ताव तथा तर्क प्रस्तुत कर रहा हूँ । कि यह मैंने इन्हें इस प्रकार से तैयार किया है कि आयोग द्वारा प्रस्तावित आरक्षण स्थिति अपरिवर्तनीय रहती है, अतः यह पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि मेरे सुझाव/विसम्मत प्रस्ताव वास्तव में आयोग के मापदण्डों के अनुसार ही हैं ।

कि, आयोग द्वारा बनाये गए मार्गनिर्देशों को ध्यान में रखते हुए जिसमें प्रशासनिक निकाय, पहुँच, भौगोलिक सघनता तथा जनसंख्या का समान वितरण जैसे मानदण्ड मुख्य हैं संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन में कुछ विसंगतियाँ भी हैं जिनको मैं अपने विसम्मत प्रस्तावों के साथ प्रकाश में लाना चाहता हूँ।

1. जबकि, छत्तीसगढ़ में 16 प्रशासनिक जिले हैं जिनमें से कुछ बहुत बड़े तथा कुछ बहुत छोटे हैं तथा वास्तव में प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 8 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिए तथापि यह संभव है कि किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार तीन जिलों से अधिक में नहीं होना चाहिए । जबकि आयोग के प्रस्ताव में रायगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा कांकेर निर्वाचन क्षेत्र चार जिलों में से प्रस्तावित है । इससे निर्वाचन की प्रक्रिया, मतगणना तथा घोषणा अधिक कठिन हो जाएगी । अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मेरा प्रस्ताव है कि प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को तीन या कम जिलों में सीमित रखें ।
2. कि आयोग ने स्वयं ही अधिदेश दिया है कि, किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में औसत जनसंख्या के संबंध में 10 प्रतिशत के विचलन की अनुमति है । आयोग के प्रस्ताव में, कांकेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या 21,18,294 अर्थात् औसत जनसंख्या 18,93,982 से 11.84 प्रतिशत अधिक है । ऐसा कांकेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नौवें विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र को सम्मिलित करने से हुआ है । यह ध्यान करना सरल है कि आयोग के साथ अन्य सह सदस्यों से विचार विमर्श के बाद यह अनुरोध किया गया है कि नौवाँ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र उन्हीं दो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में सम्मिलित किया जाना चाहिए जहाँ पर जनसंख्या सघन है ताकि भौगोलिक फैलाव अधिकता से इधर-उधर न हो । कांकेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र भी विरल रूप से से बसा है अतः इसे 8वें विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तक सीमित रखना उचित होगा तथा नौवें विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र को रायपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना चाहिए । मेरा संलग्न प्रस्ताव प्रत्येक मापदण्ड के अनुसार ही है ।
3. कि यह भी विचार विमर्श किया गया था कि जहाँ तक संभव हो यदि किसी जिले में आठ से अधिक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र हैं तो उसके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार अन्य जिलों में नहीं किया जाना चाहिए ।
4. आयोग के प्रस्ताव में रायपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का तीन जिलों में से प्रस्ताव दिया गया है जबकि इसे बड़ी सरलता से कम जिलों में सीमित किया जा सकता था ।

5. कि आयोग के प्रस्ताव में महासमुन्द संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए इस तरह प्रस्ताव दिया गया है जो करीब 300 किमी तक के लिए है जोकि अनपेक्षित है । इसके अतिरिक्त, महासमुन्द जिला के दो विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को रायगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है जिसे एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया जिसका 4 जिलों तक विस्तार है । जोकि मानचित्र में सघन प्रतीत होता है, पर एक मुख्य भौगोलिक विशेषता पर विचार नहीं किया गया । वरनवापरा वन अभ्यारण्य एवं पहाड़ियां महासमुन्द जिले के उत्तरी क्षेत्र की प्राकृतिक सीमा की रचना करते हैं । महासमुन्द जिले का समस्त क्षेत्र रायगढ़ क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 6 से जुड़ा है । इसलिए उचित होगा कि महासमुन्द जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को महासमुन्द संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रखा जाए । रायगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को सुगम बनाने के लिए इसे 3 जिलों तक सीमित रखा जाएगा ।

5. प्रस्ताव निम्न हैं :-

अपरिवर्तित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	1. सरगुजा(अ0ज0जा0), 2. जशपुर(अ0ज0जा0), 4. जांजगीर - कोरबा 5. बिलासपुर, 8. दुर्ग, 9. राजनांदगांव, 10. बस्तर (अ0ज0जा0), आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित
परिवर्तित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	3. रायगढ़(अ0जा0), 6. महासमुन्द, 7. रायपुर 11. कांकेर परिसीमन निम्न होगा

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं संख्या	आरक्षण स्थिति	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम	जिला	कुल जनसंख्या	अ0जा0 की जनसंख्या	अजजा की जनसंख्या
3. रायगढ़	अ0जा0	16. रायगढ़	रायगढ़	273200	43019	44470
		17. सारगढ़(अ0जा0)	रायगढ़	276121	69616	46996
		18. खरसिया	रायगढ़	235728	29230	65937
		36. मालखरोदा	जांजगीर-चम्पा	218689	48196	39467
		37. चन्द्रपुर	जांजगीर-चम्पा	215087	53554	20159
		43. बिलाईगढ़ (अ0जा0)	रायपुर	255053	62518	37834
		44. कसडोल	रायपुर	256163	54389	26820
		45. भाटापारा	रायपुर	223005	37153	34919

योग			(विचलन 3.11%)	1953046	397675 20.36%	316602 16.21%
6. महासमुन्द	सामान्य	39. सरईपाली (अ0जा0)	महासमुन्द	216305	32251	58274
		40. बसना	महासमुन्द	222803	20791	64119
		41. खल्लारी	महासमुन्द	204808	20845	67186
		42. महासमुन्द	महासमुन्द	216341	30504	42906
		54. राजिम	रायपुर	255192	24671	71168
		55. विन्द्रानवागढ़	रायपुर	254470	23866	115874
		56. सिहावा	धमतरी	228263	9512	121686
		58. धमतरी	धमतरी	49780	18823	43083
योग			(विचलन -2.42%)	47962	181263 9.81%	584296 31.62%
7. रायपुर	सामान्य	46. सिमगा	रायपुर	237349	40608	14447
		47. धरसीवा	रायपुर	222066	39321	7049
		48. रायपुर—ग्रामीण	रायपुर	208463	32847	9942
		49. रायपुर पश्चिम	रायपुर	212263	25997	10159
		50. रायपुर उत्तर	रायपुर	215500	30843	9107
		51. रायपुर दक्षिण	रायपुर	232901	22657	8648
		52. आरंग (अ0जा0)	रायपुर	217379	54147	6861
		53. अभनपुर	रायपुर	227126	38706	12445
		57. कुरुद	धमतरी	228548	21059	20746
योग			(विचलन 5.68%)	2001595	296185 14.80%	99404 4.97%
11. कांकर	सामान्य	59. संजारी बालोद	दुर्ग	244955	15473	55774
		60. डोडी—लोहारा (अ0ज0जा0)	दुर्ग	253245	18509	131387

		61. गुण्डरदेही	दुर्ग	251240	27428	46324
		62. पाटन	दुर्ग	226474	32395	20987
		79.अंतागढ (अ0ज0जा0)	कांकेर	207996	5568	100671
		80.भानुप्रतापपुर (अ0ज0जा0)	कांकेर	234175	13027	141618
		81.कांकेर (अ0ज0जा0)	कांकेर	208763	9068	122742
		82.केशकाल (अ0ज0जा0)	बस्तर	239877	8577	174078
योग			(विचलन -1.44%)	1866725	130045 6.97%	793581 42.51%

नोट:- 59-संजारी -बालोद, 60 डोडी-लोहारा(अ0ज0जा0), 61 गुण्डरदेही और 62 पाटन के आंकड़ों को, दुर्ग जिले में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए मेरे विसम्मत प्रस्ताव में से प्रतिस्थापित किया जाए, जिसे मैंने आयोग में भी प्रस्तुत किया है । फिर भी यह नोट करना उपयुक्त होगा कि ऐसा प्रतिस्थापन प्रस्तावित कांकेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की तथा उसकी आरक्षण स्थिति को परिवर्तित नहीं करता है ।

प्रार्थना

कि पूर्वोक्त प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए ।

या

कि आयोग के प्रस्ताव के साथ मेरा पूर्वोक्त प्रस्ताव प्रकाशित किया जाए ।

सादर,

भवदीय,

ह0/-

(भूपेश बघेल)

आयोग का सह सदस्य

II

टेलीफोन सं०. 2283624
2331055
2331064

महेन्द्र कर्मा
नेता प्रतिपक्ष,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

हाउस: बस्तर कुटीर, बी-5/10 शंकर रोड़,
सिविल लाइंस, रायपुर(छत्तीसगढ़)492001
पत्र सं० 1814/एनपीवीएस/200

दिनांक : 12/11/2005

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष और सदस्य
परिसीमन आयोग
निर्वाचन सदन, नई दिल्ली

सन्दर्भ:—आयोग के अवरसचिव का पत्र संख्या 282/सीजीएच/2005—खण्ड II। दिनांक 29 अक्टूबर, 2005

विषय:—परिसीमन अधिनियम 2002 की धारा 9(2) के अन्तर्गत विसम्मत प्रस्ताव महोदय,

उपर्युक्त पत्र के साथ मुझे विधान सभा निर्वाचन — क्षेत्रों (वि०स०) और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों (लो०स०) के परिसीमन के लिए आयोग के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन मैं इसके साथ विधान सभा निर्वाचन — क्षेत्रों के लिए संलग्नक — क और संसदीय निर्वाचन — क्षेत्र के लिए संलग्नक — ख में अपने विसम्मत प्रस्ताव भेज रहा हूँ

मैं यह अनुरोध करता हूँ कि मेरे विसम्मत प्रस्तावों पर अनुमति दी जाए । मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि मेरे विसम्मत प्रस्तावों को आयोग के प्रस्तावों के साथ प्रकाशित किया जाए । किसी विशेष जिले से संबंधित प्रस्तावों के मामले में, जिले को भाग (अंश) में अनुमति दी जाती है तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप शेष भाग को भी प्रकाशित करें । महोदय, मेरे प्रस्ताव अंग्रेजी में हैं और छत्तीसगढ़ मुख्यतः हिंदी बोलने वाला क्षेत्र है अतः मैं आपसे यह भी अनुरोध करता हूँ कि मेरा प्रत्येक प्रस्ताव हिंदी भाषा में प्रकाशित किया जाए ।

धन्यवाद,

आपका
ह०/—
महेन्द्र कर्मा
आयोग के सद सदस्य

परिसीमन अधिनियम के 9(2) की अन्तर्गत विसम्मत प्रस्ताव

महेन्द्र कर्मा, आयोग के सह सदस्य द्वारा यथा प्रस्तावित विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र

टिप्पणी:— मेरे प्रस्तावों में रायगढ़, रायपुर व दुर्ग जिलों का परिसीमन नए सिरे से किया गया है अतः लैलुंगा के स्थान पर सरिया और सिमगा के स्थान पर बालोद बाजार के नए स्थान और रायपुर नगर के नए स्थान बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में भी परिवर्तन किए गए हैं।

क्रम सं०	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की सं०	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार	2001 की जनसंख्या		
			तहसील / रा०नि०मं० / पटवार सर्किल का नाम	कुल	अ०जा०	अ०ज०जा०
जिला कोरिया – कोई परिवर्तन नहीं						
1	1	भरतपुर-सोनहाट (अ०ज०जा०)	परिसीमन आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित	197870	14736	114894
					7.45%	58.07%
2	2	मनेन्द्रगढ़	परिसीमन आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित	190971	18152	63146
					9.51%	33.07%
3	3	बैकुंठपुर	परिसीमन आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित	197486	15317	82000
					7.76%	41.52%

सरगुजा जिला

4	4	विधान सभा संख्या 4 को सूरजपुर प्रेमनगर कहा जाए ।	प्रेमनगर रा0नि0म0	53039	1839	32013
			रामानुजनगर रा0नि0म0	102839	6376	46915
			रा0नि0म0 सूरजपुर (विश्रामपुर सीटी को मिलाकर)	65753	3727	21540
			सूरजपुर (नगर पंचायत)	16834	979	2326
			पिल्खा रा0नि0म0 (भाग)			
			40 शिवनंदनपुर पटवार सर्किल	17586	1320	2454
			43 सलका पटवार सर्किल	6071	210	2498
			44 कुरुवा पटवार सर्किल	6186	732	2646
				268308	15183	110392
					5.65	41.14
5	5	भटगांव (अ0ज0जा0)	भैयाथान रा0नि0म0	120691	7455	59865
			भटगांव रा0नि0म0(28 भटगांव पटवार सर्किल को छोड़कर)	46609	2346	17703
			पिल्खा रा0नि0म0 (भाग)			
			32 कारवा पटवार सर्किल	6394	342	2988
			33 कल्याणपुर पटवार सर्किल	8987	548	5013
			34 मजीरा पटवार सर्किल	7981	312	3223
			35 लटोरी पटवार सर्किल	5985	163	2626
			36 अजबनगर पटवार सर्किल	11142	301	4588
			37 कमलपुर पटवार सर्किल	6263	260	3076

			38 सिल्फिली पटवार सर्किल	8889	396	2917
			39 कर्मपुर पटवार सर्किल	12855	773	5084
			41 कैलाशपुर पटवार सर्किल	6516	317	950
			42 पैन्डाखी पटवार सर्किल	11105	572	1296
				253417	13785	109329
					5.43	43.14
6	6	प्रतापपुर (अ0ज0जा0)	प्रतापपुर तहसील	122665	4490	76963
			राजपुर तहसील	88908	2004	64400
			भटगांव रा0नि0मं0(भाग)	15890	1482	2502
				227463	7976	143865
					3.5065	63.2476
7	7	रामानुजगंज (अ0ज0जा0)	रामचन्द्रपुर रा0नि0मं0 (बलरामपुर को छोड़कर)	124175	5486	63958
			पाल शहरी	9855	431	498
			वाडफनगर तहसील	130551	7701	77215
				264581	13618	141971
					5.147	53.6588
8	8	सामरी (अ0ज0जा0)	सामरी तहसील	155839	8149	112261
			बलरामपुर रा0नि0मं0	89527	2883	53115
				245366	11032	165376
					4.4961	67.3997

9	9	लुन्डा (अ०ज०जा०)	लुन्डा तहसील	101304	3961	61397
			अम्बिकापुर—।। रा०नि०मं०	29567	1044	15548
			अम्बिकापुर—। (भाग) रा०नि०मं०			
			13 बरधोधी पटवार सर्किल	3950	173	1617
			14 चिन्दकालो पटवार सर्किल	5757	507	3760
			15 करजी पटवार सर्किल	6041	306	2289
			16 कांठी पटवार सर्किल	5182	144	2299
			17 सोहगा पटवार सर्किल	7247	184	4857
			18 करेया पटवार सर्किल	4829	277	3584
			19 लवैदीह पटवार सर्किल	5764	240	4182
			लखनपुर (भाग) रा०नि०मं०			
			23 प्रतापपुर पटवार सर्किल	4885	254	3439
			24 अरगोटी पटवार सर्किल	9586	155	7628
			25 लीपिंगी पटवार सर्किल	4554	305	2731
			26 कटीडा पटवार सर्किल	6501	229	5038
			27 कुंवरपुर पटवार सर्किल	4949	421	3074
			29 बैलडागी पटवार सर्किल	6772	720	3695
			31 अमालभीती पटवार सर्किल	7209	601	3064
			32 सालका पटवार सर्किल	5218	166	2691
			33 लाहपतरा पटवार सर्किल	5266	321	766
				224581	10008	131659
					4.4563	58.6243

10	10	अम्बिकापुर	अम्बिकापुर—। रा0नि0म0			
			5 अम्बिकापुर पटवार सर्किल	12540	1332	5531
			6 नामनाकला पटवार सर्किल	30957	1289	12173
			7 पटवार सर्किल	5915	0	2393
			8 पटवार सर्किल	6068	275	2675
			9 पटवार सर्किल	5390	262	3310
			10 पटवार सर्किल	5631	402	2424
			11 पटवार सर्किल	3802	20	1661
			12 पटवार सर्किल	4077	0	188
			अम्बिकापुर (नगर निगम)	66012	3062	7405
			लखनपुर (भाग) रा0नि0म0			
			28 लखनपुर पटवार सर्किल	9348	878	3391
			30 केवरी पटवार सर्किल	3014	359	3010
			34 कोरजा पटवार सर्किल	6902	207	793
			35 अधला पटवार सर्किल	4489	225	2540
			36 लातून पटवार सर्किल	5834	198	1662
			37 कटकोना पटवार सर्किल	5770	208	3257
			38 खुन्टिया पटवार सर्किल	6661	568	3975
			उदयपुर रा0नि0म0	66458	3937	42609
				251868	14025	99001
					5.5684	39.3067
11	11	सीतापुर (अ0ज0जा0)	परिसीमन आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित	236510	9210	175070
					3.89%	74.02%

जशपुर जिला – कोई परिवर्तन नहीं

12	12	जशपुर (अ0ज0जा0)	परिसीमन आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित	260102	10275	176703
					3.95%	67.94%
13	13	कुनकुरी (अ0ज0जा0)	परिसीमन आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित	226283	7645	125070
					3.38%	55.27%
14	14	पथलगांव (अ0ज0जा0)	परिसीमन आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित	256775	18480	168180
					7.20%	65.50%

रायगढ़ जिला

टिप्पणी: रायगढ़ जिले का निम्नप्रकार से परिसीमन किया जाए । लैलुंगा के स्थान पर सरिया विधान सभा को रखा जाए ।

15	16	रायगढ़	रायगढ़ तहसील (भाग)			
			रायगढ़ नगर निगम (सम्पूर्ण)	115908	19476	10743
			रायगढ़ रा0नि0म0 (सम्पूर्ण)	38298	5460	15857
			तमनार रा0नि0म0 (सम्पूर्ण)	78828	7423	41596
			घरघोडा तहसील (भाग)			
			घरघोडा तहसील रा0नि0म0 (भाग)			
			(पटवार सर्किल संख्या 1, 2, 3, 13, 14 को छोड़कर)	33834	2557	20578
			घरघोडा नगर पंचायत (सम्पूर्ण)	8103	974	2581
				274971	35890	91355
					13.05%	33.22%

16	17	सारंगढ (अ०जा०)	सारंगढ तहसील (भाग)			
			सारंगढ रा०नि०मं० (सम्पूर्ण)	79578	18244	17021
			सारंगढ नगर पालिका (सम्पूर्ण)	14459	1837	926
			हरदी रा०नि०मं० (सम्पूर्ण)	98845	36736	9511
			बरमकेला रा०नि०मं०(भाग)			
			(पटवार सर्किल संख्या 41, 42, 43, 44 को छोड़कर)	38960	5876	11119
				231842	626963	38577
					27.04%	16.63%
17	15	सरिया (लैलुंगा के स्थान पर नया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)	रायगढ तहसील (भाग)			
			रायगढ रा०नि०मं०-2 (सम्पूर्ण)	23559	3413	7201
			पुसौर रा०नि०मं० (भाग)	107516	15070	25113
			पटवार सर्किल संख्या 26, 27, 28 को छोड़कर			
			सारंगढ तहसील (भाग)			
			सरिया रा०नि०मं० (सम्पूर्ण)	71831	11519	13467
			बरमकेला रा०नि०मं० (भाग)			
			41 खोनगांव पटवार सर्किल	5759	569	704
			42 बुडेली पटवार सर्किल	95270	1619	1578
			43 तोउनसर पटवार सर्किल	5174	1065	899
			44 लेन्द्रा पटवार सर्किल	6027	871	1027
				229136	34126	49989
					14.89%	21.81%

18	18	खरसिया	खरसिया तहसील (सम्पूर्ण)	129157	14518	38098
			रायगढ़ तहसील (भाग)			
			किरोड़ीमल नगर रा0नि0म0 (सम्पूर्ण)	62043	9111	16336
			पुसौर रा0नि0म0 (भाग)			
			26 गोर्खा पटवार सर्किल	6907	1096	1689
			27 नवापारा पटवार सर्किल (तह)	4659	447	1237
			28 जतरी पटवार सर्किल	5397	398	737
			धर्मजयगढ़ तहसील (भाग)			
			20 रूपुंगा पटवार सर्किल	4308	162	3471
			21 खड़गांव पटवार सर्किल	3982	328	3051
			22 बरतापाली पटवार सर्किल	4818	118	3748
			23 गेरसा पटवार सर्किल	5738	162	4219
			24 पुरंगा पटवार सर्किल	3032	73	2167
			25 हटी पटवार सर्किल	3871	111	2820
			26 मुनुन्ड पटवार सर्किल	2904	117	2116
			27 बेहरामाड पटवार सर्किल	4078	290	2829
			28 कुडेकेला पटवार सर्किल	6163	223	3688
			29 महाराजगंज पटवार सर्किल	3839	208	2393
			30 छाल पटवार सर्किल	6518	451	3666
			31 नवापाड़ा पटवार सर्किल	8844	1563	3620
			32 केताईपाली पटवार सर्किल	4708	128	3413
				270606	29504	99295
					10.90%	36.69%

19	19	धर्मजयगढ़ (अ0ज0जा0)	धर्मजयगढ़ तहसील(भाग)			
			कापु रा0नि0मं0 (सम्पूर्ण)	82540	5895	59594
			धर्मजयगढ़ नगर पंचायत (सम्पूर्ण)	13598	1108	4250
			धर्मजयगढ़ रा0नि0मं0 (भाग)			
			15 राजकोट पटवार सर्किल	4884	154	3923
			16 सिसरिंगा पटवार सर्किल	7499	265	5752
			17 धर्मजयगढ़ पटवार सर्किल	1108	16	423
			18 धर्मजयगढ़ पटवार सर्किल	2666	0	3
			17 बीसी पटवार सर्किल	5010	249	3486
			लैलुंगा तहसील(सम्पूर्ण)	113531	8165	72149
			घरघोडा तहसील (भाग)			
			घरघोडा रा0नि0मं0 (भाग)			
			1 काया पटवार सर्किल	5610	336	4444
			2 बारूद पटवार सर्किल	4788	276	3439
			3 कुसुमकेला पटवार सर्किल	7560	321	4392
			13 कोनपारा पटवार सर्किल	4543	326	2833
			14 रायकेरा पटवार सर्किल	5637	420	3794
				258974	17531	168482
					6.76%	65.05%
कोरबा जिला - कोई परिवर्तन नहीं						
20	20	रामपुर (अ0ज0जा0)	परिसीमन आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित	245371	26110	132556

					10.64%	54.02%
21	21	कोरबा	परिसीमन आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित	263854	32838	34773
					12.45%	13.18%
22	22	कटघोरा	परिसीमन आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित	239575	30560	74842
					12.76%	31.24%
23	23	पाली-तानाखार (अ०ज०जा०)	परिसीमन आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित	263023	11452	177718
					4.35%	67.57%

बिलासपुर जिला

टिप्पणी— बिलासपुर जिले में मारवाही विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा कोटा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ परिवर्तन हुए हैं, बाकी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में कोई परिवर्तन नहीं है।

24	24	मारवाही (अ०ज०जा०)	मारवाही तहसील	99874	8676	60129
			पेन्ड्रा रोड तहसील (भाग)			
			पेन्ड्रा रा०नि०म०	67517	3250	41506
			पेन्ड्रा नगर पालिका	12397	966	1554
			गौरेला रा०नि०म० (भाग)			
			19 मेडुका पटवार सर्किल	6667	292	4182
			20 कोरजा पटवार सर्किल	11093	530	7625
			21 नेवसा पटवार सर्किल	12436	307	8263
			22 लालपुर पटवार सर्किल	7516	529	2199
			34 जोगीसार पटवार सर्किल	10067	296	7607
			35 बस्ती पटवार सर्किल	7773	214	6098
				225340	15060	139163

						61.75%
25	25	कोटा	कोटा तहसील (भाग)	169208	18562	69686
			रतनपुर रा0नि0म0 का भाग, — पटवार सर्किल — 16 रानीगांव, पटवार सर्किल 19 जोथी को छोड़कर			
			गौरेला रा0नि0म0 (भाग)			
			23 गौरेला पटवार सर्किल	4743	355	1380
			24 तराईगांव पटवार सर्किल	19329	444	13490
			25 सारबहरा पटवार सर्किल	12564	363	7470
			गौरेला नगर पंचायत	15189	1258	2989
				221033	20982	95015
						42.98%
26	26	लोरमी	परिसीमन आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित	209819	19879	104351
					9.08%	47.66%
27	27	मुंगेली (अ0जा0)	परिसीमन आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित	221073	62665	13537
					28.35%	6.12%
28	28	तखतपुर	परिसीमन आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित	217728	41368	28414
					19.00%	13.05%
29	29	बिल्हा	परिसीमन आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित	233063	46763	25314
					20.06%	10.86%

30	30	बिलासपुर	परिसीमन आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित	235061	29785	10650
					12.67%	4.53%
31	31	बेलतरा	परिसीमन आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित	201534	47055	22618
					23.35%	11.22%
32	32	मस्तुरी (अ०जा०)	परिसीमन आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित	223704	55207	28498
					24.68%	12.74%
जांजगीर – चांपा जिला – कोई परिवर्तन नहीं						
33	33	अकलतरा	परिसीमन आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित	230427	50392	33432
					21.87%	14.41%
34	34	जांजगीर – चांपा	परिसीमन आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित	228927	49532	9495
					21.64%	4.15%
35	35	सक्ती	परिसीमन आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित	217819	32642	41726
					14.99%	19.16%
36	36	मालखरोदा	परिसीमन आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित	218689	48196	39467

					22.04%	18.05%
37	37	चन्द्रपुर	परिसीमन आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित	215087	53554	20159
					24.90%	9.37%
38	38	पामगढ़ (अ०जा०)	परिसीमन आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित	206482	61883	8790
					29.97%	4.26%
महासमुन्द जिला – कोई परिवर्तन नहीं						
39	39	सर्राईपाली (अ०जा०)	परिसीमन आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित	216305	32251	58274
					14.91%	26.94%
40	40	बसना	परिसीमन आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित	222803	20791	64119
					9.33%	28.78%
41	41	खल्लारी	परिसीमन आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित	204808	20945	67186
					10.18%	32.80%
42	42	महासमुन्द	परिसीमन आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित	216341	30504	42906
					14.10%	19.83%
रायपुर – जिला						
नोट: रायपुर जिला निम्नलिखित विधि से परिसीमित किया जाएगा। सिमगा के स्थान पर बलौदा बाजार विधान सभा निर्वाचन – क्षेत्र बनाया जाना चाहिए तथा रायपुर शहर के लिए स्थान का नव निर्माण भी प्रस्तावित है।						
43	43	बिलाईगढ़ (अ०जा०)	बिलाईगढ़ तहसील (बिलाईगढ़ नगर पालिका को शामिल करते हुए)	165255	51270	14595

			कसडोल तहसील (भाग)			
			गिधौरी रा0नि0म0(भाग)			
			15 कोट पटवार सर्किल	2763	56	650
			16 अमोली पटवार सर्किल	4012	691	91
			17 हसवा पटवार सर्किल	7271	758	478
			18 गिधौरी पटवार सर्किल	8466	815	327
			19 टुण्डारा पटवार सर्किल	8716	1738	89
			20 नरधा पटवार सर्किल	7109	1292	757
			21 कोटियाडीह पटवार सर्किल	8561	1857	1124
				212153	58421	17461
					27.90%	8.34%
44	44	कसडोल	कसडोल तहसील (भाग)			
			कसडोल रा0नि0म0	58890	6689	12164
			कसडोल नगर पालिका (नया)	11405	1373	666
			गिधौरी रा0नि0म0 भाग			
			22 सोना खान पटवार सर्किल	6315	513	3592
			23 बिलन पटवार सर्किल	5713	512	1854
			24 राधा देवरी पटवार सर्किल	7152	771	3574
			25 डुमरपाली पटवार सर्किल	16222	1007	8293
			26 मंदीप पटवार सर्किल	7498	1238	2410
			बलौदा बाजार तहसील भाग			
			लवन रा0नि0म0 भाग	66247	14903	5689

			पलारी तहसील भाग			
			पलारी रा0नि0मं0 भाग			
			18 भवानीपुर पटवार सर्किल	3103	647	506
			26 कोनारी पटवार सर्किल	3207	1245	308
			27 लच्छनपुर पटवार सर्किल	3329	779	86
			28 सलोनी पटवार सर्किल	4545	1652	984
			29 सीतापुर पटवार सर्किल	3982	1518	717
			30 रोहासी पटवार सर्किल	5251	656	756
			31 तिपावन पटवार सर्किल	4709	2665	172
			33 उड़ान पटवार सर्किल	3950	386	396
			34 चरोदा पटवार सर्किल	3164	477	393
				214682	37031	42560
					17.25%	19.82%
45	45	भाटापारा	भाटापारा तहसील	140413	23384	22149
			(भाटापारा नगर पालिका को शामिल करते हुए)			
			सिमगा तहसील भाग			
			सिमगा रा0नि0मं0	58508	13697	5061
			सिमगा नगर पंचायत	13143	1152	135
				211794	38233	27345
					18.05%	12.91%
46	46	बलौदा बाजार (सिमगा के स्थान पर नया विधान सभा क्षेत्र)	बलौदा बाजार तहसील भाग			
			बलौदा बाजार रा0नि0मं0	60009	9918	11755

			बलौदा बाजार नगर पालिका			
			पलारी तहसील भाग			
			सेन्दी रा०नि०म०			
			पलारी रा०नि०म०(भाग)			
			19 बटगांव पटवार सर्किल	3663	1051	127
			20 घोटिया पटवार सर्किल	4041	939	40
			21 दतन पटवार सर्किल	3542	457	141
			22 कोसमन्दी पटवार सर्किल	2974	844	194
			23 अमेरा पटवार सर्किल	4038	1060	231
			24 बिनौरी पटवार सर्किल	4261	1806	66
			25 छेरकापुर पटवार सर्किल	4008	761	130
			32 पलारी पटवार सर्किल	932	658	0
			पलारी नगर पंचायत			
			सिमगा तहसील भाग			
			जरौद रा०नि०म०	65095	11269	4905
				232338	46437	21748
					19.98%	9.36%
47	47	धरसीवा	रायपुर तहसील भाग			
			धरसीवा -1 रा०नि०म०	109739	15633	3794
			धरसीवा -2 रा०नि०म०	11898	2318	67
			तिल्दा तहसील (भाग)			
			तिल्दा रा०नि०म०	73694	10310	3391

			तिल्दा नेवरा नगरपालिका (नगर पालिका+बाह्य वृद्धि क्षेत्र)	26909	4180	955
				222240	32441	8207
					14.60%	3.70%
48	48	रायपुर – ग्रामीण/ रायपुर (दक्षिण)	रायपुर (नगर निगम) भाग			
			रायपुर(नगर निगम) वार्ड सं० 37	7594	1421	139
			रायपुर(नगर निगम) वार्ड सं० 38	14218	5137	650
			रायपुर(नगर निगम) वार्ड सं० 39	6968	451	521
			रायपुर(नगर निगम) वार्ड सं० 40	9710	530	182
			रायपुर(नगर निगम) वार्ड सं० 41	12562	911	5893
			रायपुर(नगर निगम) वार्ड सं० 42	11759	1147	500
			रायपुर(नगर निगम) वार्ड सं० 43	8506	141	233
			रायपुर(नगर निगम) वार्ड सं० 51	14047	601	762
			रायपुर(नगर निगम) वार्ड सं० 52	14242	725	187
			रायपुर(नगर निगम) वार्ड सं० 55	33700	4421	2075
			टिकरापारा (लालपुर)			
			चंगोरा भाटा (बाह्य वृद्धि क्षेत्र) वार्ड सं० 61	11476	453	694
			मधपुरेना	521	17	26
			भटगांव	7751	133	531
			रायपुर (बाह्य वृद्धि क्षेत्र)	9178	954	429
			रायपुर तहसील भाग			
			रायपुर – 1 रा०नि०मं०(भाग)			
			35 बोरिया खुर्द पटवार सर्किल	9083	667	552

			36 सेजबहार पटवार सर्किल	8318	2621	690
			37 बोरिया कला पटवार सर्किल	5194	838	81
			अबनपुर तहसील (भाग)			
			अबनपुर रा0नि0म0 (भाग)			
			1. सोनपैरी पटवार सर्किल	5683	1679	370
			2. रावेली पटवार सर्किल	5844	549	99
			3. परसदा पटवार सर्किल	4876	131	525
			4. पोलौद पटवार सर्किल	4344	86	354
			5. कोलार पटवार सर्किल	5329	572	343
			13. बकतरा पटवार सर्किल	5052	901	462
			14. बेन्द्री पटवार सर्किल	5991	882	234
			15. निमोड़ा पटवार सर्किल	5479	1457	135
			17. केन्द्री पटवार सर्किल	3766	1143	152
				237634	20881	11950
					12.78%	4.95%
49	49	रायपुर — 2 या रायपुर पश्चिम	रायपुर नगर पालिका निगम (भाग)			
			रायपुर (नगर निगम)वार्डसं0 1	14887	1071	638
			रायपुर (नगर निगम)वार्डसं0 2	14882	2909	515
			रायपुर (नगर निगम)वार्डसं0 3	7547	382	255
			रायपुर (नगर निगम)वार्डसं0 4	13513	1223	955
			रायपुर (नगर निगम)वार्डसं0 5	8865	54	239

		रायपुर (नगर निगम)वार्डसं0. 6	21510	2088	968
		रायपुर (नगर निगम)वार्डसं0. 7	12910	3875	270
		रायपुर (नगर निगम)वार्डसं0. 8	15227	3612	442
		रायपुर (नगर निगम)वार्डसं0. 9	10755	2461	177
		रायपुर(नगर निगम)वार्ड सं0 10	12965	1692	507
		रायपुर(नगर निगम)वार्ड सं0 11	11554	728	267
		तालीबन्ध(बाह्य वृद्धि क्षेत्र)वार्डसं0 64	1044	92	74
		तालीबन्ध(बाह्य वृद्धि क्षेत्र)वार्डसं0 65	10008	781	271
		जर्वे/हीरापुर	1548	329	0
		चांदनीडीह	2143	229	146
		अटारी	1428	54	120
		गोण्डवारा	2713	1178	313
		गोगांव (सीटी) वार्ड सं0 1	10456	2529	933
		सनडोंगरी	2952	48	79
		सरोना	9820	1172	2043
		रायपुर तहसील भाग			
		रायपुर रा0नि0मं0 (भाग)			
		32. तालीबन्द (हथबन्ध)	598	36	7
		वीरगांव नगर पालिका	60289	8361	2830
			247614	34902	12049
				14.24%	4.91%

50	50	रायपुर —1 या केन्द्रीय	रायपुर नगर पालिका निगम (भाग)			
			रायपुर(नगर निगम)वार्ड सं०. 12	9495	1613	365
			रायपुर (नगर निगम) वार्ड सं०. 13	7461	692	305
			रायपुर (नगर निगम) वार्ड सं०. 14	6843	258	61
			रायपुर (नगर निगम) वार्ड सं०. 15	8445	374	80
			रायपुर (नगर निगम) वार्ड सं०. 16	13532	541	116
			रायपुर (नगर निगम) वार्ड सं०. 17	10802	1879	326
			रायपुर (नगर निगम) वार्ड सं०. 18	12181	840	981
			रायपुर (नगर निगम) वार्ड सं०. 19	12751	485	386
			रायपुर (नगर निगम) वार्ड सं०. 20	9849	2417	428
			रायपुर (नगर निगम) वार्ड सं०. 21	7080	1865	445
			रायपुर (नगर निगम) वार्ड सं०. 22	7347	1035	476
			रायपुर (नगर निगम) वार्ड सं०. 23	14413	2185	638
			रायपुर (नगर निगम) वार्ड सं०. 24	5267	598	346
			रायपुर (नगर निगम) वार्ड सं०. 25	9164	2885	347
			रायपुर (नगर निगम) वार्ड सं०.44	7433	320	241
			रायपुर (नगर निगम) वार्ड सं०.45	5089	453	1
			रायपुर (नगर निगम) वार्ड सं०.46	5672	43	30
			रायपुर (नगर निगम) वार्ड सं०.47	6632	12	42
			रायपुर (नगर निगम) वार्ड सं०.48	9551	1161	64

			रायपुर (नगर निगम) वार्ड सं0.49	7166	17	50
			रायपुर (नगर निगम) वार्ड सं0.50	6657	167	79
			रायपुर (नगर निगम) वार्ड सं0.53	8431	751	182
			रायपुर (नगर निगम) वार्ड सं0.54	24048	1542	1661
			भनपुरी (सीटी) वार्ड सं0-1	16365	1509	649
			खमतलाई (बाह्य वृद्धि क्षेत्र) वार्ड सं0 66	4572	213	467
				236246	23855	8766
					10.10%	3.71%
51	51	मंदिर हसौद या रायपुर (पूर्व)	आरंग तहसील (भाग)			
			मंदिर हसौद रा0नि0म0 (भाग)			
			13 कुरुद पटवार सर्किल	4734	1656	116
			14 मंदिर हसौद पटवार सर्किल	10473	272	553
			15 बरौदा पटवार सर्किल	3104	2016	94
			रायपुर तहसील (भाग)			
			रायपुर रा0नि0 - 1 मंडल (भाग)			
			24 शंकर नगर पटवार सर्किल	6223	639	252
			25 तुलसी पटवार सर्किल	7454	2635	367
			26, छेरीखेड़ी पटवार सर्किल	9772	2728	355
			38 डुमरतराई पटवार सर्किल	17977	2336	848
			39 माना पटवार सर्किल	5556	1495	196

			रायपुर रा0नि0-2 सर्किल (भाग)			
			28 तिकरापारा (देवपुरी) पटवार सर्किल	3930	1838	63
			रायपुर नगर पालिका निगम (भाग)			
			रायपुर (नगर निगम) वार्ड सं0 26	11851	652	242
			रायपुर (नगर निगम) वार्ड सं0 27	9658	1316	296
			रायपुर (नगर निगम) वार्ड सं0 28	12898	2139	634
			रायपुर (नगर निगम) वार्ड सं0 29	8902	1535	565
			रायपुर (नगर निगम) वार्ड सं0 30	5966	1878	236
			रायपुर (नगर निगम) वार्ड सं0 31	9811	1612	669
			रायपुर (नगर निगम) वार्ड सं0 32	9797	2035	404
			रायपुर (नगर निगम) वार्ड सं0 33	11987	2009	761
			रायपुर (नगर निगम) वार्ड सं0 34	13017	1671	461
			रायपुर (नगर निगम) वार्ड सं0 35	10794	1468	422
			रायपुर (नगर निगम) वार्ड सं0 36	7836	1257	169
			शंकर नगर (बाह्य वृद्धि क्षेत्र)	3333	158	166
			मोवा (सीटी.) वार्ड सं0 1	13706	2355	615
			दलदल सियोनी	4359	285	77
			साधू	3003	397	39

			पुरेना (बाह्य वृद्धि क्षेत्र) वार्ड सं० 59	9608	2571	240
			फदाहर	2178	168	81
			अमलीडीह	2424	109	87
			अमलीडीह (बाह्य वृद्धि क्षेत्र) वार्ड सं० 60	2324	113	70
			लाभन्डीह	3949	1238	68
			लाभन्डीह (बाह्य वृद्धि क्षेत्र) वार्ड सं० 58	752	75	24
			तेलीबांधा (बाह्य वृद्धि क्षेत्र) वार्ड सं० 57	8379	1233	395
				235755	44390	9565
					18.83%	4.06%
52	52	आरंग (अ०जा०)	आरंग तहसील भाग			
			आरंग नगर पंचायत	16629	1255	317
			आरंग रा०नि०म० (भाग)			
			24 रसनी पटवार सर्किल	5248	1373	222
			25 खमतरई पटवार सर्किल	4614	1002	47
			26 फरफौद पटवार सर्किल	4407	890	15
			27 वाना पटवार सर्किल	4803	1053	143
			28 कोसरंगी पटवार सर्किल	4620	848	13
			29 भैंसा पटवार सर्किल	4567	1014	164
			30 खोरासी पटवार सर्किल	2824	1073	100
			31 भंडार पटवार सर्किल	3611	2101	120
			32 कोरासी पटवार सर्किल	3962	844	100

		33 पीरदा पटवार सर्किल	2660	1239	48
		34 अमोदी पटवार सर्किल	4001	1794	150
		35 कुरुद पटवार सर्किल	5927	857	700
		36 कुसुमण्ड पटवार सर्किल	5572	773	138
		37 तुलसी पटवार सर्किल	4557	672	285
		38 संकरी पटवार सर्किल	4553	1522	62
		39 बनारसी पटवार सर्किल	6447	432	123
		40 देवरी पटवार सर्किल	5298	1049	10
		41 गुल्लू पटवार सर्किल	4637	1117	121
		42 आरंग पटवार सर्किल	0	0	0
		43 पारागांव पटवार सर्किल	4313	371	109
		मंदिर हसोद रा0नि0म0 (भाग)			
		1 नरधा पटवार सर्किल	6043	1107	13
		2 मंगेली पटवार सर्किल	5759	1928	71
		3 चौदकुरी पटवार सर्किल	7056	565	85
		4 तेकरी पटवार सर्किल	4062	665	18
		5 दिघेरी पटवार सर्किल	4456	924	89
		6 भसौज पटवार सर्किल	5307	2140	112
		7 कुकरा पटवार सर्किल	6328	1048	57
		8 स्लोनी पटवार सर्किल	4721	375	295
		9 गोधी पटवार सर्किल	5028	885	75
		10 नवागाँव पटवार सर्किल	4501	1539	229
		11 मुनरेथी पटवार सर्किल	2862	1781	0

			12 बहनाकदी पटवार सर्किल	3182	1789	232
			तिलदा तहसील (भाग)	69601	14440	1890
			खरोना रा0नि0मं0			
			खरोना नगर पंचायत	7379	928	324
				239535	50828	6392
					21.86%	2.75%
53	53	अभनपुर	अभनपुर तहसील (भाग)			
			नवापारा रा0नि0मं0	81375	12480	5177
			गोबरा — नवापारा नगर पालिका	25591	3078	807
			अभनपुर रा0नि0मं0 भाग			
			6 खोरपा पटवार सर्किल	5611	217	206
			7 भटगांव पटवार सर्किल	5215	1876	307
			8 बेलर पटवार सर्किल	4165	374	349
			9 नहाना चोदी पटवार सर्किल	4620	1411	195
			10 नायक बाधा पटवार सर्किल	6322	2449	114
			11 अभनपुर पटवार सर्किल	1054	863	8
			12 साराखी पटवार सर्किल	4996	1309	6
			16 उपरवारा पटवार सर्किल	5299	550	282
			18 भेलवाडीह पटवार सर्किल	3298	1510	191
			अभनपुर नगर पंचायत			
			आरंग तहसील भाग			
			23 लखौली पटवार सर्किल	5212	1617	342
			44 निसदा पटवार सर्किल	6202	355	232
			45 भिलाई पटवार सर्किल	4842	1701	391

			46 चरौदा पटवार सर्किल	4568	964	199
			47 बन चरौदा पटवार सर्किल	5009	449	425
			48 गौरधध पटवार सर्किल	5074	189	258
			मंदिर हसौद रा०नि०मं० (भाग)			
			16 राखी पटवार सर्किल	3883	1198	188
			17 कुहेरा पटवार सर्किल	1499	814	0
			18 पलौद पटवार सर्किल	6867	1492	111
			19 गनौद पटवार सर्किल	4257	906	410
			20 कोसमखुन्ता पटवार सर्किल	3820	2510	137
			21 पारासद पटवार सर्किल	4911	2006	70
			22 रीवा पटवार सर्किल	6064	1135	577
				217575	42984	11606
					19.76%	5.33%
54	54	राजिम	राजिम तहसील	145513	17982	16773
			(राजिम नगर पालिका नया भाषितल करते हुए)			
			बिन्दुरनवरगढ तहसील ढरग			
			छुरर रा०नि०मं०	99728	6268	48979
			गररररररर रा०नि०मं० ढरग			
			20 कोचवे पटवर सर्किल	5645	192	3072
			21 ढरलगरंवर पटवर सर्किल	4306	229	2344
				255192	14671	71168
					9.67%	27.89%

55	55	बिन्द्रानवागढ़ (अ0ज0जा0)	देवभोग तहसील	76861	10425	19331
			बिन्द्रानवागढ़ तहसील भाग			
			मेनपुर रा0नि0मं0	104836	8398	55175
			गारियाबन्द रा0नि0मं0 भाग			
			17 पिपारछेदीकलां पटवार सर्किल	8711	287	6722
			18 फुलकरा पटवार सर्किल	5237	179	3323
			19 परसुली पटवार सर्किल	5087	251	2903
			22 पत्थरमोहदा पटवार सर्किल	3550	217	1559
			23 मजारकटा पटवार सर्किल	4688	269	2364
			24 पारागाँव पटवार सर्किल	5628	330	3522
			25 गारियाबन्द पटवार सर्किल	11660	1891	2094
			26 नहरगाँव पटवार सर्किल	4583	134	2611
			27 परसुली खुर्द पटवार सर्किल	4531	296	3404
			28 अमदी पटवार सर्किल	5231	157	4201
			29 बिन्द्रानवागढ़ पटवार सर्किल	6727	391	4614
			30 धवलपुरडीह पटवार सर्किल	7140	641	4051
				254470	23866	115874
					9.38%	45.53%

धमतरी जिला – कोई परिवर्तन नहीं

56	56	सिहावा (अ०ज०जा०)	परिसीमन आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित	228263	9512	121686
					4.71%	53.31%
57	57	कुरुद	परिसीमन आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित	228548	21059	20746
					9.21%	9.08%
58	58	धमतरी	परिसीमन आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित	249780	18823	43083
					7.54%	17.25%

दुर्ग जिला

नोट: दुर्ग जिला का निम्न प्रकार से परिसीमन होना चाहिए

59	59	संजारी बालोद	गुरुर तहसील (भाग)			
			पटवार सर्किल सं० 5 से 19	103761	6660	21813
			बालोद नगर पंचायत + बालोद रा०नि०मं०	114023	7478	30187
				217784	14138	54900
					6.49%	25.20%
60	60	डोंडीलोहारा (अ०ज०जा०)	संजारी बालोदा तहसील (भाग)			
			दली राजहरा रा०नि०मं० + (दली राजहरा नगर पालिका + बाह्य वृद्धि क्षेत्र)	155219	12934	77788
			डोंडीलोहारा रा०नि०मं०	78301	4574	44657

				233520	17508	122445
					7.49%	52.43%
61	61	गुन्डरदेही	खेरथा रा0नि0मं0	88707	5433	32514
			गुरुर तहसील (भाग)			
			पटवार सर्किल 1 से 4	27171	1335	1774
			गुन्डरदेही रा0नि0मं0	93650	11423	10410
			अर्जुनदा रा0पि0मं0 भाग			
			पटवार सर्किल 17 से 22	22578	1541	5128
				232106	19732	49826
					8.50%	21.46%
62	62	पाटन	पाटन रा0नि0मं0	87972	12014	7871
			भिलाई - 3 रा0नि0मं0	99934	14989	10176
			पाटन नगर पंचायत	8812	795	818
			कुम्हारी नगर पंचायत (भाग)	7843	1495	570
			कुम्हारी नगर पंचायत (भाग)	21913	3102	1552
			भिलाई चरौदा नगर पालिका (भाग) वार्ड सं0 9 से 12	10956	1717	1262
				237430	34112	22249

					14.36%	9.37%
63	63	अन्दा (दुर्ग ग्रामीण जिसका नया नाम अन्दा होना चाहिए)	अन्दा रा०नि०मं०	100760	14975	6221
			दुर्ग - II रा०नि०मं०	24616	1935	2211
			अर्जुनदा रा०नि०मं० भाग			
			पटवार सर्किल 1 से 16	66030	10032	7214
			भिलाई नगर निगम भाग			
			वार्ड सं० 62 से 67	51385	9241	3894
				242801	36183	19540
					14.90%	8.04%
64	64	दुर्ग शहर	दुर्ग नगर निगम	232517	24862	9679
			दुर्ग रा०नि०मं०- I भाग			
			अन्जोरा पटवार सर्किल	7313	229	480
			पुलगांव पटवार सर्किल	4229	613	312
				244059	25704	10471
					10.53%	4.29%
65	65	भिलाई नगर	भिलाई नगर निगम के वार्ड सं० 27 से 61	252336	31230	16255
					12.37%	6.44%

66	66	वैशाली नगर	भिलाई नगर निगम के वार्ड सं० 1 से 26	252635	35066	8831
					13.88%	3.49%
67	67	अहीवारा (अ०जा०)	भिलाई चरौदा नगर पालिका (भाग)	76629	11413	3790
			(वार्ड सं० 9 से 12 को छोड़कर)			
			जमूल नगर पालिका (संपूर्ण)	21640	1514	889
			अहीरवारा नगर पंचायत	18719	3036	1262
			अहीरावारा रा०नि०म० भाग			
			(पटवार सर्किल सं० 30, 31, 32, 33, 34 को छोड़कर)	70084	18314	4172
			दुर्ग रा०नि०म० भाग			
			(अंजोरा पटवार सर्किल, पुलगांव पटवार सर्किल को छोड़कर)	47739	5669	3087
				234811	39946	13200
					17.01%	5.62%
68	68	साजा	परिसीमन आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित	232518	23136	14243
					9.95%	6.13%

69	69	बेमेतरा	परिसीमन आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित	216473	32418	7360
					14.98%	3.40%
70	70	नवागढ़ (अ०जा०)	परिसीमन आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित	213963	50337	10381
					23.53%	4.85%
कबीरधाम (कवरधा) जिला						
नोट: कबीरधाम (कवरधा) जिला का परिसीमन निम्न प्रकार से होगा						
71	71	पंदारिया	पंदारिया तहसील	181775	31892	42023
			करवधा तहसील (भाग)			
			बोदला रा०नि०मं०	87845	6825	33709
			दशरंगपुर रा०नि०मं० (भाग)			
			28 झलमाला पटवार सर्किल	4325	110	480
			29 मरका पटवार सर्किल	4445	254	434
			30 धौराबंद पटवार सर्किल	4074	603	204
			31 चेचेदी पटवार सर्किल	4452	196	214
			32 घूरहा पटवार सर्किल	4450	175	531
				291366	40055	77595

					13.74%	26.63%
72	72	कवर्धा	कवर्धा रा0नि0मं0—1	87845	15355	8959
			कवर्धा रा0नि0मं0—2	25515	4193	1742
			वीरेंद्रनगर रा0नि0मं0	45872	3486	7293
			रेंगाखर रा0नि0मं0	26397	382	16040
			सहासपुर लोहारा रा0नि0मं0	51066	3573	6611
			कवर्धा (नगर निगम+बाह्य वृद्धि क्षेत्र)	32415	4121	1739
			दशरंगपुर रा0नि0मं0(भाग) पटवार सर्किल 33 से 39	29003	3186	5430
				298113	34296	47814
					11.53%	16.03%
राजनांदगांव जिला — कोई परिवर्तन नहीं						
73	73	खैरागढ़	परिसीमन आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित	224973	22701	28786
					10.09%	12.80%
74	74	डोंगरगढ़ (अ0जा0)	परिसीमन आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित	220777	28987	28675
					13.13%	12.99

75	75	राजनंदगांव	परिसीमन आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित	232707	29047	15199
					12.48%	6.53%
76	76	डोंगरगांव	परिसीमन आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित	21211	17814	49698
					8.40%	23.43%
77	77	खुज्जी	परिसीमन आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित	196922	17162	83113
					8.72%	42.21%
78	78	मोहला—मानपुर (अ०ज०जा०)	परिसीमन आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित	195726	11713	136217
					5.98%	69.60%
उत्तर बस्तर (कांकेर) जिला — कोई परिवर्तन नहीं						
79	79	अंतागढ (अ०ज०जा०)	परिसीमन आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित	207996	5568	100671
					2.68%	48.40%
80	80	भानुप्रतापपुर (अ०ज०जा०)	परिसीमन आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित	234175	13027	141618
					5.56%	60.48%
81	81	कांकेर (अ०ज०जा०)	परिसीमन आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित	208763	9068	122742
					4.34%	58.79%

बस्तर जिला – कोई परिवर्तन नहीं						
82	82	केसकल (अ०ज०जा०)	परिसीमन आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित	239877	8577	174078
					3.58%	72.57%
83	83	कोण्डागांव (अ०ज०जा०)	परिसीमन आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित	207608	9571	139050
					4.61%	66.98%
84	84	भानपुरी (अ०ज०जा०)	परिसीमन आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित	226688	85558	160338
					3.77%	70.73%
85	85	बस्तर (अ०ज०जा०)	बस्तर रा०नि०मं०	63838	833	44566
			कर्पावाण्ड रा०नि०मं०	54301	544	35003
			बाकावाण्ड रा०नि०मं०	71796	1725	44819
			केशलूर रा०नि०मं०(भाग)			
			62 करंजी पटवार सर्किल	11215	90	7299
			63 भनपुरी पटवार सर्किल छपर	8226	2	6240
			64 पोटनार पटवार सर्किल	8033	0	6590
				217409	3194	144517
					1.47%	66.47%
86	86	जगदलपुर	जगदलपुर रा०नि०मं०—क	77602	846	49099

			जगदलपुर रा0नि0म0-ख	19227	464	10756
			जगदलपुर नगर पालिका+बाहस विकास	103123	5737	16971
				199952	7047	76826
					3.52%	38.42%
87	87	चित्रकुट (अ0ज0जा0)	बस्तरनार रा0नि0म0	43049	366	39276
			चित्रकुट रा0नि0म0	64662	706	47388
			केसलूर रा0नि0म0 (पटवार सर्किल सं0 62, 63, 64 को छोड़कर)	38304	75	27415
			दार्भा रा0नि0म0	60437	556	51073
			कुकानार नगर पालिका	8687	32	6527
				215139	1735	171679
					0.80%	79.79%
दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा) जिला - कोई परिवर्तन नहीं						
88	88	दंतेवाड़ा (अ0ज0जा0)	परिसीमन आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित	247029	10859	173714
					4.40%	70.32%
89	89	बिजापुर (अ0ज0जा0)	परिसीमन आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित	241173	9672	196272
					4.01%	81.38%
90	90	कोन्टा (अ0ज0जा0)	परिसीमन आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित	231285	3622	194945
					1.57%	84.29%

प्रस्तावित अ०ज०जा० विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और अ०ज०जा० की आबादी का प्रतिशत

अ०ज०जा० के लिए प्रस्तावित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	29
--	----

	प्रस्तावित विधान सभा क्षेत्र का नाम व संख्या	अ०ज०जा० 2001 Census Population		
		Total	ST	ST % age
1.	90. कोन्टा (अ०ज०जा०)	231285	194945	84.29
2.	89. बिजापुर (अ०ज०जा०)	241173	196272	81.38
3.	87. चित्रकुट (अ०ज०जा०)	215139	171679	79.79
4.	11. सीतापुर (अ०ज०जा०)	236510	175076	74.02
5.	82. केशकल (अ०ज०जा०)	239877	174078	72.57
6.	84. भानपुरी (अ०ज०जा०)	226688	160338	70.73
7.	88. दत्तेवाड़ा (अ०ज०जा०)	247029	173714	70.32
8.	78. मोहला — मानपुर (अ०ज०जा०)	195726	136217	69.60
9.	12. जाशपुर (अ०ज०जा०)	260102	176703	67.94
10.	23. पालि तनखार (अ०ज०जा०)	263023	177718	67.57
11.	8. सामरी (अ०ज०जा०)	245366	165376	67.40
12.	83. कोदागांव (अ०ज०जा०)	207608	139050	66.98
13.	85. बस्तर (अ०ज०जा०)	217409	144517	66.47
14.	14. पाथालगांव (अ०ज०जा०)	256775	168180	65.50
15.	19. धरामजयगढ़ (अ०ज०जा०)	258974	168482	65.05
16.	6. प्रतापपुर (अ०ज०जा०)	227463	143865	63.24
17.	80. भानुप्रतापपुर (अ०ज०जा०)	234175	141618	60.48
18.	24. माड़वाही (अ०ज०जा०)	235340	139163	59.13

19.	81. कांकर (अ0ज0जा0)	208763	122742	58.79
20.	9. लुन्डा (अ0ज0जा0)	224581	131659	58.62
21.	1. भरतपुर सोनहट (अ0ज0जा0)	197870	114894	58.07
22.	13. कुनकुरी (अ0ज0जा0)	226283	125070	55.27
23.	20. रामपुर (अ0ज0जा0)	245371	132556	54.02
24.	7. रामानुजगंज (अ0ज0जा0)	264581	141971	53.66
25.	56. सिंहवा (अ0ज0जा0)	228263	121686	53.31
26.	60. डोन्डी लोहरा (अ0ज0जा0)	233520	122445	52.43
27.	79. अन्तागढ (अ0ज0जा0)	207996	100671	48.40
28.	55. बिन्दानावागढ (अ0ज0जा0)	254470	115874	45.53
29.	5. भाटगाव (अ0ज0जा0)	253417	109329	43.14
30.	25. कोटा	221033	95015	42.98
31.	77. खुज्जी	196922	83113	42.21
32.	3. बैकुण्ठपुर	197486	82000	41.52
33.	4. सूरजपुर-प्रेमनगर	268308	110392	41.14
34.	10. अम्बिकापुर	251868	99001	39.30
35.	86. जगदलपुर	199952	76286	38.42
36.	18. खारसिया	270606	99295	36.69
37.	16. रायगढ	274971	91355	33.22
38.	2. महेन्द्रगढ	190971	63146	33.07
39.	41. खल्लारी	204808	67186	32.80
40.	22. काठघोडा	239575	74842	31.24
41.	40. बासना	222803	64119	28.78

42.	51. राजिम	255192	71168	27.89
43.	71. पण्डारिया	286439	77595	27.08
44.	39. सराईपालि (अ०ज०)	216305	58274	26.94
45.	59. सन्जारी बालोद	217784	54900	25.20
46.	76. डोन्नरगांव	212119	49698	23.43
47.	15. सरिया	229136	49989	21.81
48.	61. गुन्देरदेही	232106	49826	21.46
49.	42. महासमुन्द	216341	42906	19.83
50.	44. कास्दोल	214682	42560	19.82
51.	35. शक्ति	217819	41726	19.16
52.	36. मल्खोद्रा	218689	39467	18.05
53.	58. धमतरी	249780	43083	17.25
54.	17. सारंगढ़ (अ०ज०)	231842	38577	16.63
55.	26. लोमी	209819	33895	16.15
56.	72. कर्वाधा	298113	47814	16.03
57.	33. अकलतारा	230427	33432	14.51
58.	21. कोरबा	263854	34773	13.18
59.	28. ताखतपुर	217728	28414	13.05
60.	74. डोन्नरगढ़ (अ०ज०)	220777	28675	12.99
61.	45. भाटापारा	211794	27345	12.91
62.	73. खैरागढ़	224973	28786	12.80
63.	32. मस्तुरी (अ०ज०)	223704	28498	12.74
64.	31. बेल्तारा	201534	22618	11.22

65.	29. बिल्हा	233063	25314	10.86
66.	37. चन्द्रपुर	215087	20159	9.37
67.	62. पाटन	237430	22249	9.37
68.	46. बलोडा बाजार	232338	21748	9.36
69.	57. कुरुद	228548	20746	9.08
70.	43. बिलाईगढ़ (अ०ज०)	212513	17461	8.34
71.	63. अण्दा	242801	19540	8.04
72.	75. राजनंदगांव	232707	15199	6.53
73.	65. मिलाई नगर	252336	16255	6.44
74.	68. साजा	232518	14243	6.13
75.	27. मुगेली (अ०ज०)	221073	13537	6.12
76.	67. अहिवाडा (अ०ज०)	234811	13200	5.62
77.	53. अमानपुर	217575	11606	5.33
78.	51. रायपुर ग्रामीण — दक्षिण	237634	11950	4.95
79.	49. रायपुर भाहर — पश्चिम	247614	12049	4.91
80.	70. नवागढ़ (अ०ज०)	213963	10381	4.85
81.	30. बिलासपुर	235061	10650	4.53
82.	64. दुर्ग शहर	244059	10471	4.29
83.	38. पामगढ़ (अ०ज०)	206482	8790	4.26
84.	34. जाजगीर — चम्पा	228927	9495	4.15
85.	48. रायपुर पूर्व या मंदिर हासोद	235755	9565	4.06
86.	50. रायपुर केन्द्रीय शहर	236246	8766	3.71
87.	47. धारसिवा	222240	8207	3.70

88.	66. वैशाली नगर	252635	8831	3.49
89.	69. बेमेतरा	216473	7360	3.40
90.	52. आरंग (अ0ज0)	239535	6392	2.75

संलग्न ख

परिसीमन आयोग की धारा 9(2) के अधीन विसम्मत प्रस्ताव

आयोग के सहसदस्य महेन्द्र कर्मा द्वारा प्रस्तावित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

टिप्पण:— मेरे प्रस्ताव में पहले से विद्यमान रचना में न्यूनतम अपेक्षित परिवर्तन किये गए हैं, यद्यपि सारंगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पुनः निकलता है। प्रत्येक पटवार सर्किल की जनसंख्या स्वीकृत सीमा के भीतर है तथा रायपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को 9 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र दिए गए हैं क्योंकि यह विरल जनसंख्या वाले बस्तर की तुलना में धनी जनसंख्या वाला है। यह रचना सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के भौगोलिक रूप से सुगठित, आसान पहुँच वाला, निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रशासनिक रूप से आसान तथा जनता की भावनाओं के अनुसार भी बनाती है।

प्रस्तावित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	11
प्रति संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का औसत	1893982
स्वीकृत सीमा	1704584-2083380
अजजा के लिए प्रस्तावित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	3
अजा के लिए प्रस्तावित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	1

क्र0सं0	लोकसभा का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	जिला	कुल जनसंख्या	अ0जा0	अ0ज0जा 0
1	सरगुजा	भरतपुर — सोनहट(अजजा)	कोरिया	197870	14736	114894
		महेन्द्रगढ़	कोरिया	190971	18152	63146
		बैकुण्ठपुर	कोरिया	197486	15317	82000
		सूरजपुर — प्रेमनगर	सरगुजा	268308	15183	110392
		भटगांव (अजजा)	सरगुजा	253417	13785	109329
		प्रतापपुर (अजजा)	सरगुजा	227463	7976	143865
		रामानुजगंज (अजजा)	सरगुजा	264581	13618	141971
		अम्बिकापुर	सरगुजा	251868	14025	99001
				1851964	112792	864598
					6.08%	46.69%

2	रायगढ़ (अजजा)	लुण्डा (अजजा)	सरगुजा	224581	10008	131659
		सामरी (अजजा)	सरगुजा	245366	11032	165376
		सीतापुर (अजजा)	सरगुजा	236510	9210	175076
		जाशपुर (अजजा)	जाशपुर	260102	10275	176703
		कुन्कुरी (अजजा)	जाशपुर	226283	7645	125070
		पाथालगाव (अजजा)	जाशपुर	256775	18480	168180
		धरमजयगढ़ (अजजा)	रायगढ़	258974	17531	168482
		रायगढ़	रायगढ़	274971	35890	91355
				1983562	120071	1201901
					6.05%	60.60%
3.	कोरबा — जांजगीर	पालि तनखार (अजजा)	कोरबा	263023	11452	177718
		रामपुर (अजजा)	कोरबा	245371	26110	132556
		कोरबा	कोरबा	263854	32838	34773
		काठघोड़ा	कोरबा	239575	30560	74842
		शक्ति	जांजगीर - चम्पा	217819	32642	417126
		जांजगीर - चम्पा	जांजगीर - चम्पा	228927	49532	9495
		अकलतारा	जांजगीर - चम्पा	230427	50392	33432
		मस्तुरी (अजा)	बिलासपुर	223704	55207	28498
				1912700	288733	533040
					15.09%	27.86%
4.	बिलासपुर	मारवाही (अजजा)	बिलासपुर	235340	15060	139163
		कोटा	बिलासपुर	221033	20982	95015
		लोरमी	बिलासपुर	209819	50203	33875
		मुंगेलि (अजजा)	बिलासपुर	221073	62665	13537

		तखतपुर	बिलासपुर	217728	41368	28414
		बिलासपुर	बिलासपुर	235061	29785	10850
		बेलतरा	बिलासपुर	201534	47055	22618
		बिल्हा	बिलासपुर	233063	46763	25314
		पण्डरिखी	कबीरधाम	286439	40055	77595
				2061090	353936	446181
					17.17%	21.62%
5	सारंगढ़ (अजा)	खारसिया	रायगढ़	270606	29504	99295
		सारंगढ़ (अजा)	रायगढ़	231842	62693	38577
		सरिया	रायगढ़	229136	34126	49989
		चन्द्रपुर	जाजगीर - चम्पा	215087	53554	20159
		मालखरोवा	जाजगीर - चम्पा	218689	48196	39467
		पामगढ़ (अजा)	जाजगीर - चम्पा	206482	61883	8790
		बिलाईगढ़ (अजा)	रायपुर	212153	58421	17461
		कसडोल	रायपुर	214682	37031	42560
				1798677	385408	316298
					21.42%	17.58%
6	महासमुन्द	महासमुन्द	महासमुन्द	216341	30504	42906
		खल्लारी	महासमुन्द	204808	20845	67186
		सरईपाली (अजा)	महासमुन्द	216305	32251	58274
		बसना	महासमुन्द	222803	20791	64119
		राजिम	रायपुर	255192	14671	71168
		बिन्द्रानवागढ़ (अजजा)	रायपुर	254470	23866	115874
		कुरुद	धमतरी	228548	21059	20746
		धमतरी	धमतरी	249780	18823	43083
				1848247	182810	483356
					9.89%	26.15%

7	रायपुर	अभनपुर	रायपुर	217575	42984	11606
		आरग (अजा)	रायपुर	239535	50823	6392
		रायपुर ग्रामीण - दक्षिण	रायपुर	237634	20881	11950
		रायपुर केन्द्रीय	रायपुर	236246	23855	8766
		रायपुर पश्चिम	रायपुर	247614	34902	12049
		रायपुर पूर्व - मंदिर हसीद	रायपुर	235755	44390	9565
		धरसिवा	रायपुर	222240	32441	8207
		बालोदा बाजार	रायपुर	232338	46437	21748
		भाटापारा	रायपुर	211794	38233	27345
				2080731	334951	117628
					16.10%	5.65%
8	दुर्ग	पाटन	दुर्ग	237430	34112	22249
		दुर्ग ग्रामीण	दुर्ग	242801	36183	19540
		दुर्ग शहर	दुर्ग	244059	25704	10471
		वैशाली नगर	दुर्ग	252635	35066	8831
		भिलाई नगर	दुर्ग	252336	31230	16255
		अहिवारा (अजा)	दुर्ग	234811	39946	13200
		बेमेतरा	दुर्ग	216473	32418	7360
		नवागढ़ (अजा)	दुर्ग	213963	50337	10381
				1894508	284996	108287
					15.04%	5.71%
9	राजनंदगांव	मोहला मानपुर (अजजा)	राजनंदगांव	195726	11713	136217
		खुज्जी	राजनंदगांव	196922	17162	83113
		डोंगरगांव	राजनंदगांव	212119	17814	49698
		राजनंदगांव	राजनंदगांव	232707	29047	15199
		डोंगरगढ़ (अजा)	राजनंदगांव	220777	28987	28675

		खैरागढ़	राजनंदगांव	224973	22701	28786
		कवर्धा	कबीरधाम	298113	34296	47814
		साजा	दुर्ग			
				1813856	184856	403745
					10.19%	22.26%
10	कांकर (अजजा)	सिहावा (अजजा)	धमतरी	228263	9512	121686
		अंतागढ़ (अजजा)	उत्तर बस्तर	207996	5568	100671
		भानुप्रतापपुर (अजजा)	उत्तर बस्तर	234175	13027	141618
		कांकर (अजजा)	उत्तर बस्तर	208763	9068	122742
		कस्कल (अजजा)	बस्तर	239877	8577	174078
		संजारी बालोद	दुर्ग	217784	14138	54900
		गुन्देरदेही	दुर्ग	232106	19732	49826
		डोन्डीलोहारा (अजजा)	दुर्ग	233520	17508	122445
				1802484	97130	887966
					5.39%	49.26%
11	बस्तर (अजजा)	कोडागांव (अजजा)	बस्तर	20760	9571	139050
		भानपुरी (अजजा)	बस्तर	226688	8555	160338
		बस्तर (अजजा)	बस्तर	217409	3194	144517
		चित्रकुट (अजजा)	बस्तर	215139	1735	171879
		जगदलपुर	बस्तर	199952	7047	78626
		दत्तेवाड़ा (अजजा)	दक्षिण बस्तर	247029	10859	173714
		बीजापुर (अजजा)	दक्षिण बस्तर	241173	9672	196272
		कोन्टा (अजजा)	दक्षिण बस्तर	231285	3622	194551
				1786283	54255	125111
					3.03%	70.39%

महेन्द्र कर्मा
नेता प्रतिपक्ष
छत्तीसगढ़ विधान सभा

दूरभाष

वि०स०का० 07826 – 256333

नि०का० 2331055

2331064

निवास: बस्तर कुटीर, बी-5/10

भांकर नगर रोड, सिविल लाइंस,

रायपुर (छत्तीसगढ़) 492001

प०क० 1814/ने०प्र०वि०स०/2005

दिनांक 12.11.2005

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष और सदस्य,
परिसीमन आयोग
निर्वाचन सदन, नई दिल्ली

विशय:— छत्तीसगढ़ के निर्वाचन – क्षेत्रों के सन्दर्भ में विसम्मत प्रस्ताव ।

सन्दर्भ:— दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 का आपका पत्र सं० 282/सीजीएच/2005 – खण्ड ।।

आदरणीय महोदय,

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित प्रारूप प्रस्ताव, जिसे आयोग ने, 2001 की जनगणना आंकड़ों के आधार पर राज्य का विभाजन विधानसभा और संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में, करने के सन्दर्भ में भेजा है, मैं प्रत्येक जिले के लिए स्थानों की हकदारी, जैसा कि पेपर-1 के पृष्ठ -1 में दर्शाया गया है, वह, जिलों के लिए विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का आबंटन करने तथा विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन की कार्यप्रणाली के अनुसार नहीं है । जिलों के लिए विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों को आबंटित करने की कार्यप्रणाली के अनुसार उस जिले की कुल जनसंख्या को, प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र की औसत जनसंख्या से विभाजित किया जाना चाहिए और राज्य औसत के अनुसार एक जिले की हकदारी में यदि भिन्न होता है, आधे से अधिक से अधिक के भिन्न को एक के रूप में गिना जाएगा तथा आधे से कम के भिन्न की उपेक्षा कर दी जाएगी। आयोग के द्वारा

भेजे गए प्रारूप प्रस्ताव में प्रेपर-1 के पृष्ठ-1 में कोरिया और कबीरधाम जिलों के लिए स्थानों की हकदारी निम्नप्रकार से है:-

जिले का नाम	स्थानों की हकदारी	
कोरिया	2.53	3
कबीरधाम	2.53	2

यद्यपि, समान भिन्न रखते हुए भी उपर्युक्त 2 जिलों में स्थानों की हकदारी असमान है । कोरिया 3 स्थानों का हकदार है तथा कबीरधाम 2 स्थानों का हकदार है । अतः मैं, आयोग के द्वारा प्रस्तावित, कबीरधाम जिले की विधानसभा के लिए स्थानों की हकदारी से असहमत हूँ तथा मैं यह प्रस्ताव रखता हूँ कि भिन्न के अनुसार कबीरधाम जिला भी, वीरेन्द्र नगर, कवर्धा तथा पण्डरिया के नाम से तीन स्थानों का हकदार है ।

मैं यह भी सुझाव देता हूँ कि, लोरमी-पण्डरिया पहले एक निर्वाचन-क्षेत्र था, उस स्थिति को अब भी यथावत बनाए रखा जाए तथा शेष कबीरधाम जिले को, कवर्धा तथा वीरेन्द्र नगर के रूप में दो भागों में विभाजित कर दिया जाए जैसा कि वह पहले था ।

प्रारूप प्रस्ताव के अनुसार, कबीरधाम जिले के एक विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की जनसंख्या - 3,06,156 है जबकि राज्य में विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्रों की औसत जनसंख्या 2,31,487 है, और इसलिए कबीरधाम जिले में विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्रों की जनसंख्या का तर्क संगत आबंटन करने के लिए, पहले की तरह ही, एक निर्वाचन-क्षेत्र बनाने के लिए लोरमी से पण्डरिया को जोड़ दिया जाना चाहिए ।

धन्यवाद,

भवदीय,

ह०/-

महेन्द्र कर्मा

ह०/-

(भूपेश बघेल)

दुरभाष वि.सं.का- 2283624

नि.का. 2331055

2331064

महेन्द्र कर्मा

नेता प्रतिपक्ष,

छत्तीसगढ़ विधान सभा

निवास : बस्तर कुटीर, बी-5/10

शंकर रोड, सिविल लाइंस,

रायपुर नगर (छत्तीसगढ़) 492001

पत्र सं० 1814/ने.प्र.वि.स./200

दिनांक : 12/11/2005

प्रति,

मान. श्री कुलदीप सिंह,

अध्यक्ष,

परिसीमन आयोग,

नई दिल्ली,

विषय:— पाल विधान सभा क्षेत्र के परिसीमन के संबंध में ।

विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 5 जिला सरगुजा (अनुसूचित जनजाति) छत्तीसगढ़ परिसीमन के प्रस्ताव में वाङ्गफनगर तहसील को हटाकर प्रतापपुर विधान सभा में जोड़ा गया है । इस आदिवासी बहुल क्षेत्र के आवागमन, नदियों एवं पहाड़ों की स्थिति अर्थात् क्षेत्र की भौगोलिक दृष्टि को देखते हुये ऐसा करना आदिवासी बहुल क्षेत्र के साथ न्याय संगत नहीं होगा । अतः वर्तमान प्रस्ताव में से पाल विधान सभा को पूर्ववत् रखते हुये जिसमें रामचन्द्रपुर एवं वाङ्गफनगर तहसील शामिल है, को यथा स्थिति बनाया जावे एवं बलरामपुर आर आईत्र सर्किल को इसमें से हटाया जावे ।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि जनता के व्यापक हितों को देखते हुये इसे इसी मूल रूप में प्रकाशित करने की कृपा करें ।

ह0/--

(महेन्द्र कर्मा)

नेता प्रतिपक्ष,

छत्तीसगढ़ विधान सभा

III

पुन्नूलाल मोहले
(छत्तीसगढ़)
संसद सदस्य
(लोक सभा)
बिलासपुर छत्तीसगढ़

ग्राम व पोस्ट—दशरंगपुर, वाया तखतपुर
तह—मुंगेली, जिला बिलासपुर
दुरभाष : (07755)—233351
बिलासपुर : (07752)—270900

13 नार्थ एवेन्यु, नई दिल्ली—110001
दुरभाष : 011—23094416
मोबाइल : 9425219600

दिनांक — 11/11/2005

श्री पुन्नूलाल मोहले
सांसद सदस्य
बिलासपुर एवं
सदस्य
परिसीमन आयोग
नई दिल्ली ।

प्रति,

मा. अध्यक्ष महोदय,
परिसीमन आयोग
निर्वाचन सदन, नई दिल्ली

विषय :— बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 05 को पुनः अनुसूचित जाति (SC) सीट को
आरक्षित (यथावत) रखने बाबत ।

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र क्रमांक
05 वर्तमान में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है ।

सीमांकन के प्रस्ताव में बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 05 को सामान्य सीट
दर्शाया गया है तथा बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति को हटाकर रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र
क्रमांक 03 को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है जो न्यायसंगत नहीं है । मेरा
निम्नलिखित सुझाव है :—

1. प्रस्तावित रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 03.04 (चार) जिलों के अनुसूचित जाति जनसंख्या अधिकता वाले विधान सभा को शामिल किया गया है तथा उक्त विधान सभा क्षेत्रों में से तीन रायगढ़ (SC) , क्रमांक 17 राईपाली (SC) , क्रमांक 39 बिलाईगढ़(SC), 43 (SC) अनुसूचित जाति बाहुल्य अधिक संख्या वाले क्षेत्र को शामिल किया गया है ।

उक्त लोकसभा क्षेत्र की जनसंख्या -

कुल जनसंख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1912986	359175-18-78	377256-19.72

वर्तमान जिला बिलासपुर अनुसूचित जाति आरक्षित लोकसभा क्षेत्र को जो सामान्य वर्ग के लिए दर्शाया गया है । जिससे 9 (नौ) विधान सभा क्षेत्र बताया गया है -

	टोटल जनसंख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति
जिला बिलासपुर	1998355	369088-18.17	397104-19.87

एक ही जिले का विधानसभा क्षेत्र की जनसंख्या कुल रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 03 चार जिलों को मिलाकर यथा रायगढ़ जिला-जिला जांजीर चांपा, जिला महासमुंद, जिला रायपुर की जनसंख्या -

	कुल जनसंख्या	अनु.जाति
जिला बिलासपुर लोकसभा	1998355	369088-18.47
जिला रायगढ़ लोकसभा	1912986	359175-18.78

अतः रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 03 अनुसूचित जाति बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 05 में 0.31 का अंतर है तथा रायगढ़ लोकसभा क्रमांक 03 से बिलासपुर लोक सभा क्षेत्र एक ही जिला में 9913 जनसंख्या बाहुल्यता है ।

राजपत्र में प्रकाशित दस्तावेज में आयोग द्वारा जानकारी दी गई है, उसमें अनुसूचित जाति लोकसभा एवं विधान सभा सीटों के आरक्षण में अधिक प्रतिशत वाले आबादी आरक्षित करने का बाध्यता का प्रावधान है ।

रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 03 चार जिलों को मिलाकर लोकसभा क्षेत्र के 0.31 अधिक प्रतिशत के आधार पर आरक्षित किया गया है । उसे आरक्षित न कर बिलासपुर लोक सभा क्षेत्र क्रमांक 05 एक ही जिला से बना हुआ है ।

लोकसभा सीट को जो रायगढ़ लोकसभा 4 जिलों से बने हुए लोकसभा क्षेत्र बिलासपुर की सबसे अधिक जनसंख्या 9913 से ज्यादा है । इस कारण बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 05 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया जाये ।

3. बिलासपुर जिले के विधान सभा जरहागांव अनुसूचित जाति आरक्षित सीट को विलोपित किया गया है जो न्यायसंगत नहीं है ।

4. अतः आपसे निवेदन है कि बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 05 को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित (यथावत) रखा जायें ।

भवदीय,

ह0 / -

(पुन्नुलाल मोहले)

सदस्य परिसीमन आयोग

नई दिल्ली

प्रतिलिपि:-

1. माननीय अध्सक्ष जी,
विधान सभा छत्तीसगढ़ शासन,
रायपुर-12.08.2005
2. श्री बी.एल. अग्रवाल,
निर्वाचन सदन छत्तीसगढ़,
रायपुर ।

पुन्नुलाल मोहले
संसद सदस्य
(लोक सभा)
बिलासपुर, छत्तीसगढ़

ग्राम व पोस्ट — दशरंगपुर, वाया तखतपुर
तह — मुंगेली, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
दूरभाष : (07755)—233351
बिलासपुर : (07752)—27090

13 नार्थ एंवेन्यु, नई दिल्ली—110001
दूरभाष : 011—23094416
मोबाईल : 9425219600
दिनांक — 14/11/2005

प्रति

मा. अध्यक्ष महोदय
परिसीमन आयोग
निर्वाचन सदन, नई दिल्ली ।

विषय: बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के अन्तर्गत में पूर्व से जरहागांव विधानसभा को समाप्त किया गया पुनः यथावत रखने बाबत ।

महोदय,

निवेदन है कि बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान में जो जरहागांव विधान सभा क्षेत्र अ.जा. के लिये आरक्षित है उसे विलोप करते हुए प्रस्तावित विधान सभा क्षेत्र जरहागांव को नामो निशान मिटा दिया गया है । उक्त क्षेत्र के जरहागांव आर.आई सर्किल मुंगेली विधान सभा क्षेत्र में शामिल किया है एवं पथरिया आर.आई सर्किल को बिल्हा विधान सभा क्षेत्र में शामिल किया है जो कि अनुचित है ।

अतः जरहागांव विधान सभा क्षेत्र विलोपित नहीं किया जाये । परिसीमन आयोग से निवेदन है कि अ.जा. के लिये सुरक्षित यथावत रखा जाए ।

भवदीय,
ह0/-
(पुन्नुलाल मोहले)
सदस्य परिसीमन आयोग

प्रति

मा. अध्यक्ष
परिसीमन आयोग
निर्वाचन सदन,
अशोक रोड, नई दिल्ली ।

दिनांक:-16/11/2005

विषय:- संसदीय क्षेत्र बिलासपुर को अनुसूचित जाति वर्ग के लिये आरक्षित करने के संबंध में ।

महोदय,

निवेदन है कि छत्तीसगढ़ राज्य के हम परिसीमन आयोग के निम्न हस्ताक्षरित सदस्यों द्वारा पूर्व में भी आपसे यह आग्रह किया गया था कि बिलासपुर संसदीय क्षेत्र को अनुसूचित जाति वर्ग के लिये आरक्षित करेंगे । आपके द्वारा वर्तमान में भेजे गये प्रारूप में भी इस बात का उल्लेख है कि वह परीक्षणाधीन है ।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि बिलासपुर संसदीय क्षेत्र को अनुसूचित जाति वर्ग के लिये आरक्षित करने का कष्ट करेंगे ।

ह0/-

(बलीराम कश्यप)
सांसद

ह0/-

(प्रेम प्रकाश पाण्डेय)
विधायक

ह0/-

(रमेश बैस)
सांसद

ह0/-

(अजय चन्द्राकर)
विधायक

ह0/-

(श्रीमति करुणा शुकला)
सांसद

ह0/-

(पुन्नूलाल मोहले)
सांसद

फैक्स न.0091-771-2331070.

प्रति,

मान. अध्यक्ष
परिसीमन आयोग,
निर्वाचन सदन,
अशोका रोड, नई दिल्ली - 110001.

विषय:- संसदीय क्षेत्र बिलासपुर को अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित करने के संबंध में ।

—00—

महोदय,

निवेदन है कि छत्तीसगढ़ राज्य के हम परिसीमन आयोग के निम्न हस्ताक्षरित सदस्यों द्वारा पूर्व में भी आपसे यह आग्रह किया गया था कि बिलासपुर संसदीय क्षेत्र को अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित करेंगे । आपके द्वारा वर्तमान में भेजे गये प्रारूप में भी इस बात का उल्लेख है कि वह परीक्षणाधीन है ।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि बिलासपुर संसदीय क्षेत्र को अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित करने का कष्ट करेंगे ।

ह0/-

(बृजमोहन अग्रवाल)

विधायक, रायपुर (छ.ग.)

विक्रमदास मोहले
विधायक
क्षेत्र क. 27, मुंगेली
जिला—बिलासपुर (छ.ग.)

विधायक विश्रामगृह
अयोध्या अपार्टमेंट जी.-6, रायपुर
फोन नं. -331185
जनपत सराय भवन, पड़ाव चौक
मुंगेली, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
फोन नं. 56108-51064
बिलासपुर फोन नं. 35580

दिनांक 14/11/2005

प्रति,

निर्वाचन आयुक्त,
छत्तीसगढ़ राज्य शासन
रायपुर (छ.ग.)

विषय:—बिलासपुर लोक सभा को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करने बाबत ।

महोदय,

निवेदन है कि छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बिलासपुर के अन्तर्गत बिलासपुर लोक सभा अनुसूचित जाति के लिए वर्तमान आरक्षित तथा उक्त लोकसभा अन्तर्गत 1.जरहागांव विधान सभा एवं मुंगेली विधान सभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है । वर्तमान परिसीमन में जरहागांव विधान सभा को विलोपित किया गया है जा रहा है तथा बिलासपुर लोक सभा SC वर्ग के लिए आरक्षित है उसे भी सामान्य जाति बनाया जा रहा है इस कारण निवेदन है कि बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र को अनुसूचित जाति बाहुल्य तथा पूरे प्रदेश अनुसूचित जाति की जनसंख्या ज्यादा है तथा पूरे प्रदेश अनुसूचित की जनसंख्या ज्यादा है ।

उक्त बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखा जाय ।

भवदीय,

ह0/-

(विक्रमदास मोहले)

IV

बलीराम कश्यप
संसद सदस्य (लोक सभा)
20, बस्तर (छत्तीसगढ़)

22, जनपथ, नई दिल्ली
फोन : 23782357
ग्राम तथा डाकघर भानपुरी
फोन : (07867) 282606
तहसील जगदलपुर
फोन : 225210
जिला— बस्तर (छत्तीसगढ़)

पत्र. क्रमांक / 897 / 2005

दिनांक 11 नवम्बर, 2005

प्रति,

डायरेक्टर
परिसीमन आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य
निर्वाचन सदन नई दिल्ली ।

विषय:— कांकेर लोकसभा को अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीट किए जाने बाबत ।

परिसीमन आयोग द्वारा प्रस्तावित कांकेर लोकसभा क्षेत्र में सिहावा, धमतरी, मालोद, डौडीलोहरा, गुंडरदेही, अन्तागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर एवं केशकाल विधानसभा क्षेत्रों को शामिल कर पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित किया गया है ।

उल्लेखनीय है कांकेर लोकसभा क्षेत्र में समाहित किया जाना प्रस्तावित 9 विधानसभा क्षेत्रों में 6 विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित वर्ग में हैं । कृपया इस आधार पर कांकेर लोकसभा को अनुसूचित जन जाति हेतु आरक्षित किया जावे ।

कृपया उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

H0/-

(बलीराम कश्यप)

बलीराम कश्यप
संसद सदस्य (लोक सभा)
20, बस्तर (छत्तीसगढ़)

22, जनपथ, नई दिल्ली
फोन : 23782357
ग्राम तथा डाकघर भानपुरी
फोन : (07867) 282606
तहसील जगदलपुर
फोन : 225210
जिला— बस्तर (छत्तीसगढ़)
दिनांक 11 नवम्बर, 2005

पत्र. क्रमांक / 897 / 2005
प्रति,

डायरेक्टर
परिसीमन आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य
निर्वाचन सदन नई दिल्ली ।

परिसीमन आयोग छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा प्रस्तावित विधानसभा क्षेत्रों
में निम्नानुसार संशोधन पश्चात पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है ।

क्र.	विधान सभा क्षेत्र का नाम	प्रस्तावित क्षेत्र जिसे शामिल किया जाना है	2001 की जनगणना अनुसार जनसंख्या		
			कुल	अनु. जन. जा.	अनु. जन. जाति प्रतिशत
1.	जगदलपुर	जगदलपुर आर.आई. सर्किल—ए (पटवारी हल्का नं. 59 पल्लीगांव कुम्हरावंड, एवं पटवारी हल्का न. 61 घाटपदमुर एवं तितिरगांव को छोड़कर) जगदलपुर (एम प्लस ओ.जी.) सम्पूर्ण दरभा आर.आई सर्किल	73119 103123 69124	46851 16971 57500	
		योग	245366	121322	49.44

2.	चित्रकोट	केशलूर आर.आई. सर्किल	65778	47544	
		बास्तानार आर.आई. सर्किल	43049	39276	
		चित्रकोट आर.आई. सर्किल	64662	47388	
		जगदलपुर आर.आई. सर्किल-ए			
		(पटवारी हल्का नं. 59	478	280	
		पल्लीगांव	684	302	
		कुम्हरावंड			
		पटवारी हल्का नं. 61	2129	967	
		घाटपदमुर	1192	699	
		तितिरगांव			
		योग —	177972	136456	76.67

उल्लेखनीय है कि दरभा आर.आई. सर्किल को जगदलपुर एवं चित्रकोट विधानसभा में शामिल किये जाने का उल्लेख है, जिसे पूर्ण रूप से जगदलपुर विधानसभा में शामिल किया जाना प्रस्तावित है।

यह भी प्रस्तावित है कि भौगोलिक दृष्टि से जगदलपुर आर.आई. सर्किल-ए पटवारी हल्का नं. 59 पल्लीगांव कुम्हरावंड, एवं पटवारी हल्का नं. 61 घाटपदमुर एवं तितिरगांव को चित्रकोट विधानसभा में शामिल किया जावे।

अतः कृपया जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र की जनसंख्या एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत को ध्यान में रखकर जगदलपुर विधानसभा को आरक्षित (अनुसूचित जनजाति) सीट किया जावे।

ह0/-
(बलीराम कश्यप)

[फा. सं. 282/छत्तीसगढ़/2005-खण्ड-III]

आदेश से,
शंगारा राम, सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2005

O.N. 62(E).—In pursuance of sub-section (2) of Section 9 of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002), the Delimitation Commission hereby publishes its proposals for the delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies in the State of Chhattisgarh, together with the dissenting proposals of the Associate Members, and specifies 29th December, 2005 (Thursday) as the date on or after which the proposals will be further considered by it.

2. Any objections or suggestions in regard to these proposals should reach the Secretary, Delimitation Commission, Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001 on or before the said date.

PROPOSALS

- (i) The territorial constituencies into which the State of Chhattisgarh shall be divided for the purpose of elections to (a) the Legislative Assembly of the State, and (b) the House of the People, the extent of each such constituency and the constituencies in which the seats are reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be as shown in the **Table-A and Table-B** respectively;
- (ii) Whereas the name of a constituency as shown in Table A or Table B is distinguished by the brackets and letters **(SC)**, the seat in that constituency is reserved for the Scheduled Castes; and
- (iii) Where the name of a constituency as shown in Table-A or Table-B is distinguished by the brackets and letters **(ST)**, the seat in that constituency is reserved for the Scheduled Tribes.

TABLE – A
ASSEMBLY CONSTITUENCIES AND THEIR PROPOSED EXTENT

S. No. & Name of Assembly Constituency	Extent
1. KORIA	
1. Bharatpur-Sonhat (ST)	I. Bharatpur Tehsil, II. Sonhat Tehsil, III. Manendragarh Tehsil (Part) (i) Manendragarh R.I.Circle (Part) - 1-Ghaghara PC, 2-Kelhari PC, 3-Dugla PC, 4-Kachhoud PC, 5-Biharpur PC, 6-Pendri PC, 7-Barbaspur PC, 8-Nagpur PC, 9-Belbahara PC, 10-Lalpur PC & 11-Manendragarh PC
2. Manendragarh	I. Manendragarh Tehsil (Part) - (i) Khadgawan R.I.Circle (Part) – 13-Koda PC, 14-Davadand PC, 15-Katkona PC, 16-Udhanapur PC, 17-Chirimiri PC, 18-Bardar PC, 19-Ratanpur PC & 20-Khadgawan PC. (ii) Manendragarh R.I.Circle (Part) – 12-Paradole PC, Manendragarh (M), Chirimiri (M+OG) (Part), Jhagrakhand (NP) (iii) Baikunthpur Tehsil (Part) Chirimiri Nagar Palika Nigam

3. Baikunthpur	I. Manendragarh Tehsil (Part) - (i) Khadgawan R.I.Circle (Part) - 21-Banjaridand PC, 22-Chirmi PC, 23-Bade Salhi PC, 24-Pondi PC, 25-Jilda PC, 26-Bari PC, 27-Baima PC and II Baikunthpur Tehsil (Including Baikunthpur NP, Chharchha CT)
2. SURGUJA	
4. Premnagar	I. Surajpur Tehsil (Part) - (i) Ramanujnagar R.I.Circle, (ii) Premnagar R.I.Circle, (iii) Surajpur R.I.Circle (Including Vishrampur CT), Surajpur (Nagar Panchyat), (iv) Pilkha R.I.Circle (Part) 41-Kailashpur PC, 42-Pendarkhi PC, 43-Saika PC & 44-Kuruwa PC
5. Bhatgaon	I. Surajpur Tehsil (Part) - (i) Bhaiyathan R.I.Circle, (ii) Bhatgaon R.I.Circle (Including Telgaon CT), (iii) Pilkha R.I.Circle (Part) 32-Karwa PC, 33-Kalyanpur PC, 34-Majira PC, 35-Latori PC, 36-Ajabnagar PC, 37-Kamalpur PC, 38-Silphili PC, 39-Karampur PC & 40-Shivnandanpur PC
6. Pratappur (ST)	I. Wadrafnagar Tehsil and II Pratappur Tehsil
7. Ramanujanj (ST)	I Pal Tehsil (Including Ramanujanj NP)
8. Samri (ST)	I Samari Tehsil and II. Rajpur Tehsil
9. Lundra (ST)	I. Lundra Tehsil, II. Ambikapur Tehsil (Part) - (i) Ambikapur -2 R.I.Circle, (ii) Ambikapur -1 R.I.Circle (Part) - 6-Namna Kalan PC, 13-Bardhodhi PC, 14-Chhind Kalo PC, 15-Karji PC, 16-Kanthi PC, 17-Sohga PC, 18-Kareya PC & 19-Lawaidih PC, (iii) Lakhanpur R.I.C.(Part) 23-Pratappur PC, 24-Argoti PC, 25-Lipingi PC, 26-Katinda PC, 27-Kuwarpur PC, 29-Beldagi PC, 31-Amalbithi PC & 32-Salka PC
10. Ambikapur	I. Ambikapur Tehsil (Part) - (i) Ambikapur -1 R.I.Circle (Part) - 5-Ambikapur PC, 7-Jagdishpur PC, 8-Keshopur PC, 9-Labji PC, 10-Sukhari PC, 11-Mendra Kalan PC & 12-Bhitthi Kalan PC, Ambikapur (M), (ii) Udaipur R.I.Circle, (iii) Lakhanpur R.I.Circle(Part) - 28-Lakhanpur PC, 30-Keori PC, 33-Lahpatra PC, 34-Korja PC, 35-Andhla PC, 36-Latori PC, 37-Katkona PC & 38-Khutiya PC
11. Sitapur (ST)	I. Sitapur Tehsil, II. Ambikapur Tehsil (Part) - (i) Ambikapur -1 R.I.Circle (Part) - 20-Pondikala PC, 21-Nawanagar PC & 22-Bargawan PC
3. JASHPUR	
12. Jashpur (ST)	I. Jashpur Tehsil (Including Jashpurnagar NP), II. Bagicha Tehsil (Part) - (i) Sanna R.I.Circle, (ii) Bagicha R.I.Circle (Part) - 17-Sahidand PC, 18-Rengale PC, 19-Bagicha PC, 20-Maini PC, 21-Sardih PC, 22-Jurgum PC, 23-Jhinki PC, 24-Pasiya PC, 25-Pirai PC, 26-Bhitghra PC & 27-Sarbkambo PC

13. Kunkuri (ST)	I. Kunkuri Tehsil
14. Pathalgaon (ST)	I. Pathalgaon Tehsil (Including Pathalgaon NP), II Bagicha Tehsil (Part) - (i) Kansbel R.I.Circle, (ii) Bagicha R.I.Circle (Part) - 28-Marol PC, 29-Kurrog PC, 30-Mahuwadih PC & 31 Ghoghar PC
4. RAIGARH	
15. Lailunga (ST)	I. Lailunga Tehsil, II. Gharghoda Tehsil (Part) - (i) Tamnar R.I.Circle and II. Raigarh Tehsil (Part) (i) Raigarh (1) R.I.Circle (Part) (Excluding Raigarh M)
16. Raigarh	I. Raigarh Tehsil (Part) - (i) Raigarh (2) R.I.Circle, (ii) Raigarh (1) R.I.Circle (Part), Raigarh M+OG, (iii) Pussore R.I.Circle (Part) - 22-Dumarmuda PC, 23-Garh Umariya PC, 24-Kondatarai PC, 30-Aurda PC, 31-Nawapara PC, 32-Netnagar PC, 33-Chhapora PC, 34-Mahalo PC, 35-Pusaur PC, 36-Tadola PC, 37-Kotasura PC, 41-Chhichhor Umariya PC, 42-Padigaon PC & 43-Kodpali PC, II. Sarangarh Tehsil (Part) - (i) Saria R.I.Circle (Part) - 29-Chhuwaripali PC, 30-Bonda PC, 31-Nadigaon PC, 32-Lukapara PC, 33-Sankara PC, 34-Sariya PC, 35-Panchdhar PC, 36-Jalqarh PC & 37-Bar PC
17. Sarangarh (SC)	I. Sarangarh Tehsil (Part) (Including Sarangarh NP) (i) Hardi R.I.Circle, (ii) Sarangarh R.I.Circle, (iii) Baramkela R.I.Circle, (iv) Saria R.I.Circle (Part) - 38-Dabhara PC, 39-Sanda PC & 40-Ameri PC
18. Kharsia	I. Kharsia Tehsil (Including Kharsia NP), II. Raigarh Tehsil (Part) - (i) Kirodimalnagar R.I.Circle, (ii) Pussore R.I.Circle (Part) - 25-Kawrihiha PC, 26-Gorra PC, 27-Nawapara (TH) PC, 28-Jatari PC, 29-Tetala PC, 38-Tilagi PC, 39-Bade Bhandar PC & 40-Bunga PC
19. Dharamjaigarh (ST)	I. Udaipur (Dharamjaigarh) Tehsil and II. Gharghoda Tehsil (Part) - (i) Gharghoda R.I.Circle (Including Gharghoda NP)
5. KORBA	
20. Rampur (ST)	I. Kartala Tehsil and II. Korba Tehsil (Part) - (i) Korba R.I.Circle, (ii) Bhaisma R.I.Circle (Including Rajgamar CT)
21. Korba	I. Korba Tehsil (Part) - (i) Korba (M Corp.) (Part) - Korba (M Corp.) - Ward No.1 to 32 and II. Katghora Tehsil (Part) - (i) Korba (M Corp.) - (Part) Korba (M Corp.) - Ward No.33 to 44
22. Katghora	I. Pali Tehsil (Part) - (i) Haradibazar R.I.Circle, II. Katghora Tehsil (Part) - (i) Haradibazar R.I.Circle, Dipka (CT), (ii) Katghora R.I.Circle, Korba (M Corp.) (Part) - Korba (M Corp.) - Ward No.45 to 51 and Katghora NP
23. Pali-Tanakhar (ST)	I. Katghora Tehsil (Part) - (i) Passan R.I.Circle, (ii) Podi-Uprora R.I.Circle and II. Pali Tehsil (Part) - (i) Pali R.I.Circle

6. BILASPUR

24. Marwahi (ST)	I. Marwahi Tehsil (New), II. Pendraroad Tehsil (Part) – (i) Pendra R.I.Circle, Pendra (NP), (ii) Gaurella R.I.Circle (Part) - 19-Meduka PC, 20-Korja PC, 21-Newsa PC, 22-Lalpur PC & 23-Gaurela PC and Gaurella (NP)
25. Kota (ST)	I. Kota Tehsil (Part) - Ratanpur NP & Kota NP (excluding Ratanpur RIC 16 Ranigaon PC & 19 Jothi PC) II. Pendraroad Tehsil (Part) – (i) Gaurella R.I.Circle (Part) - 24-Taraigoan PC, 25-Sarbahara PC, 34-Jogisar PC & 35-Basti PC
26. Lormi	I. Lormi Tehsil (Including Lormi NP)
27. Mungeli (SC)	I. Mungeli Tehsil (Part) – (i) Mungeli R.I.Circle (Including Mungeli M+OG) and (ii) Jarhagaon R.I.Circle
28. Takhatpur	I. Takhatpur Tehsil
29. Bilha	I. Bilha Tehsil (Including Bodri NP & Bilha NP), II. Mungeli Tehsil (Part) – (i) Patharia R.I.Circle, (III) Bilaspur Tehsil (Part) – (i) Bilaspur R.I.Circle (Part) - 23-Tifra PC, Bilaspur MC (Part)- Bilaspur (M Corp.)- Ward No.39, Bilaspur (M Corp.)-Ward No. 54 & Bilaspur (M Corp.)- Ward No. 55
30. Bilaspur	Bilaspur (M+OG) (Part) - Bilaspur (M Corp.)-Ward No.1 to 38 & Ward No. 44 to 53
31. Beltara	I. Kota Tehsil (Part) – (i) Ratanpur RIC (Part) - 16-Ranigaon PC & 19 Jothi PC, II. Bilaspur Tehsil (Part) – (i) Beltara R.I.Circle, (ii) Bilaspur R.I.Circle (Part) - 13-Bharari PC, 14-Pendrawa PC, 15-Lofandi PC, 16-Sendri PC, 17- Koni PC, 18-Baima PC, 19-Mopka PC, 20 Sarkanda PC, 21 Mangala PC & 22 Juna Bilaspur PC, Bilaspur (M+OG) (Part) - Bilaspur (M Corp.) - Ward No.40 to 43, Any Other Unit In Tehsil, Fadakhhar (Rural)
32. Masturi (SC)	I. Masturi Tehsil and II. Bilaspur Tehsil (Part) – (i) Bilaspur R.I.Circle (Part) – 24-Deorikhurdh PC

7. JANJGIR-CHAMPA

33. Akaltara	I. Janjgir Tehsil (Part) – (i) Baloda R.I.Circle (Part) - 20-Charpara PC, 21-Baloda PC, 22-Korbi PC, 23-Khisora PC, 24-Budgahan PC, 25-Pantora PC, 26-Purena PC, 27-Khaija PC, 28-Rasota PC, 29-Jawalpur PC, 30-Jarwe PC, 31-Karmanda PC & 32 Pahariya PC, Baloda (NP), (ii) Akaltara R.I.Circle - 1-Changori PC, 2-Madhuwa PC, 3-Pondidalha PC, 4-Kotmi Sonar PC, 5-Karumahu PC, 6-Pakariya PC,
--------------	--

	7-Akaltara Municipal PC, 8-Taraod PC, 9-Nariyara PC, 10-Pakariya PC, 11-Kirari PC, 12-Taga PC, 13-Tilai PC, 14-Kapan PC, 15-Bargawan PC, 16-Kotgarh PC, 17-Katnai PC, 18-Hardi PC & 19-Bhaisatara PC and Akaltara (NP)
34. Janjgir-Champa	I. Nawagarh Tehsil (Part) – (i) Nawagarh R.I.Circle (Including Nawagarh NP), II. Janjgir Tehsil (Part) – (i) Janjgir R.I.Circle, Naila Janjgir (M), Champa (M), (ii) Baloda R.I.Circle (Part) - 33-Lachhanpur PC, 34-Birgahani PC & 35-Pisaud PC
35. Shakti	I. Shakti Tehsil (Including Shakti NP) and II. Champa Tehsil (Part) – (i) Champa R.I.Circle
36. Malkhroda	I. Dabhara Tehsil, II. Malkhroda Tehsil (Part) – (i) Malkhroda R.I.Circle (Part) – 1-Mohandi Kala PC, 2-Sonadula PC, 3-Amandula PC, 5-Malkharoda PC, 6-Pota PC, 7-Sakarra PC, 8-Adhbhar PC, 9-Faguram PC, 10-Bodasagar PC, 11-Singhra PC & 12 Nagjhar PC and Adbhar Nagar Panchat,
37. Chandrapur	I. Jaijaipur Tehsil, II. Champa Tehsil (Part) – (i) Bamhnidih R.I.Circle, II. Malkhroda Tehsil (Part) – (i) Malkhroda R.I.Circle (Part) - 4-Bade Sipat PC, 13-Chhapora PC, 14-Amlidih PC, 15-Bhedikona PC & 16-Ghoghari PC
38. Pamgarh (SC)	I. Pamgarh Tehsil, II. Nawagarh Tehsil (Part) – (i) Shivrinarayan R.I.Circle and Shivrinarayan (NP)

8. MAHASAMUND

39. Saraipali (SC)	I. Saraipali Tehsil (Including Saraipali (NP), II. Basna Tehsil (Part) – (i) Bhawarpur R.I.Circle (Part) - 1-Badesajapali PC, 2-Lohrindipa PC, 3-Salkhand PC, 4-Bichhiya PC, 5-Dularpali PC, 6-Umariya PC, 7-Bhanwarpur PC, 8-Jamdarha PC & 9-Chanat PC
40. Basna	I. Basna Tehsil (Part) (Including Basna CT) – (i) Basna R.I.Circle, Basna Nagar Panchayat, (ii) Bhawarpur R.I.Circle (Part) - 10-Bijara Bhata PC, 11-Chandarpuri PC, 12-Baradoli PC & 13-Ghanapali PC, II. Mahasamund Tehsil (Part), (i) Sankara R.I.Circle, (ii) Pithora R.I.Circle (Part) - 21-Arjuni PC, 22-Pithora PC, 29-Amodidih PC, 30-Rajasewaiya Khurd PC, 31-Bhokaludih PC & 32-Balididih PC and Pithora (NP)
41. Khallari	I. Mahasamund Tehsil (Part) – (i) Komakhan R.I.Circle, (ii) Khallari R.I.Circle, Bagbahara (NP), (iii) Pithora R.I. Circle (Part) – 18- Khusrupali PC, 19-Kasahibahara PC, 20-Gadbeda PC, 23-Thakurdiya Khurd PC, 24-Kotadadar PC, 25-Kodo Pali PC, 26-Kolda PC, 27-Churupali PC & 28-Bundeli PC

42. Mahasamund	I. Mahasamund Tehsil (Part) – (i) Patewa R.I.Circle, (ii) Mahasamund R.I.Circle and Mahasamund Nagar Palika
9. RAIPUR	
43. Bilaigarh (SC)	I. Bilaigarh Tehsil (Including Bilaigarh NP) and II. Kasdol Tehsil (Part) – (i) Gidhauri R.I.Circle
44. Kasdol	I. Palari Tehsil, II. Kasdol Tehsil (Part) – (i) Kasdol R.I.Circle, Kasdol NP(New) and II. Balodabazar Tehsil (Part) – (i) Lawan R.I.Circle (Including Lawan NP)
45. Bhatapara	I. Bhatapara Tehsil, II. Balodabazar Tehsil (Part) – (i) Balodabazar R.I.Circle and Balodabazar NP
46. Simga	I. Simga Tehsil (Including Simga NP) II. Tilda Tehsil (Part) – (i) Tilda R.I.Circle and Tilda Newra (M+OG)
47. Dharsiwa	I. Tilda Tehsil (Part) – (i) Kharora R.I.Circle, Kharora NP, II. Raipur Tehsil (Part) – (i) Dharsiwa-1 R.I.Circle, (ii) Dharsiwa-2 R.I.Circle, (ii) Raipur-1 R.I.Circle (Part) - 24-Shankar Nagar PC, 25-Tulsi PC & 26-Serikhedi PC
48. Raipur Rural	I. Raipur Tehsil (Part) – (i) Raipur-2 R.I.Circle, Nagar Palika Birgoan, (ii) Raipur-1 R.I.Circle (Part) - 32-Tatibandh PC, 35-Boria Khurd PC, 36-Sejbahar PC, 37-Boria Kalan PC, 38-Dumartarai PC & 39-Mana PC, Raipur (M Corp.) (Part), Tikrapara (Lalpur), Purena (OG) - Ward No.59, Fundahar (Fundhar), Amlidih, Amlidih (OG) - Ward No.60, Labhandih, Labhandih (OG) - Ward No.58, Teli Bandha (OG) - Ward No.57, Sardhoo (Sardhu), Daldal Seoni, Shankarnagar (OG) - Ward No.56, Mowa (CT) - Ward No.1, Bhanpuri (CT) - Ward No.1, Gondwara, Gogaon (CT) - Ward No.1, Khamtarai (OG) - Ward No.66 and Sondongari
49. Raipur City West	I. Raipur Tehsil (Part) - Raipur (M Corp.) (Part) - Raipur (M Corp.) - Ward No.1 to 11, Ward No.53 & Ward No.54, Tatibandha (OG) - Ward No.64, Raipura (OG) - Ward No.63, Sarona, Hirapur, Jarway (OG) - Ward No.65, Jarway Alias Hirapur, Chandanidih and Atari
50. Raipur City North	I. Raipur Tehsil (Part) - Raipur (M Corp.) (Part) - Raipur (M Corp.) - Ward No.12 to 33
51. Raipur City South	I. Raipur Tehsil (Part) - Raipur (M Corp.) (Part) - Raipur (M Corp.) - Ward No.34 to 52 & 55, Changorabhata (OG) - Ward No.61, Bhatagaon and Mathpuram
52. Arang (SC)	I. Arang Tehsil (Part) – (i) Mandir Hasaud R.I.Circle, (ii) Arang R.I.Circle (Part) - 23-Lakholi PC, 24-Rasni PC, 25-Khamtarai PC, 26-Farfau PC, 27-Bana PC, 28-Kosrangi PC, 29-Bhainsa PC, 30-Khorsai PC, 31-Bhandar PC, 32-Korasi PC, 33-Pirda PC, 34-Amodi PC, 35-Kurud PC, 36-Kusmund PC, 37-Tulsi PC, 38-Sankari PC, 39-Banarsi PC, 40-Deori PC, 41-Gullu PC, 42-Arang PC, 43-Paragaon PC & Arang NP

53. Abhanpur	I. Abhanpur Tehsil (Including Gobra Nawapara M), II. Arang Tehsil (Part) – (i) Arang R.I.Circle (Part) – 44-Nisda PC, 45-Bhilai PC, 46-Charauda PC, 47-Ban Charauda PC & 48-Gaurbath PC
54. Rajim	I. Rajim Tehsil (Including Rajim NP New), II. Bindranawagarh Tehsil (Part) – (i) Churra R.I.Circle, (ii) Gariyaband R.I.Circle (Part) - 20-Kochbay PC & 21-Malgaon PC
55. Bindranawagarh	I. Deobhog Tehsil, II. Bindranawagarh Tehsil (Part) – (i) Mainpur R.I.Circle, (ii) Gariyaband R.I.Circle (Part) - 17-Piparchhedikalan PC, 18-Fulkarra PC, 19-Parsuli PC, 22-Patharmohada PC, 23-Majarkata PC, 24-Paragaon PC, 25-Gariaband PC, 26-Nahargaon PC, 27-Parsuli Khurd PC, 28-Amadi PC, 29-Bindranawagarh PC & 30-Dhawalpurdih PC
10. DHAMTARI	
56. Sihawa (ST)	I. Nagri Tehsil, II. Kurud Tehsil (Part) – (i) Magarload R.I.Circle (Part) - 35-Sonewara PC, 36-Mohandi PC, 37-Beloura PC, 38-Magarlod PC, 39-Chhipali PC, 45-Khisora PC, 46-Bhothidih PC, 47-Amlidih PC, 48-Belardona PC, 49-Pathar PC, 50-Mohera PC & 51-Singpur PC
57. Kurud	I. Kurud Tehsil (Part) – (i) Kurud R.I.Circle, Kurud (NP), (ii) Magarload R.I.Circle (Part) - 40-Megha PC, 41-Kareli PC, 42-Chandna PC, 43-Bhendri PC & 44 Kundel PC
58. Dhamtari	I. Dhamtari Tehsil (Including Dhamtari M)
11. DURG	
59. Sanjari Balod	I. Gurur Tehsil and II. Sanjari Balod Tehsil (Part) – (i) Balod R.I.Circle (Including Balod NP)
60. Dondi Lohara (ST)	I. Sanjari Balod Tehsil (Part) - (i) Dalli Rajhara R.I.Circle - (Including Dalli-Rajhara M+OG) and II. Dondi Lohara Tehsil (Part) – (i) Dondi Lohara R.I.Circle, (ii) Khertha R.I.Circle (Part) - 9-Khertha PC, 10-Sanjari PC, 11-Achholi PC & 12-Garka PC
61. Gunderdehi	I. Gunderdehi Tehsil (Including Gunderdehi NP) and II. Dondi Lohara Tehsil (Part) – (i) Khertha R.I.Circle (Part) - 1-Pinkapar PC, 2-Chendriban Nawagaon PC, 3-Jewartala PC, 4-Ranitarai PC, 5-Nahanda PC, 6-Khamtarai PC, 7-Radho Nawagaon PC, 8-Dewari PC, 13-Mudhiya PC, 14-Suregaon PC, 15-Pasoud PC, 16-Faradfod PC, 17-Singapur PC, 18-Hadgahan PC, 19-Kashikala PC & 20-Bundeli PC

62. Patan	I. Patan Tehsil (Part) – (i) Patan R.I.Circle, (ii) Bhilai R.I.Circle, Patan NP and Kumhari NP
63. Durg-Rural	I. Durg Tehsil (Part) – (i) Anda R.I.Circle, (ii) Durg-II R.I.Circle, (iii) Durg-I R.I.Circle (Part) - 5-Anjora PC & 18-Pulgaon PC and Bhilai Nagar (M Corp.) (Part) - Bhilai Nagar (M Corp.) - Ward No.54, 55, 58 to 67
64. Durg City	I. Durg Tehsil (Part) - Durg (M Corp.)
65. Bhilai Nagar	I. Durg Tehsil (Part) - Bhilai Nagar (M Corp.) (Part) - Bhilai Nagar (M Corp.) - Ward No.17, 27 to 53, 56 & 57
66. Vaishali Nagar	I. Durg Tehsil (Part) - Bhilai Nagar (M Corp.) (Part) - Bhilai Nagar (M Corp.) - Ward No.1 to 16 & 18 to 26
67. Ahiwara (SC)	I. Dhamdha Tehsil (Part) – (i) Ahiwara R.I.Circle (Part) - 25-Kodiya PC, 26-Aheri PC, 28-Medesara PC, 29-Nandni khudani PC, 35-Semariya PC, 36-Khapri PC, 37-Pahra PC, 38-Godhi PC, 39-Oteband PC, 40-Kapasda PC, 41-Achhoti PC, 42-Nardha PC, 43-Kherdha PC, 44-Nandauri PC, 45-Limtara PC, Ahiwara (NP), Jamul (NP) (Part), Nagar Palika Bhilai Charoda, Bhilai Charoda (M) (Part), II. Durg Tehsil (Part) – (i) Durg-I R.I.Circle (Part) - 1-Anjora Dhaba PC, 7-Bhendsar PC, 8-Sirsa Khurd PC, 9-Karanja Bhilai PC, 10-Nankatthi PC, 11-Arasnare PC & 12-Dhaur PC, Jamul (NP) (Part) and III. Patan Tehsil (Part) - Bhilai Charoda (M) (Part) - Bhilai Charoda (M)- Ward No.4, 6 to 28
68. Saja	I. Saja Tehsil (Including Saja NP), II. Dhamdha Tehsil (Part) – (i) Dhamdha R.I.Circle and Dhamdha (NP)
69. Bemetara	I. Berla Tehsil (Including Berla NP), II. Bemetara Tehsil (Part) – (i) Bemetara R.I.Circle (Part) - 24-Bahera PC, 25-Pikri PC, 26-Singhori PC, 27-Ninwan PC, 28-Khilora PC, 30-Babamohtara PC, 31-Kobiya PC, 32-Bijabhat PC, 33-Patharra PC, 34-Kusmi PC & 35-Jewara PC, Bemetra (NP) and III. Dhamdha Tehsil (Part) – (i) Ahiwara R.I.Circle (Part) - 30-Biroda PC, 31-Dargaon PC, 32-Thengabhat PC, 33-Moharenga PC & 34-Pendritari PC
70. Nawagarh (SC)	I. Nawagarh Tehsil and II. Bemetara Tehsil (Part) – (i) Khandsara R.I.Circle (ii) Bemetara R.I.Circle (Part) - 20-Bhansuli PC, 21-Balsamund PC, 22-Dhara PC, 23-Bilai PC, 36-Arjuni PC, 37-Moharenga PC, 38-Pousari PC, 39-Jhiriya PC & 40-Mau PC

12. KABIRDHAM

71. Pandariya	I. Pandariya Tehsil (Including Pandariya NP), II. Kawardha Tehsil (Part) – (i) Dasrampur R.I.Circle and (ii) Virendra Nagar R.I.Circle
72. Kawardha	I. Kawardha Tehsil (Part) – (i) Kawardha -1 R.I.Circle (ii) Kawardha -2 R.I.Circle, (iii) Bodala R.I.Circle, (iv) Rengakhar R.I.Circle, (v) S-Lohara R.I.Circle and Kawardha (M+OG)

13. RAJNANDGAON

73. Khairagarh	I. Khairagarh Tehsil (Part) – (i) Khairagarh R.I.Circle, Khairagarh (NP) and II. Chhuikhadan Tehsil (Including Chhuikhadan NP & Gandai NP)
74. Dongargarh (SC)	I. Rajnandgaon Tehsil (Part) – (i) Ghumka R.I.Circle, (ii) Rajnandgaon -I R.I.Circle (Part) - 19-Tilai PC & 20-Renga Kathera PC, II. Dongargarh Tehsil (Part) – (i) Dongargarh R.I.Circle (Part) - 1-Deokatta PC, 2-Dhara PC, 3-Belgaon PC, 4-Bijnapur PC, 5-Jarwahi PC, 10-Dodki PC, 14-Nagtarai PC & 15-Dongargarh (Mcoun) PC, Dongargarh (M), and III. Khairagarh Tehsil (Part) – (i) Pandadah R.I.Circle
75. Rajnandgaon	I. Rajnandgaon Tehsil (Part) – (i) Rajnandgaon -2 R.I.Circle, Nagar Nigam Rajnandgaon, (ii) Rajnandgaon -I R.I.Circle (Part) - 21-Dhaba (M Corp.) PC, 22-Gadhula PC, 28-Tendesara PC, 29-Sankra PC, 30-Somni PC, 31-Aria PC, 32-Surgi PC, 33-Mohad (M Corp.) PC, 34-Kanharपुरी (M Corp.) PC, 35/1-Chikhali (M Corp.), 36-Kaurinbhattha PC, 3-Dhangaon PC, 4-Pendri (M Corp.) PC, 25-Singhola PC & 26-Dhamansara PC
76. Dongargaon	I. Dongargaon Tehsil (Including Dongargaon NP), II. Dongargarh Tehsil (Part) – (i) Lal Bahadur Nagar R.I.Circle, (ii) Dongargarh R.I.Circle (Part) - 6-Vishnupur PC, 7-Bilhari PC, 8-Nawagaon Aniya PC, 9-Saltikri PC, 11-Musara Kalan PC, 12-Renga Kathera PC & 13 Musra Khurd PC
77. Khujji	I. Ambagarh Tehsil (Part) – (i) Ambagarh R.I.Circle (Part) - 1-Pendalkuhi PC, 3-Chilhati PC, 4-Rengakathera PC, 5-Khora Tola PC, 6 Hodi Tola PC, 7-Khursipar PC, 8-Joratarai PC, 9-Gundardehi PC, 10-Atra PC, 11-Hitaguda PC, 12-Ambagarh Chouki (NP) & 20-Bhadsena PC, Ambagarh Chowki (NP), II. Rajnandgaon Tehsil (Part) – (i) Chhuria R.I.Circle and (ii) Khujji R.I.Circle

8. Mohla-Manpur (ST)	I. Manpur Tehsil, II. Mohla Tehsil and III. Ambagarh Tehsil (Part) – (i) Ambagarh R.I.Circle (Part) - 2-Mirche PC, 13-Atargaon PC, 14-Bagnara PC, 15-Adejhar PC, 16-Hitkasa PC, 17-Araj Kund PC, 18-Kaudikasa PC, 19-Pandri Tarai PC, 21-Mongra PC, 22-Kuturghoda PC & 23-Mudpar PC
----------------------	---

14. UTTAR BASTAR KANKER

79. Antagarh (ST)	I. Antagarh Tehsil and II. Pakhanjur Tehsil
80. Bhanupratappur (ST)	I. Charama Tehsil and II. Bhanupratappur Tehsil
81. Kanker (ST)	I. Kanker Tehsil (Including M+OG) and II. Narharpur Tehsil

15. BASTAR

82. Keshkal (ST)	I. Keshkal Tehsil and II Kondagaon Tehsil (Part) – (i) Pharasgaon R.I.Circle
83. Kondagaon (ST)	I. Kondagaon Tehsil (Part) – (i) Kondagaon R.I.Circle - (Including Kondagaon M) and (ii) Makadi R.I.Circle
84. Bhanpuri (ST)	I. Narayanpur Tehsil, II. Kondagaon Tehsil (Part) - (i) Mardapal R.I.Circle and III. Jagdalpur Tehsil (Part) - (i) Bhanpuri R.I.Circle
85. Bastar (ST)	I. Jagdalpur Tehsil (Part) – (i) Bastar R.I.Circle, (ii) Karpawand R.I.Circle, (iii) Bakawand R.I.Circle and (iv) Jagdalpur R.I.Circle (B)
86. Jagdalpur	I. Jagdalpur Tehsil (Part) – (i) Jagdalpur R.I.Circle (A), Jagdalpur (M+OG), (ii) Darbha R.I.Circle (Part) – 75-Chingpal PC, 76-Darbha PC, 78-Tahakwada PC, 79-Kukanar PC & 80-Kokawada PC
87. Chitrakot (ST)	I. Jagdalpur Tehsil (Part) – (i) Keshloor R.I.Circle, (ii) Bastanar R.I.Circle (iii) Chitrakot R.I.Circle, (iv) Darbha R.I.Circle (Part) - 68-Dilmili PC, 69-Kelaur PC, 70-Pakhnar PC, 71-Katenar PC, 72-Chitapur PC & 77-Chhindawara PC and Kukanar Nagar Panchayat

16. DAKSHIN BASTAR DANTEWADA

88. Dantewada (ST)	I. Dantewada Tehsil (Including- Geedam CT, Dantewada NP, Bade Bacheli NP, Kirandul M)
89. Bijapur (ST)	I. Bhopalpattanam Tehsil and II. Bijapur Tehsil
90. Konta (ST)	I. Konta Tehsil

TABLE - B
PARLIAMENTARY CONSTITUENCIES AND THEIR PROPOSED EXTENT

No. & Name of Parliamentary Constituency	Extent in terms of new assembly constituency
1. Sarguja (ST)	1. Bharatpur-Sonhat (ST), 2. Manendragarh, 3. Baikunthpur, 4. Premnagar, 5. Bhatgaon, 6. Pratappur (ST), 7. Ramanujganj (ST) and 10. Ambikapur
2. Jashpur (ST)	8. Samri (ST), 9. Lundra (ST), 11. Sitapur (ST), 12. Jashpur (ST), 13. Kunkuri (ST), 14. Pathalgaon (ST), 15. Lailunga (ST) and 19. Dharamjaigarh (ST)
3 Raigarh (SC)	16. Raigarh, 17. Sarangarh (SC), 18. Kharsia, 36. Malkhroda, 37. Chandrapur, 39. Saraipali (SC), 40. Basna and 43. Bilaigarh (SC)
4. Janjgir-Korba	20. Rampur (ST), 21. Korba, 22. Katghora, 23. Pali-Tanakhar (ST), 33. Akaltara, 34. Janjgir-Champa, 35. Shakti and 38. Pamgarh (SC)
5. Bilaspur	24. Marwahi (ST), 25. Kota (ST), 26. Lormi, 27. Mungeli (SC), 28. Takhatpur, 29. Bilha, 30. Bilaspur, 31. Beltara and 32. Masturi (SC)
6. Mahasamund	41. Khallari, 42. Mahasamund, 44. Kasdol, 45. Bhatapara, 46. Simga, 52. Arang (SC), 54. Rajim and 55. Bindranawagarh
7. Raipur	47. Dharsiwa, 48. Raipur Rural, 49. Raipur City West, 50. Raipur City North, 51. Raipur City South, 53. Abhanpur, 57. Kurud and 62. Patan
8. Durg	63. Durg-Rural, 64. Durg City, 65. Bhilai Nagar, 66. Vaishali Nagar, 67. Ahiwara (SC), 68. Saja, 69. Bemetara and 70. Nawagarh (SC)
9. Rajnandgaon	71. Pandariya, 72. Kawardha, 73. Khairagarh, 74. Dongargarh (SC), 75. Rajnandgaon, 76. Dongargaon, 77. Khujji and 78. Mohla-Manpur (ST)
10. Bastar (ST)	83. Kondagaon (ST), 84. Bhanpuri (ST), 85. Bastar (ST), 86. Jagdalpur, 87. Chitrakot (ST), 88. Dantewada (ST), 89. Bijapur (ST) and 90. Konta (ST)
11. Kanker	56. Sihawa (ST), 58. Dhamtari, 59. Sanjari Balod, 60. Dondi Lohara (ST), 61. Gunderdehi, 79. Antagarh (ST), 80. Bhanupratappur (ST), 81. Kanker (ST) and 82. Keshkal (ST)

DISSENTING PROPOSALS RECEIVED FROM ASSOCIATE MEMBERS

BHUPESH BAGHEL
MLA
PATAN ASSEMBLY CONSTITUENCY
DISTRICT DURG-78

D. O. Letter No. _____

Dated : 13/11/2005

Res: Mansarovar Residential Complex
 Padum Nagar, Bhilai-3, District Durg
 Tel – 07826 – 256333

To,

The Hon'ble Chairman & Member,
 Delimitation Commission
 Nirvachan Sadan, New Delhi.

Ref:- Letter of Commission's Under Secretary bearing no. 282/CGH/2005-Vol.II/dated 29th Oct. 2005.

Sub:- Dissenting Proposals with regard to Assembly Constituencies (AC's) u/s 9(2) of the Delimitation Act 2002.

Res. Sirs,

I have received the delimitation proposals formulated by the Commission with regard to PC's as well as AC's. I am giving my comments and dissenting proposals separately for PC's and AC's.

Following are the proposals with regard to Assembly Constituencies (AC's).

DURG DISTRICT

S N	No. of Assembly	Assembly Constituency	Name of Tehsil/RIC/PC/MC	Total Pop.	SC Pop.	ST Pop.
59	59	Sanjari Balod	Gurur Tehsil (Part) PC No. 5 to 19 Balod Nagar Panchayat + Balod RIC	103761 114023 217784	6660 7478 14138 6.49%	21813 30187 54900 25.20%
60	60	Dondi Lohara (ST)	Sanjari Baloda Tehsil (Part) Dalli Rajhara RIC+ (Dalli Rajhara M+OG) Dondi Lohara RIC	155219 78301 233520	12934 4574 17508 7.49%	77788 44657 122445 52.43%

61	61	Gunder Dehi	Kheratha RIC Gurur Tehsil (Part) PC 1 to 4 Gundardehi RIC Arjunda RIC Part PC 17 to 22	88707 27171 93650 22578 232106	5433 1335 11423 1541 19732 8.50%	32514 1774 10410 5128 49826 21.46%
62	62	Patan	Patan RIC Bhilai-3 RIC Patan Nagar Panchayat Kumhari Nagar Panchayat (Part) Kumhari Nagar Panchayat (Part) Bhilai Charoda Nagar Palika (Part) Ward No. 9 to 12	87972 99934 8812 7843 21913 10956 237430	12014 14989 795 1495 3102 1717 34112 14.36%	7871 10176 818 570 1552 1262 22249 9.37%
63	63	Anda (Durg be Rural should renamed as Anda)	Anda RIC Durg -II RIC Arjunda RIC-Part PC 1 to 16 Bhilai Nagar Nigam Part Ward No. 62 to 67	100760 24616 66030 51395 242801	14975 1935 10032 9241 36183 14.90%	6221 2211 7214 3894 19540 8.04%
64	64	Durg City	Durg Nagar Nigam Durg RIC-1 Part Anjora PC Pulgaon PC	232517 7313 4229 244059	24862 229 613 25704 10.53%	9679 480 312 10471 4.29%
65	65	Bhilai Nagar	Ward No. 27 to 61 of Bhilai Municipal Corporation	252336	31230 12.37%	16255 6.44%
66	66	Vaishali Nagar	Ward No. 1 to 26 of Bhilai Municipal Corporation	252635	35066 13.88%	8831 3.49%
67	67	Ahiwara (SC)	Bhilai Charoda Nagar Palika (Part) (Excluding Ward No. 9 to 12) Jamul Nagar Palika (Complete) Ahiwara Nagar Panchayat Ahiwara RIC Part (Excluding PC No. 30,31,32,33,34) (Excluding Anjora PC, Pulgaon PC)	76629 21640 18719 70084 47739	11413 1514 3036 18314 5669	3790 889 1262 4172 3087

				234811	39946	13200
					17.01%	5.62%
68	68	Saja	As Proposed by the Delimitation Commission	232518	23136	14243
					9.95%	6.13%
69	69	Bemetara	As Proposed by the Delimitation Commission	216473	32418	7360
					14.98%	3.40%
70	70	Nawagarh (SC)	As Proposed by the Delimitation Commission	213963	50337	10381
					23.53%	4.85%

Changes (dissenting proposals) with regard to name.

1. That AC no. 63 Durg-Rural should be renamed as Anda because out of its total population, major portion belongs to And R.I. circle.
2. That AC no. 84 Bhanpuri (ST) should be renamed as Narayanpur (ST) as Narayanpur a headquarter of Police district is and already announced district headquarter whereas Bhanpuri is not even a Tehsil headquarter.
3. That AC no. 79 Antagarh (ST) should be renamed as Antagarh-Pakhanjur (ST) as both are Tehsil headquarter.
4. AC no. 4 Premnagar should be renamed as Premnagar-Surajpur because Surajpur is Tehsil headquarter and major center whereas Premnagar is already existed assembly.

PRAYER

That the aforesaid proposals may be allowed.

OR

That, please publish my aforesaid proposals alongwith the Commission's proposal.

With Regards

Yours Truly
Sd/-
(Bhupesh Baghel)
Associate Member to the Commission

BHUPESH BAGHEL
MLA
PATAN ASSEMBLY CONSTITUENCY
DISTRICT DURG-78

D. O. Letter No. _____
Dated : 13/11/2005
Resi: Mansarovar Residential Complex
Padum Nagar, Bhilai-3, District Durg
Tel – 07826 – 256333

To,
The Hon'ble Chairman & Member,
Delimitation Commission
Nirvachan Sadan, New Delhi.

Ref:- Letter of Commission's Under Secretary bearing no. 282/CGH/2005-Vol.II/dated 29th Oct. 2005.

Sub:- Dissenting Proposals with regard to Assembly Constituencies (AC's) u/s 9(2) of the Delimitation Act 2002.

Res. Sirs,

I have received the delimitation proposals formulated by the Commission with regard to PC' as well as AC's. I am giving my comments and dissenting proposals separately for PC' and AC's. That in my opinion, the proposals with regard to seven PC' namely Sarguja (ST), Jashpur (ST), Janjgir-Korba, Bilaspur, Rajnandgaon, Durg & Bastar are acceptable and remaining four PC's namely Kanker, Raipur, Mahasamund and Raigarh (SC) requires some changes. That I am giving my dissenting proposals and justification with regard to aforesaid four PC's. That I have done this in such a manner that the reservation status as proposed by the Commission remains unchanged, thus making it amply clear that my suggestions/dissenting proposals are actually supported by the parameters of the Commission itself.

That, in view of the guidelines framed by the Commission in which parameters like administrative unit, accessibility, geographical compactness and uniform distribution of the population are the major criteria, the proposal of delimiting PC's has some discrepancies which I would like to highlight alongwith my dissenting proposals.

1. That since Chhattisgarh has 16 administrative district of which some are very small and some are very big and with the fact that every PC should have 8 AC's, hence it is possible that no PC should extend to more than 3 district. Whereas in the Commission's proposal, Raigarh PC and Kanker PC has been proposed out of 4 districts. This will make the

process of election, counting and declaration much difficult. So keeping the above fact in mind my proposal limit every PC to three district of less.

2. That the Commission itself mandated, that only up to 10% deviation is allowed with regard to average population of any PC. In the Commission's proposal, Kanker PC has population of 21,18,294 i.e. 11.84% more then the average 18,93,982. This has happened because of inclusion of 9th AC in Kanker PC. It is easy to recall that in the deliberation with the Commission, I along with other associate members have requested that 9th AC should be included in those two PC's which has densier population so that the Geographical Sprawl may not be on higher side. Kanker PC is also thinly populated area, hence it is wiser to limit it to 8 AC only and 9th AC should be included in Raipur PC. My enclosed proposal has done it in accordance of every parameter.

3. That is was also discussed that as far as possible if any district has more then 8 AC then its PC should not extend to more district. In the proposal of Commission, Raipur PC has been proposed out of 3 district where as it could be limited to less, very easily.

4. That the Mahasamund PC in the Commission proposal has been proposed in such a way that it is spread to around 300 KM, which is unnecessary. Moreover two AC's of Mahasamund district has been included in Raigarh PC, making it a PC spread into 4 districts. Though it looks compact in the appearance in the map, however one major geographical feature has not been considered. Barnawapara forest sanctuary and hills forms the natural boundry on the northern side of Mahasamund district. The entire area of Mahasamund district is connected towards Mahasamund by N.H.-6 rather with Raigarh area. Hence it is appropriate to keep all the AC's of Mahasamund district into Mahasamund PC. It will also limit Raigarh PC to 3 disctrict and more accessible.

5. Following are the proposals :- u/s 9(2) of the Act

Unchanged PC's :- 1. Sarguja (ST), 2.Jashpur (ST), 4. Janjgir-Korba, 5. Bilaspur, 8. Durg, 9. Rajnandgaon, 10. Bastar (ST) – as proposed by the Commission.

PC's with change :- 3. Raigarh (SC), 6. Mahasamund, 7. Raipur, 11-Kanker should be delimited in following manner.

Dissenting Proposal for PC

No. & Name of the Parliamentary Constituency	Reserva- tion Status	Name of the AC's	Districts	Total Popu.	SC's Popu.	ST's Popu.
3. Raigarh	SC	16. Raigarh	Raigarh	273200	43019	44470
		17. Sarangarh (SC)	Raigarh	276121	69616	46996
		18. Kharsiya	Raigarh	235728	29230	65937
		36. Malkharoda	Janjgir-Champa	218689	48196	39467
		37. Chandrapur	Janjgir-Champa	215087	53554	20159
		43. Bilaigarh (SC)	Raipur	255053	62518	37834
		44. Kasdol	Raipur	256163	54389	26820
		45. Bhatapara	Raipur	223005	37153	34919
TOTAL			(Deviation 3.11%)	1953046	397675 20.36%	316602 16.21%
6. Mahasamund	Gen.	39. Saraipali (SC)	Mahasamund	216305	32251	58274
		40. Basna	Mahasamund	222803	20791	64119
		41. Khallari	Mahasamund	204808	20845	67186
		42. Mahasamund	Mahasamund	216341	30504	42906
		54. Rajim	Raipur	255192	24671	71168
		55. Bindranawagarh	Raipur	254470	23866	115874
		56. Sihawa	Dhamtari	228263	9512	121686
		58. Dhamtari	Dhamtari	249780	18823	43083
TOTAL			(Deviation -2.42%)	1847962	181263 9.81%	584296 31.62%
7. Raipur	Gen.	46. Simga	Raipur	237349	40608	14447
		47. Dharsiwā	Raipur	222066	39321	7049
		48. Raipur-Rural	Raipur	208463	32847	9942
		49. Raipur West	Raipur	212263	25997	10159
		50. Raipur North	Raipur	215600	30843	9107
		51. Raipur South	Raipur	232901	22657	8648
		52. Arang (SC)	Raipur	217379	54147	6861
		53. Abhanpur	Raipur	227126	38706	12445
		57. Kurud	Dhamtari	228548	21059	20746
TOTAL			(Deviation 5.68%)	2001595	296185 14.80%	99404 4.97%

11. Kanker	Gen.	59. Sanjari-Balod	Durg	244955	15473	55774
		60-Dodi-Lohara (ST)	Durg	253245	18509	131387
		61. Gunderdehi	Durg	251240	27428	46324
		62. Patan	Durg	226474	32395	20987
		79. Antagarh (ST)	Kankar	207996	5568	100671
		80. Bhanupratappur (ST)	Kanker	234175	13027	141618
		81. Kanker (ST)	Kanker	208763	9068	122742
		82. Keshkal (ST)	Bastar	239877	8577	174078
TOTAL			(Deviation -1.44%)	1866725	130045	793581
					6.97%	42.51%

Note:-

The figures of 59. Sanjari-Balod, 60. Dodi Lohara (ST), 61. Gunderdehi & 62. Patan may be substituted from my Dissenting Proposal of Delimitation of AC's within Durg district, which I have also submitted to the Commission. However it is pertinent to note that such substitution does not alter the structure or the reservation status of the proposed Kanker PC.

PRAYER

That the aforesaid proposals may be allowed.

OR

That, please publish my aforesaid proposals alongwith the Commission's proposal.

With Regards

Yours Truly
Sd/-

(Bhupesh Baghel)

Associate Member to the Commission

II

Ph. No. 2283624

2331055

2331064

MAHENDRA KARMA
 NETA PRATIPAKSH,
 CHHATTISGARH VIDHAN SABHA
 492001

House : 'Bastar Kutir', B-5/10
 Sharda Road, Civil Lines,
 Raipur (Chhattisgarh)

Letter No. 1814/NPVS/200

Dated . 12/11/2005

To,

The Hon'ble Chairman & Members
 Delimitation Commission,
 Nirvachan Sadan, New Delhi

Ref. :- Letter of Commission's Under Secretary bearing no. 282/CGH/2005-Vol.II/dated 29th Oct. 2005.

Sub :- Dissenting Proposal u/s 9(2) of the Delimitation Act 2002.

Res. Sirs,

Alongwith the aforesaid letter, I've received the draft proposal made by the Commission for the delimitation of the Assembly Constituencies (AC's) and Parliamentary Constituencies (PC's). Under the provisions of the act I am herewith sending my dissenting proposals for AC's in Annexure-A and for PC's in Annexure-B.

I am requesting you to allow my dissenting proposals. In case the Commission decides otherwise, I am requesting you to publish my dissenting proposals alongwith the Commission's proposal. In case if proposals pertaining to any particular district is allowed in part then I also request you to publish the remaining part. Sir, my proposals are in English and Chhattisgarh is mostly a hindi speaking state, so I also request you to publish each and every proposal in Hindi language also.

Thanking You

Yours truly,
 Sd/-

(Mahendra Karma)

Associate Member to the Commission

Encl : As above
 Annex 'A' Page 31+4
 Annex 'B' -- Page 6

Annexure-A**Dissenting Proposal u/s 9(2) of the Delimitation Act****ASSEMBLY CONSTITUENCY AS PROPOSED BY MAHENDRA KARMA,
ASSOCIATE MEMBER TO THE COMMISSION**

Note :- In my proposal, the districts of Raigarh, Raipur and Durg have been delimited afresh. Hence new seats by the name of Saria in place of Lailunga and Balodabazar in place of Simga and with new formation of Raipur city seats emerges. Apart from these some AC's have also contained changes. (In other district)

have also contained changes in other district)

S.N.	No. of Assembly Constituency	Assembly Constituency	Extent of Constituency	2001 Population		
			Name of Tehsil/RIC/PC	Total	SC	ST
KOREA DISTRICT – No Change						
1	1	Bharatpur-Sonhat (ST)	As Proposed by the Delimitation Commission	197870	14736	114894
					7.45%	58.07
2	2	Manendragarh	As Proposed by the Delimitation Commission	190971	18152	63146
					9.51%	33.07%
3	3	Baikunthpur	As Proposed by the Delimitation Commission	197486	15317	82000
					7.76%	41.52%
SARGUJA DISTRICT						
4	4	AC no. 4 should be named as Surajpur-Premnagar	Premnagar RIC	53039	1839	32013
			Ramanujnagar RIC	102839	6376	46915
			RIC Surajpur (Including Vishrampur CT)	65753	3727	21540
			Surajpur (Nagar Panchayat)	16834	979	2326
			RIC Pilkha (Part)			
			PC 40 Shivnandanpur	17586	1320	2454
			PC 43 Salka	6071	210	2498
			PC 44 Kuruwan	6186	732	2646
				268308	15183	110392

					5.65	41.14
5	5	Bhatgaon (ST)	Bhaiyathan RIC	120691	7455	59865
			Bhatgaon RIC (Less PC 28 Bhatgaon)	46609	2346	17703
			Pilkha RIC (Part)			
			PC 32 Karwan	6394	342	2988
			PC 33 Kalyanpur	8987	548	5013
			PC 34 Majira	7981	312	3223
			PC 35 Latori	5985	163	2626
			PC 36 Ajabnagar	11142	301	4588
			PC 37 Kamalpur	6263	260	3076
			PC 38 Silphili	8889	396	2917
			PC 39 Karampur	12855	773	5084
			PC 41 Kailashpur	6516	317	950
			PC 42 Pendakhi	11105	572	1296
				253417	13785	109329
					5.43%	41.14%
6	6	Pratappur (ST)	Pratappur Tehsil	122665	4490	76963
			Rajpur Tehsil	88908	2004	64400
			Bhatgaon	15890	1482	2502
				227463	7976	143865
					3.50	63.24
7	7	Ramanujanj (ST)	RIC Ramchandrapur (Excluding Balrampur)	124175	5486	63958

			Paal Urban	9855	431	798
			Wadrufnagar Tehsil	130551	7701	77215
				264581	13618	141971
					5.147	53.6588
8	8	Samri (ST)	Samri Tehsil	155839	8149	112261
			RIC Balrampur	89527	2883	53115
				245366	11032	165376
					4.4961	67.3997
9	9	Lundra (ST)	Lundra Tehsil	101304	3961	61397
			RIC Ambikapur-II	29567	1044	15548
			RIC Ambikapur-I (Part)			
			PC 13 Bardhodhi	3950	173	1617
			PC 14 Chindkalo	5757	507	3760
			PC 15 Karji	6041	306	2289
			PC 16 Kanthi	5182	144	2299
			PC 17 Sohga	7247	184	4857
			PC 18 Kareya	4829	277	3584
			PC 19 Lawaidih	5764	240	4182
			RIC Lakhanpur (Part)			
			PC 23 Pratappur	4885	254	3439
			PC 24 Argoti	9586	155	7628

			PC 25 Lipingi	4554	305	2731
			PC 26 Katinda	6501	229	5038
			PC 27 Kunwarpur	4949	421	3074
			PC 29 Beldagi	6772	720	3695
			PC 31 Amalbhitthi	7209	601	3064
			PC 32 Salka	5218	166	2691
			PC 33 Lahpatra	5266	321	766
				224581	10008	131659
					4.4563	58.6243
10	10	Ambikapur	RIC Ambikapur-I			
			PC 5 Ambikapur	12540	1332	5531
			PC 6 Namna Kala	30957	1289	12173
			PC 7	5915	3	2393
			PC 8	6068	375	2675
			PC 9	5390	262	3310
			PC 10	5631	402	2424
			PC 11	3802	20	1661
			PC 12	4077	0	188
			Ambikapur (Municipal Corporation)	66012	3062	7405
			RIC Lakhanpur (Part)			
			PC 28 Lakhanpur	9348	878	3391
			PC 30 Keori	6014	359	3010

			PC 34 Korja	6902	207	793
			PC 35 Andhla	4489	225	2540
			PC 36 Laton	5834	898	1662
			PC 37 Katkona	5770	208	3257
			PC 38 Khuntiya	6661	568	3979
			RIC Udaipur	66458	3937	42609
				251868	14025	99001
					5.5684	39.3067
11	11	Sitapur (ST)	As Proposed by the Delimitation Commission	236510	9210	175076
					3.89%	74.02%

JASHPUR DISTRICT – No Change

12	12	Jashpur (ST)	As Proposed by the Delimitation Commission	260102	10275	176703
					3.95%	67.94%
13	13	Kunkuri (ST)	As Proposed by the Delimitation Commission	226283	7645	125070
					3.38%	55.27%
14	14	Pathalgaon (ST)	As Proposed by the Delimitation Commission	256775	18480	168180
					7.20%	65.50%

RAIGARH DISTRICT

Note : Raigarh district should be delimited in following manner. Saria AC should be made instead of Lailunga.

15	16	Raigarh	Raigarh Tehsil (Part)			
			Raigarh Nagar Nigam (Full)	115908	19476	10743

			Raigarh RIC-1 (Full)	38298	5460	15857
			Tamnar RIC (Full)	78828	7423	41596
			Gharghoda Tehsil (Part)			
			Gharghoda Tehsil RIC (Part)			
			(Excluding PC No. 1, 2, 3, 13, 14)	33834	2557	20578
			Gharghoda Nagar Panchayat (Full)	8103	974	2581
				274971	35890	91355
					13.05%	33.22%
16	17	Sargangarh (SC)	Sarangarh Tehsil (Part)			
			Sarangarh RIC (Full)	79578	18244	17021
			Sarangarh NP (Full)	14459	1837	926
			Hardi RIC (Full)	98845	36736	9511
			Baramkela RIC (Part)			
			(Excluding PC No. 41, 42, 43, 44)	38960	5876	11119
				231842	626963	38577
					27.04%	16.63%
17	15	Sariya (New AC in place of Lailunga)	Raigarh Tehsil (Part)			
			Raigarh RIC-2 (Full)	23559	3413	7201
			Pusaur RIC (Part)	107516	15070	25113
			Excluding PC 26, 27, 28			
			Sarangarh Tehsil (Part)			
			Sariya RIC (Full)	71831	11519	13467
			Baramela RIC (Part)			
			PC 41 Khorigaon	5759	569	704

			PC 42 Budeli	95270	1619	1578
			PC 43 Tounsir	5174	1065	899
			PC 44 Lendhra	6027	871	1027
				229136	34126	49989
					14.89%	21.81%
18	18	Kharsiya	Kharsiya Tehsil (Full)	129157	14518	38098
			Raigarh Tehsil (Part)			
			Kirodimal Nagar RIC (Full)	62043	9111	16336
			Pusaur RIC (Part)			
			PC 26, Gorra	6907	1096	1689
			PC 27, Nawapara PC (Th)	4659	447	1237
			PC 28, Jatari	5397	398	737
			Dharamjaigarh Tehsil (Part)			
			PC 20, Rupunga	4308	162	3471
			PC 21, Khadgaon	3982	328	3051
			PC 22, Bartapali	4818	118	3748
			PC 23, Gersa	5738	162	4219
			PC 24, Purunga	3032	73	2167
			PC 25, Hati	3871	111	2820
			PC 26, Munund	2904	117	2116
			PC 27, Behramar	4078	290	2829
			PC 28, Kudekela	6163	223	3688

			PC 29, Maharaj Gang	3839	208	2393
			PC 30, Chhal	6518	451	3666
			PC 31, Nawapara	8844	1563	3620
			PC 32, Ketaipale	4708	128	3413
				270606	29504	99295
					10.90%	36.69%
19	19	Dharamjaigarh (ST)	Dharamjaigarh Tehsil (Part)			
			Kapu RIC (Full)	82540	5895	59594
			Dharamjaigarh NPT (Full)	13598	1108	4250
			Dharamjaigarh RIC (Part)			
			PC 15, Rajkot	4884	154	3923
			PC 16, Sisringa	7499	265	5752
			PC 17, Dharamjaigarh	1108	16	423
			PC 18, Dharamjaigarh	2666	0	3
			PC 19, Bisy	5010	249	3486
			Lailunga Tehsil (Full)	113531	8165	72149
			Gharghoda Tehsil (Part)			
			Ghargdhoda RIC (Part)			
			PC 1, Kaya	5610	336	4444
			PC 2, Baraud	4788	276	3439
			PC 3, Kusumkela	7560	321	4392
			PC 13, Konpara	4543	326	2833

			PC 14, Raikera	5637	420	3794
				258974	17531	168482
					6.76%	65.05%

KORBA DISTRICT – No Change

20	20	Rampur (ST)	As Proposed by the Delimitation Commission	245371	26110	132556
					10.64%	54.02%
21	21	Korba	As Proposed by the Delimitation Commission	263854	32838	34773
					12.45%	13.18%
22	22	Katghora	As Proposed by the Delimitation Commission	239575	30560	74842
					12.76%	31.24%
23	23	Pali-Tanakhar (ST)	As Proposed by the Delimitation Commission	263023	11452	177718
					4.35%	67.57%

BILASPUR DISTRICT

Note : Bilaspur district has minor changes, in terms of Marwahi AC and Kota AC rest of the AC's are unchanged

24	24	Marwahi (ST)	Marwahi Tehsil	99874	8676	60129
			Pendra Road Tehsil (Part)			
			Pendra RIC	67517	3250	41506
			Pendra NP	12397	966	1554
			Gaurela RIC (Part)			
			PC 19 Meduka	6667	292	4182

			PC 20 Korja	11093	530	7625
			PC 21 Newsa	12436	307	8263
			PC 22 Lalpur	7516	529	2199
			PC 34 Jogisar	10067	296	7607
			PC 35 Basti	7773	214	6098
				225340	15060	139163
						61.75%
25	25	Kota	Kota Tehsil (Part)	169208	18562	69686
			Excluding Part of Ratanpur RIC PC 16 Ranigaon, PC 19 Jothi)			
			Gaurela RIC (Part)			
			PC 23 Gaurela	4743	355	1380
			PC 24 Taraigaon	19329	444	13490
			PC 25 Sarbahara	12564	363	7470
			Gaurela NP	15189	1258	2989
				221033	20982	95015
						42.98%
26	26	Lormi	As Proposed by the Delimitation Commission	209819	19879	104351
					9.08%	47.66%
27	27	Mungeli (SC)	As Proposed by the Delimitation Commission	221073	62665	13537
					28.35%	6.12%
28	28	Takhatpur	As Proposed by the Delimitation Commission	217728	41368	28414

					19.00%	13.05%
29	29	Bilha	As Proposed by the Delimitation Commission	233063	46763	25314
					20.06%	10.86%
30	30	Bilaspur	As Proposed by the Delimitation Commission	235061	29785	10650
					12.67%	4.53%
31	31	Beltara	As Proposed by the Delimitation Commission	201534	47055	22618
					23.35%	11.22%
32	32	Masturi (SC)	As Proposed by the Delimitation Commission	223704	55207	28498
					24.68%	12.74%
<u>JANJGIR-CHAMPA DISTRICT – No Change</u>						
33	33	Akaltara	As Proposed by the Delimitation Commission	230427	50392	33432
					21.87%	14.51%
34	34	Janjgir-Champa	As Proposed by the Delimitation Commission	228927	49532	9495
					21.64%	4.15%
35	35	Shakti	As Proposed by the Delimitation Commission	217819	32642	41726
					14.99%	19.16%
36	36	Malkhroda	As Proposed by the Delimitation Commission	218689	48196	39467

					22.04%	18.05%
37	37	Chandrapur	As Proposed by the Delimitation Commission	215087	53554	20159
					24.90%	9.37%
38	38	Paingarh (SC)	As Proposed by the Delimitation Commission	206482	61883	8790
					29.97%	4.26%

MAHASAMUND DISTRICT – No Change

39	39	Saraipali (SC)	As Proposed by the Delimitation Commission	216305	32251	58274
					14.91%	26.94%
40	40	Basna	As Proposed by the Delimitation Commission	222803	20791	64119
					9.33%	28.78%
41	41	Khallari	As Proposed by the Delimitation Commission	204808	20845	67186
					10.18%	32.80%
42	42	Mahasamund	As Proposed by the Delimitation Commission	216341	30504	42906
					14.10%	19.83%

RAIPUR DISTRICT

Note : Raipur district should be delimited in following manner. Balodabazar AC should be made instead of Simga & new formation of Raipur's City seats is also proposed.

43	43	Bilaigarh (SC)	Bilaigarh Tehsil (Including Bilaigarh NP)	165255	51270	14595
			Kasdol Tehsil (Part)			
			Gidhauri R.I. Circle (Part)			

			15, Kot P.C.	2763	56	650
			16, Amoli P.C.	4012	691	91
			17, Hasvva P.C.	7271	758	478
			18, Gidhauri P.C.	8466	815	327
			19, Tundara P.C.	8716	1738	89
			20, Nardha P.C.	7109	1292	757
			21, Kotiyadih P.C.	8561	1857	1124
				212153	58421	17461
					27.90%	8.34%
44	44	Kasdol	Kasdol Tehsil Part			
			Kasdol R.I. Circle	58890	6689	12164
			Kasdol N.P. (New)	11405	1373	666
			Gidhori R.I. Circle Part			
			22 Sona Khan P.C.	6315	513	3592
			23, Bilari P.C.	5713	512	1854
			24, Raja Deori P.C.	7152	771	3574
			25, Dumarpalli	16222	1007	8293
			26, Mandip P.C.	7498	1238	2410
			Baloda Bazar Tehsil Part			
			Lawan R.I. Circle Part	66247	14903	5689
			Palari Tehsil Part			
			Palari R.I. Circle Part			

			18, Bhawanipur P.C.	3103	647	506
			26, Konari P.C.	3207	1245	308
			27, Lachchanpur P.C.	3329	779	86
			28, Saloni P.C.	4545	1652	984
			29, Sitapur P.C.	3982	1518	717
			30, Rohasi P.C.	5251	656	756
			31, Tipawan P.C.	4709	2665	172
			33, Udan, P.C.	3950	386	396
			34, Charoda P.C.	3164	477	393
				214682	37031	42560
					17.25%	19.82%
45	45	Bhatapara	Bhatapara Tehsil	140413	23384	22149
			(Including Bhatapara N.P.)			
			Simga Tehsil Part			
			Simga R.I. Circle	58508	13697	5061
			Simga N.P.	13143	1152	135
				211794	38233	27345
					18.05%	12.91%
46	46	Baloda Bazar (New AC inplace of Simga)	Baloda Bazar Tehsil Part			
			Baloda Bazar R.I. Circle	60009	9918	11755
			Baloda Bazar N.P.			
			Palare Tehsil Part			
			Sendi R.I. Circle			

			Palari R.I. Circle Part			
			19. Batgaon P.C.	3663	1051	127
			20. Ghotiya PC	4041	939	40
			21. Datan PC	3542	457	141
			22. Kosmandi P.C.	2974	844	194
			23. Amara P.C.	4038	1060	231
			24. Binouri P.C.	4261	1806	66
			25. Chharakapur P.C.	4008	761	130
			32. Palari P.C.	932	658	0
			Parari Nagar Panchayat			
			Simga Tehsil Part			
			Jaroud R.I. Circle	65095	11269	4905
				232338	46437	21748
					19.98%	9.36%
47	47	Dharsiwa	Raipur Tehsil Part			
			Dharsiwa-1 R.I. Circle	109739	15633	3794
			Dharsiwa-2 R.I. Circle	11898	2318	67
			Tilda Tehsil (Part)			
			Tilda R.I. Circle	73694	10310	3391
			Tilda Neora N.P. (M+OG)	26909	4180	955
				222240	32441	8207
					14.60%	3.70%
48	48	Raipur-Rural/Raipur (South)	Raipur (M.Corp.) Part			

		Raipur (M. Corp) W. No.-37.	7594	1421	139
		Raipur (M. Corp) W. No.-38.	14218	5137	650
		Raipur (M. Corp.) Ward No. 39	6968	451	521
		Raipur (M. Corp.) Ward No. 40	9710	530	182
		Raipur (M. Corp.) Ward No. 41	12562	911	5893
		Raipur (M. Corp.) Ward No. 42	11759	1147	500
		Raipur (M. Corp.) Ward No. 43	8506	141	233
		Raipur (M. Corp.) Ward No. 51	14047	601	762
		Raipur (M. Corp.) Ward No. 52	14242	725	187
		Raipur (M. Corp.) Ward No. 55	33700	4421	2075
		Tikrapara (Lalpur)			
		Changora bhata (OG) W.No. 61.	11476	453	694
		Mathpurena	521	17	26
		Bhathagown	7751	133	531
		Raipur (OG)	9178	954	429
		Raipur Tehsil Part			
		Raipur-1 R.I. Circle Part			
		35, Boriya Khurd P.C.	9083	667	552
		36, Sejbahar P.C.	8318	2621	690
		37, Boriya Kala P.C.	5194	838	81
		Abanpur Tehsil (Part)			
		Abanpur R.I. Circle (Part)			
		1. Sonpairi P.C.	5683	1679	370

			2. Rawei P.C.	5844	549	99
			3 Parsada	4876	131	525
			4. Poload P.C.	4344	86	354
			5. Kolar P.C.	5329	572	343
			13. Baktara P.C.	5052	901	462
			14 Bendri P.C.	5991	882	234
			15 Nimora P.C.	5479	1457	135
			17 Kendri P.C.	3766	1143	152
				237634	20881	11950
					12.78%	4.95%
49	49	Raipur-2 or Raipur West	Raipur Nagar Palika Nigan (Part)			
			Raipur (M.Corp.) Ward No. 1	14887	1071	638
			Raipur (M.Corp.) Ward No. 2	14882	2909	515
			Raipur (M.Corp.) Ward No. 3	7547	382	255
			Raipur (M.Corp.) Ward No. 4	13513	1223	955
			Raipur (M.Corp.) Ward No. 5	8865	54	239
			Raipur (M.Corp.) Ward No. 6	21510	2086	968
			Raipur (M.Corp.) Ward No. 7	12910	3875	270
			Raipur (M.Corp.) Ward No. 8	15227	3612	442
			Raipur (M.Corp.) Ward No. 9	10755	2461	177
			Raipur (M.Corp.) Ward No. 10	12965	1692	507
			Raipur (M.Corp.) Ward No. 11	11554	728	267

			Talibandh (OG) Ward No. 64	1044	92	74
			Hirapur Jarway (OG) W.No. 65	10008	781	271
			Jarway/Hirapur	1548	329	0
			Chandnidih	2143	229	146
			Atari	1428	54	120
			Gondwara	2713	1178	313
			Gogown (CT) W.No. 1	10456	2529	933
			Sandongri	2952	48	79
			Sarona	9820	1172	2043
			Raipur Tehsil Part			
			Raipur R.I. (Part)			
			32. Tatiband (Hathbandh)	598	36	7
			Birgown Nagar Palika	60289	8361	2830
				247614	34902	12049
					14.24%	4.91%
50	50	Raipur-1 or Central	Raipur Nagar Palika Nigam (Part)			
			Raipur (M.Corp.) Ward No. 12	9495	1613	365
			Raipur (M.Corp.) Ward No. 13	7461	692	305
			Raipur (M.Corp.) Ward No. 14	6843	258	61
			Raipur (M.Corp.) Ward No. 15	8445	374	80
			Raipur (M.Corp.) Ward No. 16	13532	541	116
			Raipur (M.Corp.) Ward No. 17	10802	1879	326

			Raipur (M. Corp.) Ward No. 18	12181	840	981
			Raipur (M. Corp.) Ward No. 19	12751	485	386
			Raipur (M. Corp.) Ward No. 20	9849	2417	428
			Raipur (M. Corp.) Ward No. 21	7080	1865	445
			Raipur (M. Corp.) Ward No. 22	7347	1035	476
			Raipur (M. Corp.) Ward No. 23	14413	2185	638
			Raipur (M. Corp.) Ward No. 24	5267	598	346
			Raipur (M. Corp.) Ward No. 25	9164	2885	347
			Raipur (M. Corp.) Ward No. 44	7433	320	241
			Raipur (M. Corp.) Ward No. 45	5089	453	1
			Raipur (M. Corp.) Ward No. 46	5672	43	30
			Raipur (M. Corp.) Ward No. 47	6632	12	42
			Raipur (M. Corp.) Ward No. 48	9551	1161	64
			Raipur (M. Corp.) Ward No. 49	7166	17	50
			Raipur (M. Corp.) Ward No. 50	6657	167	79
			Raipur (M. Corp.) Ward No. 53	8431	751	182
			Raipur (M. Corp.) Ward No. 54	24048	1542	1661
			Bhanpuri (CT) W.No. 1	16365	1509	649
			Khamatarai (OG) W.No. -66	4572	213	467
				236246	23855	8766
					10.10%	3.71%
51	51	Mandir Hasaud or Raipur (East)	Arang Tehsil (Part)			

			Mandir Hasaud R.I. Circle (Part)			
			13, Kurud P.C.	4734	1656	116
			14, Mandir Hasaud P.C.	10473	272	553
			15, Barauda P.C.	3104	2016	94
			Raipur Tehsil (Part)			
			Raipur R.I.- 1 Circle (Part)			
			24, Shankar Nagar P.C.	6223	639	252
			25, Tulsi P.C.	7454	2635	367
			26, Chherikhedi P.C.	9772	2728	355
			38, Dumartarai P.C.	17977	2336	848
			39, Mana P.C.	5556	1495	196
			Raipur R.I.-2 Circle (Part)			
			28, Tikarapara (Devpuri) P.C.	3930	1838	63
			Raipur Nagar Palika Nigam (Part)			
			Raipur (M.Corp.) Ward No. 26	11851	652	242
			Raipur (M.Corp.) Ward No. 27	9658	1316	296
			Raipur (M.Corp.) Ward No. 28	12898	2139	634
			Raipur (M.Corp.) Ward No. 29	8902	1535	565
			Raipur (M.Corp.) Ward No. 30	5966	1878	236
			Raipur (M.Corp.) Ward No. 31	9811	1612	669
			Raipur (M.Corp.) Ward No. 32	9797	2035	404
			Raipur (M.Corp.) Ward No. 33	11987	2009	761
			Raipur (M.Corp.) Ward No. 34	13017	1671	461

			Raipur (M. Corp.) Ward No. 35	10794	1468	422
			Raipur (M. Corp.) Ward No. 36	7836	1257	169
			Shankar Nagar (OG)	3333	158	166
			Mowa (CT.) Ward No. 1	13706	2355	615
			Daldai Sioni	4359	285	77
			Saddhoo	3003	397	39
			Purena (OG) Ward No. 59	9608	2571	240
			Fundahar	2178	168	81
			Amlidih	2424	109	87
			Amlidih (OG) Ward No. 60	2324	113	70
			Labhandih	3949	1238	68
			Labhandih (OG) Ward No. 58	752	75	24
			Telibandha (OG) Ward No. 57	8379	1233	395
				235755	44390	9565
					18.83%	4.06%
52	52	Arang (SC)	Arang Tehsil Part			
			Arang Nagar Panchayat	16629	1255	317
			Arang R.I. Circle (Part)			
			24. Rasni P.C.	5248	1373	222
			25. Khamtrai P.C.	4614	1002	47
			26. Farfaud P.C.	4407	890	15
			27. Bana P.C.	4803	1053	143

			28, Kharangi P.C.	4620	848	13
			29, Bhainsa P.C.	4567	1014	164
			30, Khorasi P.C.	2824	1073	100
			31, Bhandar P.C.	3611	2101	120
			32, Korasi P.C.	3962	844	100
			33, Pirda P.C.	2660	1239	48
			34, Amodi P.C.	4001	1794	150
			35, Kurud P.C.	5927	857	700
			36, Kusumund P.C.	5572	773	138
			37, Tulsī, P.C.	4557	672	285
			38, Sankari P.C.	4553	1522	62
			39, Banarasi P.C.	6447	432	123
			40, Deori P.C.	5298	1049	10
			41, Gullu P.C.	4637	1117	121
			42, Arang P.C.	0	0	0
			43, Paragan P.C.	4313	371	109
			Mandir Hasaud R.I. Circle (Part)			
			1. Nardaha P.C.	6043	1107	13
			2. Mangeli P.C.	5759	1928	71
			3. Chandkuri P.C.	7056	565	85
			4. Tekari P.C.	4062	665	18
			5. Dighari P.C.	4456	924	89
			6. Bhausoj P.C.	5307	2140	112

			7. Kukra P.C.	6328	1048	57
			8. Sioni P.C.	4721	375	295
			9. Godhi P.C.	5028	885	75
			10. Nawagaon P.C.	4501	1539	229
			11. Munrethi P.C.	2862	1781	0
			12. Bahnakadi P.C.	3182	1789	232
			Tilda Tehsil (Part)	69601	14440	1890
			Kharona R.I. Circle			
			Kharora Nagar Panchayat	7379	928	324
				239535	50828	6392
					21.86%	2.75%
53	53	Abhanpur	Abhanpur Tehsil (Part)			
			Nawapara R.I. Circle	81375	12480	5177
			Gobra-Nawapara N.P.	25591	3078	807
			Abhanpur R.I. Circle Part			
			6. Khorpa P.C.	5611	217	206
			7. Bhatgaon P.C.	5215	1876	307
			8. Belar P.C.	4165	374	349
			9. Nahana Chandi P.C.	4620	1411	195
			10. Nayak Bandha P.C.	6322	2449	114
			11. Abhanpur P.C.	1054	863	8
			12. Sarakhi P.C.	4996	1309	6
			16. Uparwara P.C.	5299	550	282

			18. Bhelwadih P.C.	3298	1510	191
			Abhanpur Nagar Panchayat			
			Arang Tehsil Part			
			23. Lakholi P.C.	5212	1617	342
			44. Nisda P.C.	620	355	232
			45. Bhilai P.C.	4842	1701	391
			46. Charaunda P.C.	4568	964	199
			47. Ban Charaunda P.C.	5009	449	425
			48. Gaurdhath P.C.	5074	189	258
			Mandir Hasuad R.I. Circle (Part)			
			16. Rakhi P.C.	3883	1198	188
			17. Kuhera P.C.	1499	814	0
			18. Palaud P.C.	6867	1492	111
			19. Ganaud P.C.	4257	906	410
			20. Kosamkhunta P.C.	3820	2510	137
			21. Parasada P.C.	4911	2006	70
			22. Reewa P.C.	6064	1135	577
				217575	42984	11606
					19.76%	5.33%
54	54	Rajim	Rajim Tehsil	145513	17962	16773
			(Including Rajim N.P. Neer)			
			Bindranawagarh Tehsil Part			

			Churra R.I. Circle	99728	6268	48979
			Gariyaband R.I. Circle Part			
			20. Kochbay P.C.	5645	192	3072
			21. Malgaon P.C.	4306	229	2344
				255192	14671	71168
					9.67%	27.89%
55	55	Bindranawagarh (ST)	Deobhog Tehsil	76861	10425	19331
			Bindranawagarh Tehsil Part			
			Mainpur R.I. Circle	104836	8398	55175
			Gariyaband R.I. Circle Part			
			17. Piparchhedikalan P.C.	8711	287	6722
			18. Fulkarra P.C.	5237	179	3323
			19. Parsuli P.C.	5087	251	2903
			22. Patharmohada P.C.	3550	217	1559
			23. Majarkata P.C.	4688	269	2364
			24. Paragaon P.C.	5628	330	3522
			25. Gariaband P.C.	11660	1891	2094
			26. Nahargaon P.C.	4583	134	2611
			27. Parsuli Khurd P.C.	4531	296	3404
			28. Amadi P.C.	5231	157	4201
			29. Bindranawagarh P.C.	6727	391	4614
			30. Dhawalpurdih P.C.	7140	641	4051

				254470	23886	118874
					9.38%	45.53%

DHANTARI DISTRICT - No Change

56	56	Sihawa (ST)	As Proposed by the Delimitation Commission	228263	9512	121686
					4.71%	53.31%
57	57	Kurud	As Proposed by the Delimitation Commission	228548	21059	20746
					9.21%	9.08%
58	58	Dhamtari	As Proposed by the Delimitation Commission	249780	18823	43083
					7.54%	17.25%

DURG DISTRICT

Note : Durg district should be delimited in following manner.

59	59	Sanjari Balod	Gurur Tehsil (Part)			
			PC No. 5 to 19	103761	6660	21813
			Balod Nagar Panchayat + Balod RIC	114023	7478	30187
				217784	14138	54900
					6.49%	25.20%
60	60	Dondi Lohara (ST)	Sanjari Baloda Tehsil (Part)			
			Dalli Rajhara RIC + (Dalli Rajhara M+OG)	155219	12934	77788
			Dondi Lohara RIC	78301	4574	44657
				233520	17508	122445

					7.49%	52.43%
61	61	Gunder Dehi	Kheratha RIC	88707	5433	32514
			Gurur Tehsil (Part)			
			PC 1 to 4	27171	1335	1774
			Gundardehi RIC	93650	11423	10410
			Arjunda RIC Part			
			PC 17 to 22	22578	1541	5128
				232106	19732	49826
					8.50%	21.46%
62	62	Patan	Patan RIC	87972	12014	7871
			Bhilai-3 RIC	99934	14989	10176
			Patan Nagar Panchayat	8812	795	818
			Kumhari Nagar Panchayat (Part)	7843	1495	570
			Kumhari Nagar Panchayat (Part)	21913	3102	1552
			Bhilai Charoda Nagar Palika (Part) ward No. 9 to 12.	10956	1717	1262
				237430	34112	22249
					14.36%	9.37%
63	63	Anda (Durg Rural) should be renamed as Anda)	Anda RIC	100760	14975	6221
			Durg - II RIC	24616	1935	2211

			Arjunda RIC-Part			
			PC 1 to 16	66030	10032	7214
			Bhilai Nagar Nigam Part			
			Ward No. 62 to 67	51395	9241	3894
				242801	36183	19540
					14.90%	8.04%
64	64	Durg City	Durg Nagar Nigam	232517	24862	9679
			Durg RIC – I Part			
			Anjora PC	7313	229	480
			Pulgaon PC	4229	613	312
				244059	25704	10471
					16.53%	4.29%
65	65	Bhilai Nagar	Ward No. 27 to 61 of Bhilai Municipal Corporation	252336	31230	16255
					12.37%	6.44%
66	66	Vaishali Nagar	Ward No. 1 to 26 of Bhilai Municipal Corporation	252635	35066	8831
					13.88%	3.49%
67	67	Ahiwara (SC)	Bhilai Charoda Nagar Palika (Part)	76629	11413	3790
			(Excluding Ward No. 9 to 12)			
			Jamul Nagar Palika (Complete)	21640	1514	889
			Ahiwara Nagar Panchayat	18719	3036	1262

			Ahiwara RIC Part			
			(Excluding PC No. 30, 31, 32, 33, 34)	70084	18314	4172
			Durg RIC Part			
			(Excluding Anjora PC, Pulgaon PC)	47739	5669	3087
				234811	39946	13200
					17.01%	5.62%
68	68	Saja	As Proposed by the Delimitation Commission	232518	23136	14243
					9.95%	6.13%
69	69	Bometara	As Proposed by the Delimitation Commission	216473	32418	7360
					14.98%	3.40%
70	70	Nawagarh (SC)	As Proposed by the Delimitation Commission	213963	50337	10381
					23.53%	4.85%

KBIRDHAM (KAWARDHA) DISTRICT

Note : Kabirdham (Kawardha) district should be delimited in following manner.

71	71	Pandariya	Pandariya Tehsil	181775	31892	42023
			Kawardha Tehsil (Part)			
			Bodala RIC	87845	6825	33709
			Dashrangpur RIC (Part)			
			PC 28 Jhalmala	4325	110	480

			PC 29 Marka	4445	254	434
			PC 30 Dhauraband	4074	603	204
			PC 31 Chechedi	4452	196	214
			PC 32 Ghurha	4450	175	531
				291366	40055	77595
					13.74%	26.63%
72	72	Kawardha	Kawardha RIC-1	87845	15355	8959
			Kawardha RIC-2	25515	4193	1742
			Virendranagar RIC	45872	3486	7293
			Rengakhar RIC	26397	382	16040
			Sahaspur Lohara RIC	51066	3573	6611
			Kawardha (M+OG)	32415	4121	1739
			Dashrangpur RIC (Part) PC No. 33 to 39	29003	3186	5430
				298113	34296	47814
					11.53%	16.03%

RAJNANDGAON DISTRICT – No Change

73	73	Khairagarh	As Proposed by the Delimitation Commission	224973	22701	28786
					10.09%	12.80%
74	74	Dongargarh (SC)	As Proposed by the Delimitation Commission	220777	28987	28675
					13.13%	12.99

75	75	Rajnandgaon	As Proposed by the Delimitation Commission	232707	29047	15199
					12.48%	6.53%
76	76	Dongargaon	As Proposed by the Delimitation Commission	21211	17814	49698
					8.40%	23.43%
77	77	Khujji	As Proposed by the Delimitation Commission	196922	17162	83113
					8.72%	42.21%
78	78	Mohla-Manpur (ST)	As Proposed by the Delimitation Commission	195726	11713	136217
					5.98%	69.60%

NORHT BASTAR (KANKERI) DISTRICT - No Change

79	79	Antagarh (ST)	As Proposed by the Delimitation Commission	207996	5568	100671
					2.68%	48.40%
80	80	Bhanupratappur (ST)	As Proposed by the Delimitation Commission	234175	13027	141618
					5.56%	60.48%
81	81	Kanker (ST)	As Proposed by the Delimitation Commission	208763	9068	122742
					4.34%	58.79%

BASTAR DISTRICT – No Change

82	82	Keshkal (ST)	As Proposed by the Delimitation Commission	239877	8577	174078
					3.58%	72.57%
83	83	Kondagaon (ST)	As Proposed by the Delimitation Commission	207608	9571	139050
					4.61%	66.98%
84	84	Bhanpuri (ST)	As Proposed by the Delimitation Commission	226688	85558	160338
					3.77%	70.73%
85	85	Bastar (ST)	Bastar RIC	63838	833	44566
			Karpawand RIC	54301	544	35003
			Bakawand RIC	71796	1725	44819
			Keshloor RIC (Part)			
			PC 62 Karanji	11215	90	7299
			PC 63 Chhapar Bhanpuri	8226	2	6240

			PC 64 Potanar	8033	0	6590
				217409	3194	144517
					1.47%	66.47%
86	86	Jagdalpur	Jagdalpur RIC-A	77602	846	49099
			Jagdalpur RIC-B	19227	464	10756
			Jagdalpur M+OG	103123	5737	16971
				199952	7047	76826
					3.52%	38.42%
87	87	Chitrakot (ST)	Bastanar RIC	43049	366	39276
			Chitrakot RIC	64662	706	47388
			Keshloor RIC (excluding PC No. 62, 63, 64)	38304	75	27415
			Darbha RIC	60437	556	51073
			Kukanar NP	8687	32	6527
				215139	1735	171679
					0.80%	79.79%
<u>SOUTH BASTAR (DANTEWADA) DISTRICT – No Change</u>						
88	88	Dantewada (ST)	As Proposed by the Delimitation Commission	247029	10859	173714
					4.40%	70.32%
89	89	Bijapur (ST)	As Proposed by the Delimitation Commission	241173	9672	196272
					4.01%	81.38%
90	90	Konta (ST)	As Proposed by the Delimitation Commission	231285	3622	194945
					1.57%	84.29%

PROPOSED ST ASSEMBLY CONSTITUENCY AND PERCENTAGE OF ST POPULATION

PROPOSED ASSEMBLY CONSTITUENCY FOR ST	29
---------------------------------------	----

S.No.	No. & Name of Proposed Assembly Constituency	2001 Census Population		
		Total	ST	ST % age
1.	90. Konta (ST)	231285	194945	84.29
2.	89. Bijapur (ST)	241173	196272	81.38
3.	87. Chitrakot (ST)	215139	171679	79.79
4.	11. Sitapur (ST)	236510	175076	74.02
5.	82. Keshkal (ST)	239877	174078	72.57
6.	84. Bhanpuri (ST)	226688	160338	70.73
7.	88. Dantewada (ST)	247029	173714	70.32
8.	78. Mohla-Manpur (ST)	195726	136217	69.60
9.	12. Jashpur (ST)	260102	176703	67.94
10.	23. Pali-Tanakhar (ST)	263023	177718	67.57
11.	8. Samri (ST)	245366	165376	67.40
12.	83. Kondagaon (ST)	207608	139050	66.98
13.	85. Bastar (ST)	217409	144517	66.47
14.	14. Pathalgaon (ST)	256775	168180	65.50
15.	19. Dharamjaigarh (ST)	258974	168482	65.05
16.	6. Pratappur (ST)	227463	143865	63.24
17.	80. Bhanupratappur (ST)	234175	141618	60.48
18.	24. Marwahi (ST)	235340	139163	59.13

19.	81. Kanker (ST)	208763	122742	58.79
20.	9. Lundra (ST)	224581	131659	58.62
21.	1. Bharatpur-Sonhat (ST)	197870	114894	58.07
22.	13. Kunkuri (ST)	226283	125070	55.27
23.	20. Rampur (ST)	245371	132556	54.02
24.	7. Ramanujganj (ST)	264581	141971	53.66
25.	56. Sihawa (ST)	228263	121686	53.31
26.	60. Dondi Lohara (ST)	233520	122445	52.43
27.	79. Antagarh (ST)	207996	100671	48.40
28.	55. Bindranawagarh (ST)	254470	115874	45.53
29.	5. Bhatgaon (ST)	253417	109329	43.14
30.	25. Kota	221033	95015	42.98
31.	77. Khuji	196922	83113	42.21
32.	3. Baikunthpur	197486	82000	41.52
33.	4. Surajpur-Premnagar	268308	110392	41.14
34.	10. Ambikapur	251868	99001	39.30
35.	86. Jagdalpur	199952	76286	38.42
36.	13. Kharsia	270606	99295	36.69
37.	16. Raigarh	274971	91355	33.22
38.	2. Manendragarh	190971	63146	33.07
39.	41. Khallari	204808	67186	32.80
40.	22. Katghora	239575	74842	31.24
41.	40. Basna	222803	64119	28.78

42.	54. Rajim	255192	71168	27.89
43.	71. Pandariya	286439	77595	27.08
44.	39. Saraipali (SC)	216305	58274	26.94
45.	59. Sanjari Balod	217784	54900	25.20
46.	76. Dongargaon	212119	49698	23.43
47.	15. Saria	229136	49989	21.81
48.	61. Gunderdehi	232106	49826	21.46
49.	42. Mahasamund	216341	42906	19.83
50.	44. Kasdol	214682	42560	19.82
51.	35. Shakti	217819	41726	19.16
52.	36. Malkhroda	218689	39467	18.05
53.	58. Dhamtari	249780	43083	17.25
54.	17. Sarangarh (SC)	231842	38577	16.63
55.	26. Lormi	209819	33895	16.15
56.	72. Kawardha	298113	47814	16.03
57.	33. Akaltara	230427	33432	14.51
58.	21. Korba	263854	34773	13.18
59.	28. Takhatpur	217728	28414	13.05
60.	74. Dongargarh (SC)	220777	28675	12.99
61.	45. Bhatapara	211794	27345	12.91
62.	73. Khairagarh	224973	28786	12.80
63.	32. Masturi (SC)	223704	28498	12.74
64.	31. Beltara	201534	22618	11.22

65.	29. Bilha	233063	25314	10.86
66.	37. Chandrapur	215087	20159	9.37
67.	62. Patan	237430	22249	9.37
68.	46. Baloda Bazar	232338	21748	9.36
69.	57. Kurud	228548	20746	9.08
70.	43. Bilaigarh (SC)	212513	17461	8.34
71.	63. Anda	242801	19540	8.04
72.	75. Rajnandgaon	232707	15199	6.53
73.	65. Bhilai Nagar	252336	16255	6.44
74.	68. Saja	232518	14243	6.13
75.	27. Mungeli (SC)	221073	13537	6.12
76.	67. Ahiwara (SC)	234811	13200	5.62
77.	53. Abhanpur	217575	11606	5.33
78.	51. Raipur Rural – South	237634	11950	4.95
79.	49. Raipur City West	247614	12049	4.91
80.	70. Nawagarh (SC)	213963	10381	4.85
81.	30. Bilaspur	235061	10650	4.53
82.	64. Durg City	244059	10471	4.29
83.	38. Pamgarh (SC)	206482	8790	4.26
84.	34. Janjgir – Champa	228927	9495	4.15
85.	48. Raipur East-or Mandir Hasod	235755	9565	4.06
86.	50. Raipur City Central	236246	8766	3.71
87.	47. Dharsiwa	222240	8207	3.70

88.	66. Vaishali Nagar	252635	8831	3.49
89.	69. Bemetara	216473	7360	3.40
90.	52. Arang (SC)	239535	6392	2.75

Annexure-B**Dissenting Proposal u/s 9(2) of the Delimitation Act****PARLIAMENTARY CONSTITUENCY AS PROPOSED BY MAHENDRA KUMAR,
ASSOCIATE MEMBER TO THE COMMISSION**

Note :- In my proposal, minimum required changes have been made to the formation already existed, hence Sarangarh PC re-emerges. Every PC's population is within the accepted range and 9 AC's have been given to Raipur PC as it has dense population compare to thinly populated Bastar. This formation makes all PC's as geographically compact, easily accessible, administratively easier to handle in election process and also in accordance to the sentiments to the public.

PROPOSED PARLIAMENTARY CONSTITUENCIES	11
AVERAGE PER P.C.	1893982
ACCEPTED RANGE	1704584-2083380
PROPOSED P.C. FOR ST	3
PROPOSED P.C. FOR SC	1

S.No	Name of the Loksabha	Assembly Constituency	District	Total Population	SC	ST
1	Sarguja	Bharatpur-Sonhat (ST)	Korea	197870	14736	114894
		Mahendragarh	Korea	190971	18152	63146
		Baikunthpur	Korea	197486	15317	82000
		Surajpur-Premangar	Sarguja	268308	15183	110392
		Bhatgaon (ST)	Sarguja	253417	13785	109329
		Pratappur (ST)	Sarguja	227463	7976	143865
		Ramanujanj (ST)	Sarguja	264581	13618	141971
		Ambikapur	Sarguja	251868	14025	99001
				1851964	112792	864598
					6.08%	46.69%
2	Raigarh (ST)	Lundra (ST)	Sarguja	224581	10008	131659
		Samri (ST)	Sarguja	245366	11032	165376
		Sitapur (ST)	Sarguja	236510	9210	175076
		Jashpur (ST)	Jashpur	260102	10275	176703

		Kunkuri (ST)	Jashpur	226283	7645	125070
		Pathalgaon (ST)	Jashpur	256775	18480	168180
		Dharamjaigarh (ST)	Raigarh	258974	17531	168482
		Raigarh	Raigarh	274971	35890	91355
				1983562	120071	1201901
					6.05%	60.60%
3.	Korba-Janjgir	Pali-Tanakhar (ST)	Korba	263023	11452	177718
		Rampur (ST)	Korba	245371	26110	132556
		Korba	Korba	263854	32838	34773
		Katghora	Korba	239575	30560	74842
		Sakti	Janjgir-Champa	217819	32642	417126
		Janjgir-Champa	Janjgir-Champa	228927	49532	9495
		Akaltara	Janjgir-Champa	230427	50392	33432
		Masturi (SC)	Bilaspur	223704	55207	28498
				1912700	288733	533040
					15.09%	27.86%
4.	Bilaspur	Marwahi (ST)	Bilaspur	235340	15060	139163
		Kota	Bilaspur	221033	20982	95015
		Lormi	Bilaspur	209819	50203	33875
		Mungeli (SC)	Bilaspur	221073	62665	13537
		Takhatpur	Bilaspur	217728	41368	28414
		Bilaspur	Bilaspur	235061	29785	10650
		Beltara	Bilaspur	201534	47055	22618
		Bilha	Bilaspur	233063	46763	25314
		Pandariya	Kabirdham	286439	40055	77595
				2061090	353936	446181
					17.17%	21.62%

3566-63/05-12

5	Sarangarh (SC)	Kharsiya	Raigarh	270606	29504	99295
		Sarangarh (SC)	Raigarh	231842	62693	38577
		Saria	Raigarh	229136	34126	49989
		Chandrapur	Janjgir-Champa	215087	53554	20159
		Malkharoda	Janjgir-Champa	218689	48196	39467
		Pamgarh (SC)	Janjgir-Champa	206482	61883	8790
		Bilaigarh (SC)	Raipur	212153	58421	17461
		Kasdol	Raipur	214682	37031	42560
				1798677	385408	316298
					21.42%	17.58%
6	Mahasamund	Mahasamund	Mahasamund	216341	30504	42906
		Khallari	Mahasamund	204808	20845	67186
		Saraipali (SC)	Mahasamund	216305	32251	58274
		Basana	Mahasamund	222803	20791	64119
		Rajim	Raipur	255192	14671	71168
		Bindranawagarh (ST)	Raipur	254470	23866	115874
		Kurud	Dhamtari	228548	21059	20746
		Dhamtari	Dhamtari	249780	18823	43083
				1848247	182810	483356
					9.89%	26.15%
7	Raipur	Abhanpur	Raipur	217575	42984	11606
		Aarang (SC)	Raipur	239535	50828	6392
		Raipur Rural-South	Raipur	237634	20881	11950
		Raipur Central	Raipur	236246	23855	8766
		Raipur West	Raipur	247614	34902	12049
		Raipur East-Mandir Hasod	Raipur	235755	44390	9565
		Dharsiwa	Raipur	222240	32441	8207

		Balodabazar	Raipur	232338	46437	21748
		Bhatapara	Raipur	211794	38233	27345
				2080731	334951	117628
					16.10%	5.85%
8	Durg	Patan	Durg	237430	34112	22249
		Durg Rural	Durg	242801	36183	19540
		Durg City	Durg	244059	25704	10471
		Vaishali Nagar	Durg	252835	35066	8831
		Bhilai Nagar	Durg	252336	31230	16255
		Ahiwara (SC)	Durg	234811	39946	13200
		Bemetara	Durg	216473	32418	7360
		Nawagarh (SC)	Durg	213963	50337	10381
				1894508	284996	108287
					18.04%	5.71%
9	Rajnandgaon	Mohala-Manpur (ST)	Rajnandgaon	195726	11713	138217
		Khujji	Rajnandgaon	196922	17182	83113
		Dongargaon	Rajnandgaon	212119	17814	49698
		Rajnandgaon	Rajnandgaon	232707	29047	15199
		Dongargarh (SC)	Rajnandgaon	220777	28987	28675
		Khairagarh	Rajnandgaon	224973	22701	28786
		Kawardha	Kabirdham	298113	34296	47814
		Saja	Durg	232518	23136	14243
				1813655	184656	403745
					10.19%	22.26%

10	Kanker	Sihawa (ST)	Dhamtari	228263	9512	121686
		Antagarh (ST)	North Bastar	207996	5568	100671
		Bhanupratappur (ST)	North Bastar	234175	13027	141618
		Kanker (ST)	North Bastar	208763	9068	122742
		Keskal (ST)	Bastar	239877	8577	174078
		Sanjari Balod	Durg	217784	14138	54900
		Gunderdehi	Durg	232106	19732	49826
		Dondilohara (ST)	Durg	233520	17508	122445
				1802484	97130	887966
					5.39%	49.26%
11	Bastar (ST)	Kondagaon (ST)	Bastar	207608	9571	139050
		Bhanpuri (ST)	Bastar	226688	8555	160338
		Bastar (ST)	Bastar	217409	3194	144517
		Chitrakot (ST)	Bastar	215139	1735	171879
		Jagdaiapur	Bastar	199952	7047	78626
		Dantewada (ST)	South Bastar	247029	10859	173714
		Bijapur (ST)	South Bastar	241173	9672	196272
		Konta (ST)	South Bastar	231285	3622	194945
				1786283	54255	1259341
					3.03%	70.39%

Yours truly

Sd/-

(Mahendra Karma)

Associate Member to the Commission

Ph. No. 2283624

2331055

2331064

MAHENDRA KARMA

NETA PRATIPAKSH,

CHHATTISGARH VIDHAN SABHA

492001

House : 'Bastar Kutir , B-5/10

Shankar Road, Civil Lines,

Raipur (Chhattisgarh)

Letter No. 1814/NPVS/200

Dated . 12/11/2005

To,

Delimitation Commission of India
Nirvachan Sadan, Ashoka Road,
New Delhi

Sub :- Dissenting Proposal in connection with Delimitation of constituencies of Chhattisgarh.**Ref. :-** Your Letter No. 282/CGH/2005-Vol.II/dated 25th Oct. 2005.

In the above subjected matter the draft proposals as sent by the Commission regarding division of the state in to assembly and parliamentary constituencies on the basis of 2001 census data the entitlement of seats for each district shown in paper-1 page-1 is not in accordance with the methodology for allocation of assembly constituencies to the districts and delimitation of assembly constituencies. As per methodology for allocation of assembly constituencies to the districts the total population of that district should be divided by the average population per constituencies and entitlement of a district on the basis of such state average contains a fraction, the fraction more than one half shall be counted as one and fraction less than one-half shall be ignored. In the draft proposals sent by the commission paper-1 page-1, entitlement of seats for Korla and Kabirdham districts are as follows:-

Name of District	Entitlement of Seats	
Korla	-	2.53 3
Kabirdham	-	2.53 3

Though having same fraction the entitlement of seats in the above 2 districts is different. Korla is entitled for 3 seats and Kabirdham is entitled for 2 seats. Hence I dissent the entitlement of assembly seats to Kabirdham district proposed by the commission and propose that Kabirdham district is also entitled for 3 seats with the name Virendra Nagar, Kawardha and Pandariya as per fraction.

I also suggest that as Lormi Pandariya was earlier one constituency, this status can be maintained now also and remaining Kabirdham district can be divided into two parts namely Kawardha and Virendra Nagar as it was earlier.

As per draft proposals, population of one assembly constituencies in Kabirdham district is 3,06,156 whereas average population of assembly constituencies in the state is 2,31,487 only and hence to rationalize the population of assembly constituencies in Kabirdham district, Pandariya may be joined with Lormi to form one constituency as earlier.

Thanking you,

Yours sincerely

Sd/-

(Mahender Karma)
Associate Member

Sd/-

(Bhupesh Baghel)
Associate Member

Ph. No. 2283624

2331055

2331064

MAHENDRA KARMA

NETA PRATIPAKSH,
CHHATTISGARH VIDHAN SABHA

House : 'Bastar Kutir', B-5/10
Shankar Road, Civil Lines,
Raipur (Chhattisgarh)
492001

Letter No. 1814/L.O.A.C./2005

Dated : 12/11/2005

Copy

Hon. Shri Kuldeep Singh,
Chairman,
Delimitation Commission,
New Delhi.

Subject: Regarding delimitation of Pal Assembly Constituency.

In the proposed delimitation of Chhattisgarh assembly constituency Sl. No. 5 Surguja district (ST) Wadarafnagar Tahsil is reserved and joined in the Pratappur assembly constituency. Doing this will not be justified keeping in view the geographical point of view that is, transportation, rivers and situation of hills of the areas with major population of tribes. Therefore, keeping Pal assembly constituency as before which includes Ramchandrapur and Wadarafnagar Tahsil, should be kept as it is in the present proposal and Balram R.I. Circle should be removed from this.

Sir, therefore, you are requested to publish this in original keeping in mind the comprehensive interest of the public.

Sd/-

(Mahender Karma)
Leader of Opposition
Chhattisgarh Assembly Constituency

III

Punnu Lal Mohale
Member of Parliament
Bilaspur, and
Member
Delimitation Commission
New Delhi

Vill. & Post-Dashrangpur,
Via Takhatpur, The. Mungeli
Distt. Bilaspur (Chhatisgarh),
Tele. No. (07755)-233351
Bilaspur(07752)-270900
13, North Avenue, New Delhi-11
Tele. No. 011-23094416
(M) -9425219600

Date: 11 November, 2005

To,

Honorable Chairman,
Delimitation Commission,
Nirvachan Sadan, New Delhi.

Subject: Reservation of Bilaspur Lok Sabha Constituency NO. 5 for Scheduled Caste(SC).

Under the subject is is stated that presently the Parliamentary Constituency No. 5 of Bilaspur of Chhattisgarh State is reserved for scheduled Caste.

In the delimitation proposal the Bilaspur Parliamentary Constituency No. 5 in shown as a General seat. Removing reservation from Bilaspur Parliamentary Constituency the Raigarh Lok Sabha Constituency No. 3 is being reserved for Scheduled Caste, which is not justifiable. My suggestion is as below:-

1. In proposed Raigarh Lok Sabha Constituency No. 3, four(04) districts with majority of scheduled caste is included in Assembly Constituencies and from the said Assembly Constituencies three Sarngarh(SC) No. 17(SC, Saraipali(SC) No. 39, Bilaigarh(SC), 43(SC) have majority of Scheduled caste the population are included Population of the said Parliamentary Constituency:-

Total Population	Scheduled Caste	Scheduled Tribes
1912986	359175-18-78%	377256-19.72%

Present Bilaspur District Parliamentary Constituency which was reserved for scheduled caste is shown as General category. In which 9(Nine) Assembly Constituencies are in told-

	Total Population	Scheduled Caste	Scheduled Tribe
Bilaspur District	1998355	369088-18.47%	397104-19.87%

The population of Assembly Constituency of one district total Raigarh Lok Sabha Constituency No. 3 including 04(Four) District as Raigarh district, Janjgir-Chamba District, Mahasamund District, Raipur District the population is

	Total Population	Scheduled Caste
Bilaspur District Lok Sabha	1998355	369088-18.47%
Raigarh District Lok Sabha	1912986	359175-18.78%

Therefore Lok Sabha constituency No. 3 has difference of 050.31% SC population over Bilaspur and Bilaspur Lok Sabha has 9913 more population then Raigarh No. 3 of one district only.

The Commission has given information in the document, published in the gazette that there is an obligatory provision to make the Lok Sabha and Assembly seats reserved for scheduled caste according to the population of high percentage.

Raigarh Lok Sabha constituency no. 3 has been made reserved on the basis of the high percentage (0.31%), after the assimilation of the four districts in this Lok Sabha constituency. It should not be reserved where Bilaspur Lok Sabha Constituency is comprised of only one district.

The population of Bilaspur Lok Sabha Constituency is 9913, which is more than that of Raigarh Lok Sabha which is comprised of 4 districts. So Bilaspur Lok Sabha Constituency no. 5 should be made reserved for the scheduled caste.

3. The Jarhagaon Assembly in Bilaspur district which is reserved for scheduled caste, is desolved, which is not justifiable.

4. Therefore you are requested that Bilaspur Lok Sabha constituency No. 05 should remain(asitis) reserved for scheduled caste.

Yours faithfully,

Sd/-

(Punnu Lal Mohale)

Member Delimitation Commission
New Delhi

Copy to

1. Honorable Speaker
Assembly Chhattisgarh Govt.
Raipur 12.08.2005

2. Shri B.L. Agrawal
Nirvachan Sadan, Chhattisgarh,
Raipur

Punnu Lal Mohale
Member of Parliament
Bilaspur, and
Member
Delimitation Commission
New Delhi

Vill. & Post-Dashrangpur,
Via Takhatpur, The. Mungeli
Distt. Bilaspur (Chhatisgarh),
Tele. No. (07755)-233351
Bilaspur(07752)-270900
13, North Avenue, New Delhi-11
Tele. No. 011-23094416
(M) -9425219600

Date: 14 November, 2005

To,

Hon'ble Chairman,
Delimitation Commission,
Nirvachan Sadan, New Delhi.

Subject: Jarhagaon Assembly Constituency under Bilaspur Lok Sabha constituency which was abolished earlier should be kept as it is - regarding.

Sir,

It is requested that Jarhagaon Legislative Assembly Constituency which is reserved as SC at present included in Bilaspur Parliamentary Constituency, has been abolished &

Jarhagaon R.I. Circle has been included in Mungeli Legislative Assembly Constituency and Pathria R.I. Circle has been included in Bilha Legislative Assembly Constituency which is wrong.

Therefore, Jarhagaon Legislative Assembly Constituency may not be abolished & it should be kept as it is.

Yours faithfully,

Sd/-

(Punnu Lal Mohale)

Member Delimitation Commission

New Delhi

Dated 11/11/2005

To,

Respected Chairman,
Delimitation Commission,
Nirvachan Sadan, Ashoka Road,
New Delhi-110001

Subject:- To make the Bilaspur Parliamentary Constituency reserved for the Scheduled Caste – regarding.

Sir,

It is requested that, we, the following undersigned members of the Delimitation Commission from the State of Chhattisgarh, earlier also requested you to make the Bilaspur Parliamentary Constituency reserved for the Scheduled Caste. It is also mentioned in the present draft sent by you that this matter it is under consideration.

Therefore you are again requested to make the Bilaspur Parliamentary Constituency reserved for the Scheduled Caste.

Sd/-

(Prem Prakash Pandey)

M.L.A.

Sd/-

(Baliram Kashyap)
Member of Parliament

Sd/-

(Ajay Chandrakar)

MLA

Sd/-

(Ramesh Bais)
Member of Parliament

Sd/-

(Smt. Karuna Shakula)
Member of Parliament

Sd/-

(Punulal Mohale)
Member of Parliament

To,

Respected Chairman,
Delimitation Commission,
Nirvachan Sadan, Ashoka Road,
New Delhi-110001

Subject:- To make the Bilaspur Parliamentary Constituency reserved for the Scheduled Caste- Regarding

Sir,

It is requested that, we, the following undersigned members of the Delimitation Commission from the State of Chhattisgarh, earlier also requested you to make the Bilaspur Parliamentary Constituency reserved for the Scheduled Caste. It is also mentioned in the present draft sent by you that this matter it is under consideration.

Therefore you are again requested to make the Bilaspur Parliamentary Constituency reserved for the Scheduled Caste.

Sd/-

(Brijmohan Agrawal)
M.L.A., Raipur (C.G.)

Vikram Das Mohale
MLO
Ava No. 27
Mungeli,
Distt. Bilaspur (Chhattisgarh)

MLA, Rest House
Ayodiya Apartment
G-6, Raipur
Phone No. 331185
Janpat Sarai Bhawan,
Parav Chowk,
Mungeli, Distt. Bilaspur,
Chhattisgarh,
Phone. No. 56108-51864
Bilaspur P.No. 35580

Date: 14 November, 2005

To,

Election Commissioner,
Chhattisgarh Govt.,
Raipur (Chhattisgarh)

Subject: To reserve the Bilaspur Lok Sabha as SC – Regarding

Sir,

It is stated that Bilaspur Lok Sabha which falls under Bilaspur Distt. In Chhattisgarh State is reserved as scheduled Caste at present & Jarhagaon Legislative Assembly & Mungeli Legislative Assembly are reserved for scheduled caste under the said

Lok Sabha Jarhagaon Legislative Assembly is being abolished in (Gerent delimitation & Bilaspur Lok Sabha was reserved for SC category which is now being made as General category. So, it is requested that inview of majority of publication of scheduled caste in Bilaspur Lok Sabha, the above Boiaspur Lok Sabha Constituency may be reserved as Scheduled Caste.

Yours faithfully,

Sd/-

(Vikram Das Mohale)

IV

Baliram Kashyap
Member of Parliament(Lok Sabha)
20, Bastar (Chhattisgarh)

22, Janpath, New Delhi
Ph: 23782357
Village+Post Office. Bhanpuri
Ph: (07867) 282606
Tahsil. Jadalpur
Ph: 225210
Distt. Bastar (Chhattisgarh)

Letter No. 897/2005

Date: 11 November, 2005

Copy.

Director,
Delimitation Commission, Chhattisgarh State
Nirvachan Sadan, New Delhi.

Subject: Regarding the reservation of Kanker Lok Sabha Constituency for ST.

The proposed Kanker Lok Sabha Constituency by Delimitation Commission including Sihawa, Dhamtari, Balod, Dondi Lohara, Gunderdehi, Antagarh, Bhanupratappur, Kanker and Keskai assembly constituencies are proposed to be reconstructed.

It should be mentioned that the proposed 6 assembly constituencies out of 9 assembly constituencies of the Kanker Lok Sabha constituency are in the reserved category for the ST. On this basis please reserve Kanker Lok Sabha constituency for ST.

Please take necessary action in this matter.

Sd/-
(Baliram Kashyap)

Baliram Kashyap
Member of Parliament(Lok Sabha)
20, Bastar (Chhattisgarh)

22, Janpath, New Delhi
Ph: 23782357
Village+Post Office. Bhanpuri
Ph: (07867) 282606
Tahsil. Jadalpur
Ph: 225210
Distt. Bastar (Chhattisgarh)

Letter No. 897/2005

Date: 11 November, 2005

Copy.

Director,
Delimitation Commission, Chhattisgarh State
Nirvachan Sadan, New Delhi.

The proposed assembly constituency of Chhattisgarh State after the following amendments, is proposed for reconstruction by the Delimitation Commission.

Sl. No.	Name of the Assembly Constituency	Proposed area which is to be included	Population according to 2001 census.		
			Total	S.T.	Perc-entage of S.T.
1.	Jagdalpur	Jagdalpur R.I. Circle— A (Excluding Patwar Circle No. 59. Palligaon, Kumarwanda and Patwar circle No. 61, Ghatpadmur and Titirgaon) Jagdalpur(M+OG) Entire Darbha R.I.Circle	73119	46851	
			103123	16971	
			69124	57500	
			245366	121322	
		Total	245366	121322	49.44

Chitrakot	Keshloor RIC	65778		
	Bastanar RIC	43049		
	Chitrakot RIC	64662		
	Jagdalpur RIC-A			
	59-Patwari Circle			
	Palligaon	478		
	Kumharagaon	684		
	Patwari Circle			
	Ghatpadmur	2129		
	Titirgaon	1192		
		177972	136456	76.67

It should be mentioned that Darba R.I.Circle should be included in Jagdalpur and Chitrakot assembly constituency which is proposed to be included entirely in Jagdalpur assembly constituency.

It is also proposed that from Jagdalpur R.I.Circle –A Patwar Circle No. 59 Palligaon, Kumharwanda and Patwar Circle No. 61 Ghatpadmur and Titirgaon should be included in Chitrakot assembly constituency according to the geographical point of view.

Therefore, keeping in mind the population and the percentage of the ST in the Jagdalpur assembly constituency, Jagdalpur assembly constituency should be reserved (ST).

Sd/-
(Baliram Kashyap)
[F. No. 282/CGH/2005-Vol. III]

By Order,
SHANGARA RAM, Secy.